



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1  
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 76]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 8, 2019/फाल्गुन 17, 1940

No. 76]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 8, 2019/PHALGUNA 17, 1940

वस्त्र मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 मार्च, 2019

**वस्त्र क्षेत्र की सहायता के लिए राज्य एवं केंद्र द्वारा लागू करों में छूट प्रदान करने के लिए योजना**

**सं. 14/26/2016-आईटी (खंड-II)**—परिधान और मेड-अप्स क्षेत्रों की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए इन क्षेत्रों पर लगाए गए सभी राज्य और केंद्रीय करों और लेवियों पर छूट प्रदान करने के भारत सरकार के निर्णय के अनुसरण में वस्त्र मंत्रालय ने स्क्रिप आधारित प्रणाली के माध्यम से परिधानों और मेड-अप्स के निर्यात पर राज्य और केंद्रीय करों और लेवियों पर छूट (आरओएससीटीएल) की योजना अधिसूचित की है।

2. आरओएससीटीएल योजना की दरें, एतद्वारा, इस अधिसूचना की अनुसूची 1, 2, 3 और 4 के रूप में अधिसूचित की जाती हैं। इस योजना की दरें दिनांक 07.03.2019 से अर्थात् दिनांक 07.03.2019 की अधिसूचना सं. 14/26/2016-आईटी(खंड-II) के तहत प्रकाशित योजना के दिशानिर्देशों की अधिसूचना की तारीख से प्रभावी होंगी और दिनांक 31.03.2020 तक लागू रहेंगी। अनुसूची 1 और 2 की दरें परिधान और मेड-अप्स के लिए क्रमशः राज्य और केंद्रीय करों और लेवियों की दरें हैं। अनुसूची 3 और 4 की दरें क्रमशः राज्य और केंद्रीय करों और लेवियों की दरें हैं जो अपैरल निर्यात पर उस समय लागू होंगी जब विशेष अग्रिम प्राधिकार योजना के तहत केवल फैब्रिक (इंटर लाइनिंग सहित) को शुल्क मुक्त आयात किया गया हो।

3. यह अधिसूचना वस्त्र मंत्रालय की दिनांक 24.11.2017 की अधिसूचना सं. 14/26/2016-आईटी के अधिक्रमण में जारी की जाती है।

अदिति दास राउत, व्यापार सलाहकार

## अनुसूची 1: राज्य करों और लेवियों की दरें

अध्याय – 61				
निटिड या क्रोचेटेड अपैरल और क्लोदिंग एसेसरीज की वस्तुएं				
टैरिफ मद	वस्तुओं का विवरण	इकाई	दरें (% में)	प्रति इकाई सीमा रुपए में
1	2	3	4	5
<b>6101</b>	<b>पुरुष या लड़कों का ओवरकोट, कारकोट, टोपी, चोगा, अनोरेक (स्काई-जैकेट सहित), विंड-चिटर, विंड-जैकेट और इसी प्रकार की वस्तुएं, निटिड या क्रोचेटेड, 6103 शीर्ष के अलावा 6103</b>			
610101	कपास का	पीस	3.60	68.2
610102	कपास और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	3.13	36.2
610103	मानव निर्मित फाइबर का	पीस	2.65	31.1
610104	रेशम का (नोइल रेशम के अलावा)	पीस	2.65	59.3
610105	ऊन का	पीस	2.65	123.0
610106	ऊन और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	2.65	91.3
610199	अन्य का	पीस	2.65	34.8
<b>6102</b>	<b>शीर्ष 6104 के अलावा निटेड अथवा क्रोचेटेड महिलाओं अथवा लड़कियों के ओवरकोट, कार-कोट, कैप्स, क्लॉक्स, एनोरेक्स (स्काई जैकेट सहित) विंड चीटर्स, विंड जैकेट और ऐसे ही वस्तुएं</b>			
610201	कपास का	पीस	2.90	55.0
610202	कपास और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	2.78	32.1
610203	मानव निर्मित फाइबर का	पीस	2.65	31.1
610204	रेशम का (नोइल रेशम के अलावा)	पीस	2.65	59.3
610205	ऊन का	पीस	2.65	123.0
610206	ऊन और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	2.65	91.3
610299	अन्य का	पीस	2.65	34.8
<b>6103</b>	<b>पुरुषों अथवा लड़कों के सूट, ऐनसेंबल्स, जैकेट, ब्लेजर, पायजामा, बिब एंड ब्रेस ओवरआल्स, ब्रीचेज एंड शॉर्ट्स (स्विम वियर के अलावा), निटिड या क्रोचेटेड</b>			
<b>610301</b>	<b>सूट (कम से कम एक पायजामा और एक जैकेट का कंबीनेशन)</b>			
61030101	कपास का	पीस	3.60	105.7
61030102	कपास और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	3.13	64.2
61030103	मानव निर्मित फाइबर का	पीस	2.65	54.6
61030104	रेशम का (नोइल रेशम के अलावा)	पीस	2.65	97.6
61030105	ऊन का	पीस	2.65	188.8
61030106	ऊन और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	2.65	140.1
61030199	अन्य का	पीस	2.65	59.2
<b>610302</b>	<b>जैकेट, ब्लेजर</b>			
61030201	कपास का	पीस	3.60	68.2
61030202	कपास और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	3.13	36.2
61030203	मानव निर्मित फाइबर का	पीस	2.65	31.1

61030204	रेशम का (नोइल रेशम के अलावा)	पीस	2.65	59.3
61030205	ऊन का	पीस	2.65	123.0
61030206	ऊन और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	2.65	91.3
61030207	स्पेंडेक्स/लाइक्रा/इलास्टेन का 1% या इससे अधिक वजन वाले कपास का	पीस	3.60	68.0
61030299	अन्य का	पीस	2.65	34.8
<b>610303</b>	<b>पायजामा, फुल पैट</b>			
61030301	कपास का	पीस	3.60	37.4
61030302	कपास और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	3.13	28.0
61030303	मानव निर्मित फाइबर का	पीस	2.65	23.3
61030304	रेशम का (नोइल रेशम के अलावा)	पीस	2.65	38.4
61030305	ऊन का	पीस	2.65	65.8
61030306	ऊन और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	2.65	48.8
61030307	स्पेंडेक्स/लाइक्रा/इलास्टेन का 1% या इससे अधिक वजन वाले कपास का	पीस	3.60	37.4
61030399	अन्य का	पीस	2.65	24.4
<b>610304</b>	<b>अन्य (कैपरी/ तीन-चौथाई पैट और ऐनसेंबल्स सहित)</b>			
61030401	कपास का	पीस	2.90	17.7
61030402	कपास और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	2.50	14.5
61030403	मानव निर्मित फाइबर का	पीस	2.10	12.1
61030404	रेशम का (नोइल रेशम के अलावा)	पीस	2.10	22.1
61030405	ऊन का	पीस	2.10	19.3
61030406	ऊन और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	2.10	19.3
61030407	स्पेंडेक्स/लाइक्रा/इलास्टेन का 1% या इससे अधिक वजन वाले कपास का	पीस	2.90	18.1
61030499	अन्य का	पीस	2.10	12.2
<b>6104</b>	<b>महिलाओं और लड़कियों के सूट, ऐनसेंबल्स, जैकेट, ब्लेजर, ड्रेस, स्कर्ट, डिवाइडेड स्कर्ट, पायजामा, बिब एंड ब्रेस ओवरऑल, ब्रीचेज एंड शॉर्ट्स (स्विम वियर के अलावा), निटिड या क्रोचेटेड</b>			
<b>610401</b>	<b>सूट (कम से कम एक पायजामा और एक जैकेट का कंबीनेशन)</b>			
61040101	कपास का	पीस	2.90	85.1
61040102	कपास और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	2.78	57.0
61040103	मानव निर्मित फाइबर का	पीस	2.65	54.6
61040104	रेशम का (नोइल रेशम के अलावा)	पीस	2.65	97.6
61040105	ऊन का	पीस	2.65	188.8
61040106	ऊन और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	2.65	140.1
61040199	अन्य का	पीस	2.65	59.2
<b>610402</b>	<b>जैकेट, ब्लेजर</b>			
61040201	कपास का	पीस	2.90	55.0
61040202	कपास और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	2.78	32.1
61040203	मानव निर्मित फाइबर का	पीस	2.65	31.1
61040204	रेशम का (नोइल रेशम के अलावा)	पीस	2.65	59.3

61040205	ऊन का	पीस	2.65	123.0
61040206	ऊन और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	2.65	91.3
61040207	स्पेंडेक्स/लाइक्रा/इलास्टेन का 1% या इससे अधिक वजन वाले कपास का	पीस	2.90	54.8
61040299	अन्य का	पीस	2.65	34.8
<b>610403</b>	<b>ट्रेसेस/फ़ोक्स, स्कर्ट्स, डिवाइडेड स्कर्ट्स, पायजामा, फुल पैट</b>			
61040301	कपास का	पीस	3.60	37.4
61040302	कपास और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	3.13	28.0
61040303	मानव निर्मित फाइबर का	पीस	2.65	23.3
61040304	रेशम का (नोइल रेशम के अलावा)	पीस	2.65	38.4
61040305	ऊन का	पीस	2.65	65.8
61040306	ऊन और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	2.65	48.8
61040307	स्पेंडेक्स/लाइक्रा/इलास्टेन का 1% या इससे अधिक वजन वाले कपास का	पीस	3.60	37.4
61040399	अन्य का	पीस	2.65	24.4
<b>610404</b>	<b>अन्य (कैपरी/ तीन-चौथाई पैट और ऐनसेंबल्स सहित)</b>			
61040401	कपास का	पीस	2.90	17.7
61040402	कपास और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	2.50	14.5
61040403	मानव निर्मित फाइबर का	पीस	2.10	12.1
61040404	रेशम का (नोइल रेशम के अलावा)	पीस	2.10	22.1
61040405	ऊन का	पीस	2.10	19.3
61040406	ऊन और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	2.10	19.3
61040407	स्पेंडेक्स/लाइक्रा/इलास्टेन का 1% या इससे अधिक वजन वाले कपास का	पीस	2.90	18.1
61040499	अन्य का	पीस	2.10	12.2
<b>6105</b>	<b>पुरुष या लड़कों की शर्ट, निटिड या क्रोचेटेड</b>			
610501	कपास का	पीस	3.60	37.4
610502	कपास और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	2.85	18.4
610503	मानव निर्मित फाइबर का	पीस	2.10	13.1
610504	रेशम का (नोइल रेशम के अलावा)	पीस	2.10	35.7
610505	ऊन का	पीस	2.10	14.5
610506	ऊन और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	2.10	14.5
610507	स्पेंडेक्स/लाइक्रा/इलास्टेन का 1% या इससे अधिक वजन वाले कपास का	पीस	3.60	37.4
610599	अन्य का	पीस	2.10	15.8
<b>6106</b>	<b>महिलाओं और लड़कियों का ब्लाउज, शर्ट्स और शर्ट-ब्लाउज, निटिड या क्रोचेटेड</b>			
610601	कपास का	पीस	2.90	24.4
610602	कपास और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	2.50	16.1
610603	मानव निर्मित फाइबर का	पीस	2.10	13.1
610604	रेशम का (नोइल रेशम के अलावा)	पीस	2.10	35.7
610605	ऊन का	पीस	2.10	14.5
610606	ऊन और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	2.10	14.5
610607	स्पेंडेक्स/लाइक्रा/इलास्टेन का 1% या इससे अधिक वजन वाले कपास का	पीस	2.90	24.4

610699	अन्य का	पीस	2.10	15.8
<b>6107</b>	<b>पुरुष या लड़कों का अंडरपैट, ब्रीफ, नाइटशर्ट, पायजामा, बाथरोब्स, ड्रेसिंग गाउन और इस प्रकार की वस्तुएं, निटिड या क्रोचेटेड</b>			
<b>610701</b>	<b>नाइटशर्ट, पायजामा, बाथरोब्स, ड्रेसिंग गाउन और इस प्रकार की वस्तुएं</b>			
61070101	कपास का	पीस	3.60	21.1
61070102	कपास और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	2.85	16.5
61070103	मानव निर्मित फाइबर का	पीस	2.10	12.9
61070104	रेशम का (नोइल रेशम के अलावा)	पीस	2.10	16.6
61070105	ऊन का	पीस	2.10	14.5
61070106	ऊन और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	2.10	14.5
61070107	स्पेंडेक्स/लाइक्रा/इलास्टेन का 1% या इससे अधिक वजन वाले कपास का	पीस	3.60	21.2
61070199	अन्य का	पीस	2.10	12.2
<b>610702</b>	<b>ब्रीफ, अंडरपैट और इस प्रकार की वस्तुएं</b>			
61070201	कपास का	पीस	2.90	6.1
61070202	कपास और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	2.50	4.5
61070203	मानव निर्मित फाइबर का	पीस	2.10	3.6
61070204	रेशम का (नोइल रेशम के अलावा)	पीस	2.10	11.9
61070205	ऊन का	पीस	2.10	4.1
61070206	ऊन और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	2.10	4.1
61070207	स्पेंडेक्स/लाइक्रा/इलास्टेन का 1% या इससे अधिक वजन वाले कपास का	पीस	2.90	6.1
61070299	अन्य का	पीस	2.10	4.2
<b>6108</b>	<b>महिला या लड़कियों की स्लिप, पेटीकोट, ब्रीफ, पेंटीज़, नाइट ड्रेसेज़, पायजामा, नेगलिगीज़, बाथरोब, ड्रेसिंग गाउन और इस प्रकार की वस्तुएं, निटिड या क्रोचेटेड</b>			
<b>610801</b>	<b>नाइट ड्रेसेज़ (नाइट शर्ट सहित), पायजामा, नेगलिगीज़, बाथरोब और ड्रेसिंग गाउन और इस प्रकार की वस्तुएं</b>			
61080101	कपास का	पीस	3.60	21.1
61080102	कपास और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	2.85	16.5
61080103	मानव निर्मित फाइबर का	पीस	2.10	12.9
61080104	रेशम का (नोइल रेशम के अलावा)	पीस	2.10	16.6
61080105	ऊन का	पीस	2.10	14.5
61080106	ऊन और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	2.10	14.5
61080107	स्पेंडेक्स/लाइक्रा/इलास्टेन का 1% या इससे अधिक वजन वाले कपास का	पीस	3.60	21.2
61080199	अन्य का	पीस	2.10	12.2
<b>610802</b>	<b>स्लिप, पेटीकोट, ब्रीफ, पेंटीज़ और इस प्रकार की वस्तुएं</b>			
61080201	कपास का	पीस	2.90	6.1
61080202	कपास और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	2.50	4.5
61080203	मानव निर्मित फाइबर का	पीस	2.10	3.6
61080204	रेशम का (नोइल रेशम के अलावा)	पीस	2.10	11.9
61080205	ऊन का	पीस	2.10	4.1
61080206	ऊन और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	2.10	4.1

61080207	स्पेंडेक्स/लाइक्रा/इलास्टेन का 1% या इससे अधिक वजन वाले कपास का	पीस	2.90	6.1
61080299	अन्य का	पीस	2.10	4.2
<b>6109</b>	<b>टी-शर्ट, सिंगलेट और अन्य वेस्ट, निटिड या क्रोचेटेड</b>			
610901	कपास का	पीस	2.90	13.8
610902	कपास और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	2.10	9.8
610903	मानव निर्मित फाइबर का	पीस	2.10	10.1
610904	रेशम का (नोइल रेशम के अलावा)	पीस	2.10	22.1
610905	ऊन का	पीस	2.10	10.4
610906	ऊन और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	2.10	10.4
610907	स्पेंडेक्स/लाइक्रा/इलास्टेन का 1% या इससे अधिक वजन वाले कपास का	पीस	2.90	14.5
610999	अन्य का	पीस	2.10	9.1
<b>6110</b>	<b>जर्सी, पुलओवर, कार्डिगन्स, वेस्टकोट और इस प्रकार की वस्तुएं, निटिड या क्रोचेटेड</b>			
611001	कपास का	पीस	3.60	40.7
611002	कपास और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	2.85	25.5
611003	मानव निर्मित फाइबर का	पीस	2.10	19.3
611004	रेशम का (नोइल रेशम के अलावा)	पीस	2.10	30.4
611005	ऊन का	पीस	2.10	32.9
611006	ऊन और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	2.10	27.9
611007	स्पेंडेक्स/लाइक्रा/इलास्टेन का 1% या इससे अधिक वजन वाले कपास का	पीस	3.60	42.8
611099	अन्य का	पीस	2.10	19.3
<b>6111</b>	<b>बच्चों के परिधान और क्लोदिंग एसेसरीज, निटिड या क्रोचेटेड</b>			
611101	कपास का	पीस	2.25	8.9
611102	कपास और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	2.18	8.3
611103	मानव निर्मित फाइबर का	पीस	2.10	8.6
611104	रेशम का (नोइल रेशम के अलावा)	पीस	2.10	11.9
611105	ऊन का	पीस	2.10	9.7
611106	ऊन और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	2.10	9.7
611107	स्पेंडेक्स/लाइक्रा/इलास्टेन का 1% या इससे अधिक वजन वाले कपास का	पीस	2.25	10.6
611199	अन्य का	पीस	2.10	9.5
<b>6112</b>	<b>ट्रेक सूट, स्काई सूट और स्विमवियर, निटिड या क्रोचेटेड</b>			
611201	कपास का	पीस	2.25	9.0
611202	कपास और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	2.18	8.3
611203	मानव निर्मित फाइबर का	पीस	2.10	8.6
611204	रेशम का (नोइल रेशम के अलावा)	पीस	2.10	11.9
611205	ऊन का	पीस	2.10	9.7
611206	ऊन और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	2.10	9.7
611207	स्पेंडेक्स/लाइक्रा/इलास्टेन का 1% या इससे अधिक वजन वाले कपास का	पीस	2.25	10.6
611299	अन्य का	पीस	2.10	9.5
<b>6113</b>	<b>शीर्ष 5903, 5906 अथवा 5907 के निटिड अथवा क्रोचेटेड फैब्रिक्स के बने</b>			

	परिधान			
611301	कपास का	पीस	2.90	13.8
611302	कपास और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	2.50	11.7
611303	मानव निर्मित फाइबर का	पीस	2.10	10.1
611304	रेशम का (नोइल रेशम के अलावा)	पीस	2.10	13.0
611305	ऊन का	पीस	2.10	10.4
611306	ऊन और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	2.10	10.4
611399	अन्य का	पीस	2.10	9.1
<b>6114</b>	<b>अन्य परिधान, निटिड या क्रोचेटेड</b>			
<b>611401</b>	<b>नीचे कसाव के साथ निटिड अथवा क्रोचेटेड महिलाओं अथवा लड़कियों के ब्लाउज, शर्ट और शर्ट ब्लाउज,</b>			
61140101	कपास का	पीस	2.90	24.4
61140102	कपास और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	2.50	16.1
61140103	मानव निर्मित फाइबर का	पीस	2.10	13.1
61140104	रेशम का (नोइल रेशम के अलावा)	पीस	2.10	35.7
61140105	ऊन का	पीस	2.10	14.5
61140106	ऊन और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	2.10	14.5
61140107	स्पेंडेक्स/लाइक्रा/इलास्टेन का 1% या इससे अधिक वजन वाले कपास का	पीस	2.90	24.4
61140199	अन्य का	पीस	2.10	15.8
<b>611402</b>	<b>महिलाओं अथवा लड़कियों के टॉप्स/कैमी</b>			
61140201	कपास का	पीस	2.90	24.4
61140202	कपास और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	2.50	16.1
61140203	मानव निर्मित फाइबर का	पीस	2.10	13.1
61140204	रेशम का (नोइल रेशम के अलावा)	पीस	2.10	35.7
61140205	ऊन का	पीस	2.10	14.5
61140206	ऊन और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	2.10	14.5
61140207	स्पेंडेक्स/लाइक्रा/इलास्टेन का 1% या इससे अधिक वजन वाले कपास का	पीस	2.90	24.4
61140299	अन्य का	पीस	2.10	15.8
<b>611403</b>	<b>शीर्ष 6103 अथवा 6104 के अंतर्गत शामिल नहीं किए गए अन्य जैकेट</b>			
61140301	कपास	पीस	2.90	55.0
61140302	कपास और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	2.78	32.1
61140303	मानव निर्मित फाइबर का	पीस	2.65	31.1
61140304	रेशम का (नोइल रेशम के अलावा)	पीस	2.65	59.3
61140305	ऊन का	पीस	2.65	123.0
61140306	ऊन और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	2.65	91.3
61140399	अन्य का	पीस	2.65	34.8
<b>611404</b>	<b>दुपट्टा के साथ अथवा उसके बिना कुर्ता और सलवार/सलवार सूट/सलवार कमीज/चूड़ीदार कमीज</b>			
61140401	कपास	पीस	3.60	56.2
61140402	कपास और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	3.13	42.8

61140403	मानव निर्मित फाइबर का	पीस	2.65	37.5
61140404	रेशम का (नोइल रेशम के अलावा)	पीस	2.65	62.8
61140405	ऊन का	पीस	2.65	54.8
61140406	ऊन और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	2.65	54.9
61140499	अन्य का	पीस	2.65	38.3
<b>611405</b>	<b>अन्य</b>			
61140501	कपास	पीस	2.90	13.8
61140502	कपास और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	2.50	11.7
61140503	मानव निर्मित फाइबर का	पीस	2.10	10.1
61140504	रेशम का (नोइल रेशम के अलावा)	पीस	2.10	13.0
61140505	ऊन का	पीस	2.10	10.4
61140506	ऊन और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	2.10	10.4
61140507	सुरक्षात्मक औद्योगिक वियर	पीस	2.10	25.1
61140599	अन्य का	पीस	2.10	9.1
<b>6115</b>	<b>निटेड अथवा क्रोचेटेड ग्रेजुएटेड कमप्रेशन हॉजरी (उदाहरण के लिए बेरी कोस विन्स के लिए स्टॉकिंग्स) सहित पैंटी होस, टाइट्स स्टॉकिंग्स, शॉक्स और अन्य हॉजरी</b>			
<b>611501</b>	<b>लैंगिर्स</b>			
61150101	कपास का	पीस	3.60	22.0
61150102	कपास और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	2.85	16.5
61150103	मानव निर्मित फाइबर का	पीस	2.10	12.1
61150104	रेशम का (नोइल रेशम के अलावा)	पीस	2.10	22.1
61150105	ऊन का	पीस	2.10	19.3
61150106	ऊन और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	2.10	19.3
61150107	स्पैन्डेक्स/लैग्रा/इलास्टेन के भार द्वारा 1% अथवा अधिक वाले कॉटन का	पीस	3.60	22.5
61150199	अन्य का	पीस	2.10	12.2
<b>611502</b>	<b>अन्य</b>			
61150201	कपास का	क्रि.ग्रा.	2.90	53.4
61150202	कपास और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	क्रि.ग्रा.	2.50	42.1
61150203	मानव निर्मित फाइबर का	क्रि.ग्रा.	2.10	38.6
61150204	रेशम का (नोइल रेशम के अलावा)	क्रि.ग्रा.	2.10	140.9
61150205	ऊन का	क्रि.ग्रा.	2.10	43.4
61150206	ऊन और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	क्रि.ग्रा.	2.10	43.5
61150207	स्पेन्डेक्स/लाइक्रा/इलास्टेन का 1% या इससे अधिक वजन वाले कपास का	क्रि.ग्रा.	2.90	58.0
61150299	अन्य का	क्रि.ग्रा.	2.10	35.9
<b>6116</b>	<b>निटेड या क्रोचेटेड, ग्लोब्स, मिटेंस और मिट्स</b>			
611601	कपास का	क्रि.ग्रा.	2.90	53.4
611602	कपास और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	क्रि.ग्रा.	2.50	42.1
611603	मानव निर्मित फाइबर का	क्रि.ग्रा.	2.10	38.6



611604	रेशम का (नोइल रेशम के अलावा)	कि.ग्रा.	2.10	140.9
611605	ऊन का	कि.ग्रा.	2.10	43.4
611606	ऊन और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	कि.ग्रा.	2.10	43.5
611607	वस्त्र पदार्थों से बने गोल्फ ग्लव्स के नाम वाले खेलों में विशेषता प्रयोग होने वाले ग्लव्स	पीस	2.10	5.8
611699	अन्य का	कि.ग्रा.	2.10	35.9
<b>6117</b>	<b>निटेड अथवा क्रोचेटेड अन्य तैयार क्लोदिंग एसेसरीज, परिधानों अथवा क्लोदिंग, एसेसरीज के निटेड अथवा क्रोचेटेड</b>			
<b>611701</b>	<b>शॉल, स्कॉफ, मफलर, स्टॉल, मंटीलास और वेल्स</b>			
61170101	कपास का	पीस	2.90	12.9
61170102	कपास और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	2.78	10.6
61170103	मानव निर्मित फाइबर का	पीस	2.65	10.8
61170104	रेशम का (नोइल रेशम के अलावा)	पीस	2.65	27.2
61170105	ऊन का	पीस	2.65	11.6
61170106	ऊन और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	2.65	11.6
61170199	अन्य का	पीस	2.65	11.5
<b>611702</b>	<b>अन्य</b>			
61170201	कपास का	कि.ग्रा.	2.90	53.4
61170202	कपास और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	कि.ग्रा.	2.50	42.1
61170203	मानव निर्मित फाइबर का	कि.ग्रा.	2.10	38.6
61170204	रेशम का (नोइल रेशम के अलावा)	कि.ग्रा.	2.10	140.9
61170205	ऊन का	कि.ग्रा.	2.10	43.4
61170206	ऊन और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	कि.ग्रा.	2.10	43.5
61170299	अन्य का	कि.ग्रा.	2.10	35.9

## अध्याय - 62

## गैर निटेड या क्रोचेटेड अपैरल और क्लोदिंग एसेसरीज की वस्तुएं

टैरिफ मद	वस्तुओं का विवरण	इकाई	दरें (% में)	प्रति इकाई सीमा रुपए में
1	2	3	4	5
<b>6201</b>	<b>पुरुषों अथवा लड़कों के ओवरकोट, कार-कोट, क्लोक्स, अनोरेक्स (स्काई जैकेट सहित), विंड चीटर्स, विंड जैकेट और शीर्ष 6203 के अलावा ऐसे ही अन्य सामान</b>			
620101	कपास का	पीस	3.6	68.2
620102	कपास और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	3.13	36.2
620103	मानव निर्मित फाइबर का	पीस	2.65	31.1
620104	रेशम का (नोइल रेशम के अलावा)	पीस	2.65	59.3
620105	ऊन का	पीस	2.65	123.0
620106	ऊन और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	2.65	91.3

620199	अन्य का	पीस	2.65	34.8
<b>6202</b>	<b>महिलाओं अथवा लड़कियों के ओवरकोट, कार-कोट, कैप्स, क्लॉक्स, अनोरेक्स (स्काई जैकेट सहित), विंड चीटर्स, विंड जैकेट और शीर्ष 6204 के अलावा ऐसे ही अन्य सामान</b>			
620201	कपास का	पीस	2.90	55.0
620202	कपास और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	2.78	32.1
620203	मानव निर्मित फाइबर का	पीस	2.65	31.1
620204	रेशम का (नोइल रेशम के अलावा)	पीस	2.65	59.3
620205	ऊन का	पीस	2.65	123.0
620206	ऊन और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	2.65	91.3
620299	अन्य का	पीस	2.65	34.8
<b>6203</b>	<b>पुरुषों अथवा लड़कों के सूट, ऐनसेंबल्स, जैकेट, ब्लेजर, पायजामा, बिब एंड ब्रेस ओवरऑल्स, ब्रीचेज एंड शॉर्ट्स (स्विमवियर के अलावा)</b>			
<b>620301</b>	<b>सूट (कम से कम एक पायजामा और एक जैकेट का कंबीनेशन)</b>			
62030101	कपास का	पीस	3.60	105.7
62030102	कपास और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	3.13	64.2
62030103	मानव निर्मित फाइबर का	पीस	2.65	54.6
62030104	रेशम का (नोइल रेशम के अलावा)	पीस	2.65	97.6
62030105	ऊन का	पीस	2.65	188.8
62030106	ऊन और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	2.65	140.1
62030199	अन्य का	पीस	2.65	59.2
<b>620302</b>	<b>जैकेट, ब्लेजर</b>			
62030201	कपास का	पीस	3.60	68.2
62030202	कपास और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	3.13	36.2
62030203	मानव निर्मित फाइबर का	पीस	2.65	31.1
62030204	रेशम का (नोइल रेशम के अलावा)	पीस	2.65	59.3
62030205	ऊन का	पीस	2.65	123.0
62030206	ऊन और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	2.65	91.3
62030207	स्पेडेक्स/लाइक्रा/इलास्टेन का 1% या इससे अधिक वजन वाले कपास का	पीस	3.60	68.0
62030299	अन्य का	पीस	2.65	34.8
<b>620303</b>	<b>पायजामा, फुल पैंट</b>			
62030301	कपास का	पीस	3.60	37.4
62030302	कपास और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	3.13	28.0
62030303	मानव निर्मित फाइबर का	पीस	2.65	23.3
62030304	रेशम का (नोइल रेशम के अलावा)	पीस	2.65	38.4
62030305	ऊन का	पीस	2.65	65.8
62030306	ऊन और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	2.65	48.8

62030307	स्पेंडेक्स/लाइक्रा/इलास्टेन का 1% या इससे अधिक वजन वाले कपास का	पीस	3.60	37.4
62030399	अन्य का	पीस	2.65	24.4
<b>620304</b>	<b>अन्य (कैपरी/ तीन-चौथाई पैट और ऐनसेंबल्स सहित)</b>			
62030401	कपास का	पीस	2.90	17.7
62030402	कपास और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	2.50	14.5
62030403	मानव निर्मित फाइबर का	पीस	2.10	12.1
62030404	रेशम का (नोइल रेशम के अलावा)	पीस	2.10	22.1
62030405	ऊन का	पीस	2.10	19.3
62030406	ऊन और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	2.10	19.3
62030407	स्पेंडेक्स/लाइक्रा/इलास्टेन का 1% या इससे अधिक वजन वाले कपास का	पीस	2.90	18.1
62030499	अन्य का	पीस	2.10	12.2
<b>6204</b>	<b>महिलाओं और लड़कियों के सूट, ऐनसेंबल्स, जैकेट, ब्लेजर, ड्रेसेस, स्कर्ट, डिवाइडेड स्कर्ट, पायजामा, बिब एंड ब्रेस ओवरऑल्स, ब्रीचेज एंड शॉर्ट्स (स्विमवियर के अलावा)</b>			
<b>620401</b>	<b>सूट (कम से कम एक पायजामा और एक जैकेट का कंबीनेशन)</b>			
62040101	कपास का	पीस	2.90	85.1
62040102	कपास और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	2.78	57.0
62040103	मानव निर्मित फाइबर का	पीस	2.65	54.6
62040104	रेशम का (नोइल रेशम के अलावा)	पीस	2.65	97.6
62040105	ऊन का	पीस	2.65	188.8
62040106	ऊन और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	2.65	140.1
62040199	अन्य का	पीस	2.65	59.2
<b>620402</b>	<b>जैकेट, ब्लेजर</b>			
62040201	कपास का	पीस	2.90	55.0
62040202	कपास और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	2.78	32.1
62040203	मानव निर्मित फाइबर का	पीस	2.65	31.1
62040204	रेशम का (नोइल रेशम के अलावा)	पीस	2.65	59.3
62040205	ऊन का	पीस	2.65	123.0
62040206	ऊन और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	2.65	91.3
62040207	स्पेंडेक्स/लाइक्रा/इलास्टेन का 1% या इससे अधिक वजन वाले कपास का	पीस	2.90	54.8
62040299	अन्य का	पीस	2.65	34.8
<b>620403</b>	<b>ड्रेसेस/फ्रॉक्स, स्कर्ट, डिवाइडेड स्कर्ट, पायजामा, फूल पैट</b>			
62040301	कपास का	पीस	3.60	37.4
62040302	कपास और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	3.13	28.0
62040303	मानव निर्मित फाइबर का	पीस	2.65	23.3
62040304	रेशम का (नोइल रेशम के अलावा)	पीस	2.65	38.4

62040305	ऊन का	पीस	2.65	65.8
62040306	ऊन और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	2.65	48.8
62040307	स्पेंडेक्स/लाइक्रा/इलास्टेन का 1% या इससे अधिक वजन वाले कपास का	पीस	3.60	37.4
62040399	अन्य का	पीस	2.65	24.4
<b>620404</b>	<b>अन्य (कैपरी/ तीन-चौथाई पैंट और ऐनसेंबल्स सहित)</b>			
62040401	कपास का	पीस	2.90	17.7
62040402	कपास और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	2.50	14.5
62040403	मानव निर्मित फाइबर का	पीस	2.10	12.1
62040404	रेशम का (नोइल रेशम के अलावा)	पीस	2.10	22.1
62040405	ऊन का	पीस	2.10	19.3
62040406	ऊन और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	2.10	19.3
62040407	स्पेंडेक्स/लाइक्रा/इलास्टेन का 1% या इससे अधिक वजन वाले कपास का	पीस	2.90	18.1
62040499	अन्य का	पीस	2.10	12.2
<b>6205</b>	<b>पुरुष या लड़कों की शर्ट</b>			
620501	कपास का	पीस	3.60	37.4
620502	कपास और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	2.85	18.4
620503	मानव निर्मित फाइबर का	पीस	2.10	13.1
620504	रेशम का (नोइल रेशम के अलावा)	पीस	2.10	35.7
620505	ऊन का	पीस	2.10	14.5
620506	ऊन और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	2.10	14.5
620507	स्पेंडेक्स/लाइक्रा/इलास्टेन का 1% या इससे अधिक वजन वाले कपास का	पीस	3.60	37.4
620599	अन्य का	पीस	2.10	15.8
<b>6206</b>	<b>महिलाओं और लड़कियों का ब्लाउज, शर्ट्स और शर्ट-ब्लाउज</b>			
620601	कपास का	पीस	2.90	24.4
620602	कपास और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	2.50	16.1
620603	मानव निर्मित फाइबर का	पीस	2.10	13.1
620604	रेशम का (नोइल रेशम के अलावा)	पीस	2.10	35.7
620605	ऊन का	पीस	2.10	14.5
620606	ऊन और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	2.10	14.5
620607	स्पेंडेक्स/लाइक्रा/इलास्टेन का 1% या इससे अधिक वजन वाले कपास का	पीस	2.90	24.4
620699	अन्य का	पीस	2.10	15.8
<b>6207</b>	<b>पुरुषों और लड़कों के सिनालेट और अन्य वेस्ट्स, अंडरपैंट, ब्रीफ्स, नाइटशर्ट्स, पायजामा, बाथ-रॉब्स, ट्रेसिंग गॉउन्स और ऐसे ही सामान</b>			
<b>620701</b>	<b>ट्रेसिंग गॉउन्स, बाथरॉब्स, पायजामा, नाइटशर्ट्स और ऐसे ही सामान</b>			
62070101	कपास का	पीस	3.60	21.1
62070102	कपास और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	2.85	16.5

62070103	मानव निर्मित फाइबर का	पीस	2.10	12.9
62070104	रेशम का (नोइल रेशम के अलावा)	पीस	2.10	16.6
62070105	ऊन का	पीस	2.10	14.5
62070106	ऊन और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	2.10	14.5
62070107	स्पेंडेक्स/लाइक्रा/इलास्टेन का 1% या इससे अधिक वजन वाले कपास का	पीस	3.60	21.2
62070199	अन्य का	पीस	2.10	12.2
<b>620702</b>	<b>सिन्गल और अन्य वेस्ट्स, अंडरपैट, ब्रीफ्स और ऐसे ही सामान</b>			
62070201	कपास का	पीस	2.90	6.1
62070202	कपास और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	2.50	4.5
62070203	मानव निर्मित फाइबर का	पीस	2.10	3.6
62070204	रेशम का (नोइल रेशम के अलावा)	पीस	2.10	11.9
62070205	ऊन का	पीस	2.10	4.1
62070206	ऊन और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	2.10	4.1
62070207	स्पेंडेक्स/लाइक्रा/इलास्टेन का 1% या इससे अधिक वजन वाले कपास का	पीस	2.90	6.1
62070299	अन्य का	पीस	2.10	4.2
<b>6208</b>	<b>महिलाओं और लड़कियों का सिंगलेट और अन्य वेस्ट्स, स्लिप, पेटीकोट्स, ब्रीफ, पेंटीज, नाइट ड्रेस, पायजामा, नेगलीगेस, बाथरॉब्स, ड्रेसिंग गॉउन्स और ऐसे ही सामान</b>			
<b>620801</b>	<b>ड्रेसिंग गॉउन्स, बाथरॉब्स, पायजामा, नेगलीगेस, नाइट ड्रेस (नाइटशर्ट्स सहित) और ऐसे ही सामान</b>			
62080101	कपास का	पीस	3.60	21.1
62080102	कपास और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	2.85	16.5
62080103	मानव निर्मित फाइबर का	पीस	2.10	12.9
62080104	रेशम का (नोइल रेशम के अलावा)	पीस	2.10	16.6
62080105	ऊन का	पीस	2.10	14.5
62080106	ऊन और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	2.10	14.5
62080107	स्पेंडेक्स/लाइक्रा/इलास्टेन का 1% या इससे अधिक वजन वाले कपास का	पीस	3.60	21.2
62080199	अन्य का	पीस	2.10	12.2
<b>620802</b>	<b>सिंगलेट और अन्य वेस्ट्स, स्लिप, पेटीकोट, ब्रीफ, पेंटीज और इस प्रकार की वस्तुएं</b>			
62080201	कपास का	पीस	2.90	6.1
62080202	कपास और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	2.50	4.5
62080203	मानव निर्मित फाइबर का	पीस	2.10	3.6
62080204	रेशम का (नोइल रेशम के अलावा)	पीस	2.10	11.9
62080205	ऊन का	पीस	2.10	4.1
62080206	ऊन और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	2.10	4.1
62080207	स्पेंडेक्स/लाइक्रा/इलास्टेन का 1% या इससे अधिक वजन वाले कपास का	पीस	2.90	6.1
62080299	अन्य का	पीस	2.10	4.2

<b>6209</b>	<b>बच्चों के कपड़े और क्लोदिंग एसेसरीज</b>			
620901	कपास का	पीस	2.25	8.9
620902	कपास और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	2.18	8.3
620903	मानव निर्मित फाइबर का	पीस	2.10	8.6
620904	रेशम का (नोइल रेशम के अलावा)	पीस	2.10	11.9
620905	ऊन का	पीस	2.10	9.7
620906	ऊन और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	2.10	9.7
620907	स्पेंडेक्स/लाइक्रा/इलास्टेन का 1% या इससे अधिक वजन वाले कपास का	पीस	2.25	10.6
620999	अन्य का	पीस	2.10	9.5
<b>6210</b>	<b>शीर्ष 5602, 5603, 5903, 5906 या 5907 के परिधान, फैब्रिक्स के मेड-अप्स</b>			
621001	कपास का	पीस	2.90	13.8
621002	कपास और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	2.50	11.7
621003	मानव निर्मित फाइबर का	पीस	2.10	10.1
621004	रेशम का (नोइल रेशम के अलावा)	पीस	2.10	13.0
621005	ऊन का	पीस	2.10	10.4
621006	ऊन और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	2.10	10.4
621099	अन्य का	पीस	2.10	9.1
<b>6211</b>	<b>ट्रैक सूट, स्काई सूट और स्विमवियर; अन्य परिधान</b>			
<b>621101</b>	<b>नीचे कसाव वाले महिलाओं और लड़कियों का ब्लाउज, शर्ट्स और शर्ट-ब्लाउज</b>			
62110101	कपास का	पीस	2.90	24.4
62110102	कपास और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	2.50	16.1
62110103	मानव निर्मित फाइबर का	पीस	2.10	13.1
62110104	रेशम का (नोइल रेशम के अलावा)	पीस	2.10	35.7
62110105	ऊन का	पीस	2.10	14.5
62110106	ऊन और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	2.10	14.5
62110107	स्पेंडेक्स/लाइक्रा/इलास्टेन का 1% या इससे अधिक वजन वाले कपास का	पीस	2.90	24.4
62110199	अन्य का	पीस	2.10	15.8
<b>621102</b>	<b>महिलाओं अथवा लड़कियों के टॉप्स/कैमी</b>			
62110201	कपास का	पीस	2.90	24.4
62110202	कपास और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	2.50	16.1
62110203	मानव निर्मित फाइबर का	पीस	2.10	13.1
62110204	रेशम का (नोइल रेशम के अलावा)	पीस	2.10	35.7
62110205	ऊन का	पीस	2.10	14.5
62110206	ऊन और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	2.10	14.5
62110207	स्पेंडेक्स/लाइक्रा/इलास्टेन का 1% या इससे अधिक वजन वाले कपास का	पीस	2.90	24.4
62110299	अन्य का	पीस	2.10	15.8

<b>621103</b>	<b>शीर्ष 6203 अथवा 6204 के अंतर्गत शामिल नहीं किए अन्य जैकेट</b>			
62110301	कपास का	पीस	2.90	55.0
62110302	कपास और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	2.78	32.1
62110303	मानव निर्मित फाइबर का	पीस	2.65	31.1
62110304	रेशम का (नोइल रेशम के अलावा)	पीस	2.65	59.3
62110305	ऊन का	पीस	2.65	123.0
62110306	ऊन और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	2.65	91.3
62110399	अन्य का	पीस	2.65	34.8
<b>621104</b>	<b>सुरक्षात्मक औद्योगिक वियर</b>			
62110401	समग्र रूप से कपास के बने सुरक्षात्मक औद्योगिक वियर	पीस	2.90	53.5
62110402	कपास के बने अन्य सुरक्षात्मक औद्योगिक वियर	पीस	2.90	34.7
62110403	समग्र रूप से अरामिड फाइबर अथवा मोडाएक्रिलिक फाइबर से बने सुरक्षात्मक औद्योगिक वियर	पीस	2.10	71.7
62110404	अरामिड फाइबर से बने अन्य सुरक्षात्मक औद्योगिक वियर	पीस	2.10	48.6
62110405	समग्र रूप से मोडाएक्रिलिक फाइबर से बने सुरक्षात्मक औद्योगिक वियर	पीस	2.10	66.5
62110406	मोडाएक्रिलिक फाइबर से बने अन्य सुरक्षात्मक औद्योगिक वियर	पीस	2.10	44.4
62110499	अन्य सुरक्षात्मक औद्योगिक वियर	पीस	2.10	25.1
<b>621105</b>	<b>दुपट्टा के साथ अथवा उसके बिना कुर्ता और सलवार/सलवार सूट/सलवार कमीज/चूड़ीदार कमीज</b>			
62110501	कपास का	पीस	3.60	56.2
62110502	कपास और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	3.13	42.8
62110503	मानव निर्मित फाइबर का	पीस	2.65	37.5
62110504	रेशम का (नोइल रेशम के अलावा)	पीस	2.65	62.8
62110505	ऊन का	पीस	2.65	54.8
62110506	ऊन और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	2.65	54.9
62110599	अन्य का	पीस	2.65	38.3
<b>621106</b>	<b>अन्य</b>			
62110601	कपास का	पीस	2.90	13.8
62110602	कपास और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	2.50	11.7
62110603	मानव निर्मित फाइबर का	पीस	2.10	10.1
62110604	रेशम का (नोइल रेशम के अलावा)	पीस	2.10	13.0
62110605	ऊन का	पीस	2.10	10.4
62110606	ऊन और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	2.10	10.4
62110699	अन्य का	पीस	2.10	9.1
<b>6212</b>	<b>ब्रेजियर, गर्डल्स, कोरसेट, ब्रेसेस, सस्पेंडर्स, गार्टस और ऐसे ही अन्य सामान और तत्संबंधी पाटर्स, चाहे निटेड हो अथवा क्रोचेटेड हो अथवा नहीं हो</b>			
621201	कपास का	क्रि.ग्रा.	2.90	53.4

621202	कपास और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	कि.ग्रा.	2.50	42.1
621203	मानव निर्मित फाइबर का	कि.ग्रा.	2.10	38.6
621204	रेशम का (नोइल रेशम के अलावा)	कि.ग्रा.	2.10	140.9
621205	ऊन का	कि.ग्रा.	2.10	43.4
621206	ऊन और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	कि.ग्रा.	2.10	43.5
621299	अन्य का	कि.ग्रा.	2.10	35.9
<b>6213</b>	<b>रुमाल</b>			
621301	कपास का	कि.ग्रा.	2.90	53.4
621302	कपास और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	कि.ग्रा.	2.50	42.1
621303	मानव निर्मित फाइबर का	कि.ग्रा.	2.10	38.6
621304	रेशम का (नोइल रेशम के अलावा)	कि.ग्रा.	2.10	140.9
621305	ऊन का	कि.ग्रा.	2.10	43.4
621306	ऊन और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	कि.ग्रा.	2.10	43.5
621399	अन्य का	कि.ग्रा.	2.10	35.9
<b>6214</b>	<b>शॉल, स्कार्फ, मफलर, मंटीलास, वेल्स और ऐसे ही अन्य सामान</b>			
<b>621401</b>	<b>शॉल, स्क्रॉफ, मफलर, स्टॉल, मंटीलास और वेल्स</b>			
62140101	कपास का	पीस	2.90	12.9
62140102	कपास और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	2.78	10.6
62140103	मानव निर्मित फाइबर का	पीस	2.65	10.8
62140104	रेशम का (नोइल रेशम के अलावा)	पीस	2.65	27.2
62140105	ऊन का	पीस	2.65	11.6
62140106	ऊन और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	2.65	11.6
62140199	अन्य का	पीस	2.65	11.5
<b>621402</b>	<b>अन्य</b>			
62140201	कपास का	कि.ग्रा.	2.90	53.4
62140202	कपास और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	कि.ग्रा.	2.50	42.1
62140203	मानव निर्मित फाइबर का	कि.ग्रा.	2.10	38.6
62140204	रेशम का (नोइल रेशम के अलावा)	कि.ग्रा.	2.10	140.9
62140205	ऊन का	कि.ग्रा.	2.10	43.4
62140206	ऊन और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	कि.ग्रा.	2.10	43.5
62140299	अन्य का	कि.ग्रा.	2.10	35.9
<b>6215</b>	<b>टाई, बो टाई और क्रवाट्स</b>			
621501	कपास का	कि.ग्रा.	2.90	53.4
621502	कपास और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	कि.ग्रा.	2.50	42.1
621503	मानव निर्मित फाइबर का	कि.ग्रा.	2.10	38.6
621504	रेशम का (नोइल रेशम के अलावा)	कि.ग्रा.	2.10	140.9



621505	ऊन का	कि.ग्रा.	2.10	43.4
621506	ऊन और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	कि.ग्रा.	2.10	43.5
621599	अन्य का	कि.ग्रा.	2.10	35.9
<b>6216</b>	<b>ग्लोबस, मिटेंस और मिट्स</b>			
621601	कपास का	कि.ग्रा.	2.90	53.4
621602	कपास और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	कि.ग्रा.	2.50	42.1
621603	मानव निर्मित फाइबर का	कि.ग्रा.	2.10	38.6
621604	रेशम का (नोइल रेशम के अलावा)	कि.ग्रा.	2.10	140.9
621605	ऊन का	कि.ग्रा.	2.10	43.4
621606	ऊन और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	कि.ग्रा.	2.10	43.5
621607	वस्त्र पदार्थों से बने गोल्फ ग्लव्स के नाम वाले खेलों में विशेषता प्रयोग होने वाले ग्लव्स	पीस	2.10	5.8
621699	अन्य का	कि.ग्रा.	2.10	35.9
<b>6217</b>	<b>शीर्ष 6212 के अलावा अन्य तैयार क्लोदिंग एसेसरीज और परिधानों अथवा क्लोदिंग एसेसरीज के भाग</b>			
621701	कपास का	कि.ग्रा.	2.90	53.4
621702	कपास और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	कि.ग्रा.	2.50	42.1
621703	मानव निर्मित फाइबर का	कि.ग्रा.	2.10	38.6
621704	रेशम का (नोइल रेशम के अलावा)	कि.ग्रा.	2.10	140.9
621705	ऊन का	कि.ग्रा.	2.10	43.4
621706	ऊन और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	कि.ग्रा.	2.10	43.5
621799	अन्य का	कि.ग्रा.	2.10	35.9

**अध्याय - 63**

अन्य मेड-अप्स टेक्सटाइल की वस्तुएं, सेट्स,  
वॉन क्लोदिंग और वॉन टेक्सटाइल वस्तुएं, रैग्स

टैरिफ मद	वस्तुओं का विवरण	इकाई	दरें (% में)	प्रति इकाई सीमा रूप में
1	2	3	4	5
<b>6301</b>	<b>ब्लैकेट और यात्रा रग्स</b>			
630101	कपास का	कि.ग्रा.	5.00	40.8
630102	कपास और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	कि.ग्रा.	4.00	31.1
630103	मानव निर्मित फाइबर का	कि.ग्रा.	3.00	22.4
630199	ऊन सहित अन्य	कि.ग्रा.	3.00	28.2
<b>6302</b>	<b>बेड लिनेन, टेबल लिनेन, शौचालय लिनेन और रसोई लिनेन</b>			
630201	कपास का	कि.ग्रा.	5.00	50.0
630202	कपास और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	कि.ग्रा.	4.40	45.0
630203	मानव निर्मित फाइबर का	कि.ग्रा.	3.80	49.2
630204	रेशम का (नोइल रेशम के अलावा)	कि.ग्रा.	3.80	202.7

630299	अन्य का	कि.ग्रा.	3.80	36.5
<b>6303</b>	<b>पर्दे (ड्रेपर्स सहित) और इंटीरियर ब्लाइंड, पर्दे अथवा बेड ब्लान्सेस</b>			
630301	कपास का	कि.ग्रा.	5.00	50.0
630302	कपास और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	कि.ग्रा.	4.00	40.9
630303	मानव निर्मित फाइबर का	कि.ग्रा.	3.00	38.9
630304	रेशम का (नोइल रेशम के अलावा)	कि.ग्रा.	3.00	160.0
630399	अन्य का	कि.ग्रा.	3.00	28.8
<b>6304</b>	<b>शीर्ष 9404 के अलावा अन्य साज-सज्जा की वस्तुएं</b>			
630401	कपास का	कि.ग्रा.	5.00	50.0
630402	कपास और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	कि.ग्रा.	4.40	45.0
630403	मानव निर्मित फाइबर का	कि.ग्रा.	3.80	49.2
630404	रेशम का (नोइल रेशम के अलावा)	कि.ग्रा.	3.80	202.7
630499	अन्य का	कि.ग्रा.	3.80	36.5
<b>6305</b>	<b>सामानों की पैकिंग के लिए प्रयोग किए जाने वाले एक किस्म के बोरे और थैले</b>			
630501	लचीले मध्यवर्ती भारी कन्टेनर (एफआईवीसी)		Nil	
630502	हैसियन थैले, सैकिंग थैले, पटसन मिट्टी को बचाने वाले पटसन आदि सहित पटसन के बने बोरे और थैले	कि.ग्रा.	1.87	
630599	अन्य	कि.ग्रा.	1.87	
<b>6306</b>	<b>तिरपाल, ऑर्निस और सन ब्लाइंड्स; टेंट, नावों के लिए पाल, सेल बोर्ड अथवा लैंड क्राफ्ट; कैपिंग के सामान</b>	कि.ग्रा.	1.87	
<b>6307</b>	<b>ड्रेस पैटर्न सहित कैपिंग अन्य तैयार वस्तुएं</b>			
<b>630701</b>	<b>फैब्रिक स्वाचेस</b>			
63070101	कपास का		शून्य	
63070102	कपास और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का		शून्य	
63070103	मानव निर्मित फाइबर का		शून्य	
63070199	अन्य का		शून्य	
<b>630702</b>	<b>अन्य (फैब्रिक स्वाचेस के अलावा)</b>			
63070201	कपास का	कि.ग्रा.	5.00	50.0
63070202	कपास और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	कि.ग्रा.	4.00	40.9
63070203	मानव निर्मित फाइबर का	कि.ग्रा.	3.00	38.9
63070204	रेशम का (नोइल रेशम के अलावा)	कि.ग्रा.	3.00	160.0
63070299	अन्य का	कि.ग्रा.	3.00	28.8

### अनुसूची 2: लगाए गए केंद्रीय लेवियों की दरें

अध्याय- 61				
अपैरल, और क्लोदिंग एसेसरीज, निटेड या क्रोचेटेड की वस्तुएं				
टैरिफ मद	वस्तुओं का विवरण	इकाई	दरें (% में)	प्रति इकाई सीमा रूप में
1	2	3	4	
6101	पुरुष या लड़कों का ओवरकोट, कारकोट, टोपी, चोगा, अनोरेक (स्काई-जैकेट सहित), विंड-चिटर, विंड-जैकेट और इसी प्रकार की वस्तुएं, निटेड या क्रोचेटेड, 6103 शीर्ष के			

	<b>अलावा</b>			
610101	कपास का	पीस	2.45	46.4
610102	कपास और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	2.28	26.4
610103	मानव निर्मित फाइबर का	पीस	2.10	24.6
610104	रेशम का (नोइल रेशम के अलावा)	पीस	2.10	47.0
610105	ऊन का	पीस	2.10	97.5
610106	ऊन और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	2.10	72.4
610199	अन्य का	पीस	2.10	27.6
<b>6102</b>	<b>महिला या लड़कियों का ओवरकोट, कारकोट, टोपी, चोगा, अनोरेक (स्काई-जैकेट सहित), विंड-चिटर, विंड-जैकेट और इसी प्रकार की वस्तुएं, निटिड या क्रोचेटेड, 6104 शीर्ष के अलावा</b>			
610201	कपास का	पीस	2.00	
610202	कपास और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	2.05	23.7
610203	मानव निर्मित फाइबर का	पीस	2.10	24.6
610204	रेशम का (नोइल रेशम के अलावा)	पीस	2.10	47.0
610205	ऊन का	पीस	2.10	97.5
610206	ऊन और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	2.10	72.4
610299	अन्य का	पीस	2.10	27.6
<b>6103</b>	<b>पुरुष या लड़कों का शर्ट, ऐनसेम्बल, जैकेट, ब्लेजर, ट्राउजर्स विब और ब्रेसेज औवरऑल, ब्रीचेज और शार्ट (स्विम वीयर को छोड़कर) निटिड या क्रोचेटेड</b>			
<b>610301</b>	<b>शर्ट (कम से कम एक ट्राउजर और एक जैकेट का कंबीनेशन)</b>			
61030101	कपास का	पीस	2.45	71.9
61030102	कपास और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	2.28	46.8
61030103	मानव निर्मित फाइबर का	पीस	2.10	43.3
61030104	रेशम का (नोइल रेशम के अलावा)	पीस	2.10	77.4
61030105	ऊन का	पीस	2.10	149.6
61030106	ऊन और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	2.10	111.0
61030199	अन्य का	पीस	2.10	46.9
<b>610302</b>	<b>जैकेट, ब्लेजर</b>			
61030201	कपास का	पीस	2.45	46.4
61030202	कपास और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	2.28	26.4
61030203	मानव निर्मित फाइबर का	पीस	2.10	24.6
61030204	रेशम का (नोइल रेशम के अलावा)	पीस	2.10	47.0
61030205	ऊन का	पीस	2.10	97.5
61030206	ऊन और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	2.10	72.4
61030207	स्पेंडेक्स/लाइक्रा/इलास्टेन का 1% या इससे अधिक वजन वाले कपास का	पीस	2.45	46.3
61030299	<b>अन्य का</b>	पीस	2.10	27.6
<b>610303</b>	<b>ट्राउजर्स, फुल पैट</b>			
61030301	कपास का	पीस	2.45	25.5
61030302	कपास और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	2.28	20.4
61030303	मानव निर्मित फाइबर का	पीस	2.10	18.5
61030304	रेशम का (नोइल रेशम के अलावा)	पीस	2.10	30.4
61030305	ऊन का	पीस	2.10	52.1
61030306	ऊन और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	2.10	38.6

61030307	स्पेंडेक्स/लाइक्रा/इलास्टेन का 1% या इससे अधिक वजन वाले कपास का	पीस	2.45	25.5
61030399	अन्य का	पीस	2.10	19.3
<b>610304</b>	<b>अन्य (कैपरी/ 3/4 पैट और ऐनसेंबल्स सहित)</b>			
61030401	कपास का	पीस	2.00	
61030402	कपास और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	1.85	
61030403	मानव निर्मित फाइबर का	पीस	1.70	
61030404	रेशम का (नोइल रेशम के अलावा)	पीस	1.70	
61030405	ऊन का	पीस	1.70	
61030406	ऊन और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	1.70	
61030407	स्पेंडेक्स/लाइक्रा/इलास्टेन का 1% या इससे अधिक वजन वाले कपास का	पीस	2.00	
61030499	अन्य का	पीस	1.70	
<b>6104</b>	<b>महिला या लड़कियों का शूट, ऐनसेंबल्स, जैकेट, ब्लेजर, ट्रेसेस, स्कर्ट, डिवाइडेड स्कर्ट, ट्राउजर्स, विब एंड ब्रेस ओवरऑल्स, ब्रीचेज एंड शॉर्ट्स (स्विम वियर के अलावा), निटिड या क्रोचेटेड</b>			
<b>610401</b>	<b>शूट (कम से कम एक पायजामा और एक जैकेट का कंबीनेशन)</b>			
61040101	कपास का	पीस	2.00	
61040102	कपास और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	2.05	42.1
61040103	मानव निर्मित फाइबर का	पीस	2.10	43.3
61040104	रेशम का (नोइल रेशम के अलावा)	पीस	2.10	77.4
61040105	ऊन का	पीस	2.10	149.6
61040106	ऊन और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	2.10	111.0
61040199	अन्य का	पीस	2.10	46.9
<b>610402</b>	<b>जैकेट, ब्लेजर</b>			
61040201	कपास का	पीस	2.00	
61040202	कपास और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	2.05	23.7
61040203	मानव निर्मित फाइबर का	पीस	2.10	24.6
61040204	रेशम का (नोइल रेशम के अलावा)	पीस	2.10	47.0
61040205	ऊन का	पीस	2.10	97.5
61040206	ऊन और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	2.10	72.4
61040207	स्पेंडेक्स/लाइक्रा/इलास्टेन का 1% या इससे अधिक वजन वाले कपास का	पीस	2.00	
61040299	अन्य का	पीस	2.10	27.6
<b>610403</b>	<b>ट्रेसेस/फ्रॉक्स, स्कर्ट्स, डिवाइडेड स्कर्ट्स, ट्राउजर्स, फुल पैट</b>			
61040301	कपास का	पीस	2.45	25.5
61040302	कपास और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	2.28	20.4
61040303	मानव निर्मित फाइबर का	पीस	2.10	18.5
61040304	रेशम का (नोइल रेशम के अलावा)	पीस	2.10	30.4
61040305	ऊन का	पीस	2.10	52.1
61040306	ऊन और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	2.10	38.6
61040307	स्पेंडेक्स/लाइक्रा/इलास्टेन का 1% या इससे अधिक वजन वाले कपास का	पीस	2.45	25.5
61040399	अन्य का	पीस	2.10	19.3
<b>610404</b>	<b>अन्य (कैपरी/ 3/4 पैट और ऐनसेंबल्स सहित)</b>			
61040401	कपास का	पीस	2.00	
61040402	कपास और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	1.85	
61040403	मानव निर्मित फाइबर का	पीस	1.70	

61040404	रेशम का (नोइल रेशम के अलावा)	पीस	1.70	
61040405	ऊन का	पीस	1.70	
61040406	ऊन और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	1.70	
61040407	स्पेंडेक्स/लाइक्रा/इलास्टेन का 1% या इससे अधिक वजन वाले कपास का	पीस	2.00	
61040499	अन्य का	पीस	1.70	
<b>6105</b>	<b>पुरुष या लड़कों की शर्ट, निटिड या क्रोचेटेड</b>			
610501	कपास का	पीस	2.45	25.5
610502	कपास और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	2.08	13.4
610503	मानव निर्मित फाइबर का	पीस	1.70	
610504	रेशम का (नोइल रेशम के अलावा)	पीस	1.70	
610505	ऊन का	पीस	1.70	
610506	ऊन और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	1.70	
610507	स्पेंडेक्स/लाइक्रा/इलास्टेन का 1% या इससे अधिक वजन वाले कपास का	पीस	2.45	25.5
610599	अन्य का	पीस	1.70	
<b>6106</b>	<b>महिला या लड़कियों का ब्लाउज़, शर्ट और शर्ट-ब्लाउज़, निटिड या क्रोचेटेड</b>			
610601	कपास का	पीस	2.00	
610602	कपास और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	1.85	
610603	मानव निर्मित फाइबर का	पीस	1.70	
610604	रेशम का (नोइल रेशम के अलावा)	पीस	1.70	
610605	ऊन का	पीस	1.70	
610606	ऊन और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	1.70	
610607	स्पेंडेक्स/लाइक्रा/इलास्टेन का 1% या इससे अधिक वजन वाले कपास का	पीस	2.00	
610699	अन्य का	पीस	1.70	
<b>6107</b>	<b>पुरुष या लड़कों का अंडरपैट, त्रीफ, नाइटशर्ट, पायजामा, बाथरोब्स, ट्रेसिंग गाउनस और इस प्रकार की वस्तुएं, निटिड या क्रोचेटेड</b>			
<b>610701</b>	<b>नाइटशर्ट, पायजामा, बाथरोब्स, ट्रेसिंग गाउनस और इस प्रकार की वस्तुएं</b>			
61070101	कपास का	पीस	2.45	14.3
61070102	कपास और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	2.08	12.1
61070103	मानव निर्मित फाइबर का	पीस	1.70	
61070104	रेशम का (नोइल रेशम के अलावा)	पीस	1.70	
61070105	ऊन का	पीस	1.70	
61070106	ऊन और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	1.70	
61070107	स्पेंडेक्स/लाइक्रा/इलास्टेन का 1% या इससे अधिक वजन वाले कपास का	पीस	2.45	14.5
61070199	अन्य का	पीस	1.70	
<b>610702</b>	<b>त्रीफ, अंडरपैट और इस प्रकार की वस्तुएं</b>			
61070201	कपास का	पीस	2.00	
61070202	कपास और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	1.85	
61070203	मानव निर्मित फाइबर का	पीस	1.70	
61070204	रेशम का (नोइल रेशम के अलावा)	पीस	1.70	
61070205	ऊन का	पीस	1.70	
61070206	ऊन और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	1.70	
61070207	स्पेंडेक्स/लाइक्रा/इलास्टेन का 1% या इससे अधिक वजन वाले कपास का	पीस	2.00	
61070299	अन्य का	पीस	1.70	
<b>6108</b>	<b>महिला या लड़कियों की स्लिप, पेटीकोट, त्रीफ, पेंटीज़, नाइट ड्रेसिज़, पायजामा,</b>			

	नेगलिगीज़, बाथरोब, ड्रेसिंग गाउन और इस प्रकार की वस्तुएं, निटिड या क्रोचेटेड			
<b>610801</b>	<b>नाइट ड्रेसेज़ (नाइट शर्ट सहित), पायजामा, नेगलिगीज़, बाथरोब और ड्रेसिंग गाउन और इस प्रकार की वस्तुएं</b>			
61080101	कपास का	पीस	2.45	14.3
61080102	कपास और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	2.08	12.1
61080103	मानव निर्मित फाइबर का	पीस	1.70	
61080104	रेशम का (नोइल रेशम के अलावा)	पीस	1.70	
61080105	ऊन का	पीस	1.70	
61080106	ऊन और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	1.70	
61080107	स्पेंडेक्स/लाइक्रा/इलास्टेन का 1% या इससे अधिक वजन वाले कपास का	पीस	2.45	14.5
61080199	अन्य का	पीस	1.70	
<b>610802</b>	<b>स्लिप, पेटीकोट, ब्रीफ, पेंटीज और इस प्रकार की वस्तुएं</b>			
61080201	कपास का	पीस	2.00	
61080202	कपास और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	1.85	
61080203	मानव निर्मित फाइबर का	पीस	1.70	
61080204	रेशम का (नोइल रेशम के अलावा)	पीस	1.70	
61080205	ऊन का	पीस	1.70	
61080206	ऊन और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	1.70	
61080207	स्पेंडेक्स/लाइक्रा/इलास्टेन का 1% या इससे अधिक वजन वाले कपास का	पीस	2.00	
61080299	अन्य का	पीस	1.70	
<b>6109</b>	<b>टी-शर्ट, सिंगलेट और अन्य वेस्ट, निटिड या क्रोचेटेड</b>			
610901	कपास का	पीस	2.00	
610902	कपास और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	1.70	
610903	मानव निर्मित फाइबर का	पीस	1.70	
610904	रेशम का (नोइल रेशम के अलावा)	पीस	1.70	
610905	ऊन का	पीस	1.70	
610906	ऊन और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	1.70	
610907	स्पेंडेक्स/लाइक्रा/इलास्टेन का 1% या इससे अधिक वजन वाले कपास का	पीस	2.00	
610999	अन्य का	पीस	1.70	
<b>6110</b>	<b>जर्सी, पुलओवर, कार्डिगन्स, वेस्टकोट और इस प्रकार की वस्तुएं, निटिड या क्रोचेटेड</b>			
611001	कपास का	पीस	2.45	27.7
611002	कपास और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	2.08	18.6
611003	मानव निर्मित फाइबर का	पीस	1.70	
611004	रेशम का (नोइल रेशम के अलावा)	पीस	1.70	
611005	ऊन का	पीस	1.70	
611006	ऊन और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	1.70	
611007	स्पेंडेक्स/लाइक्रा/इलास्टेन का 1% या इससे अधिक वजन वाले कपास का	पीस	2.45	29.2
611099	अन्य का	पीस	1.70	
<b>6111</b>	<b>बच्चों के परिधान और क्लोदिंग एसेसरीज, निटिड या क्रोचेटेड</b>			
611101	कपास का	पीस	1.64	
611102	कपास और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	1.67	
611103	मानव निर्मित फाइबर का	पीस	1.70	
611104	रेशम का (नोइल रेशम के अलावा)	पीस	1.70	
611105	ऊन का	पीस	1.70	

611106	ऊन और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	1.70	
611107	स्पेंडेक्स/लाइक्रा/इलास्टेन का 1% या इससे अधिक वजन वाले कपास का	पीस	1.64	
611199	अन्य का	पीस	1.70	
<b>6112</b>	<b>ट्रेक शूट, स्काई शूट और स्विमवियर, निटिड या क्रोचेटेड</b>			
611201	कपास का	पीस	1.64	
611202	कपास और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	1.67	
611203	मानव निर्मित फाइबर का	पीस	1.70	
611204	रेशम का (नोइल रेशम के अलावा)	पीस	1.70	
611205	ऊन का	पीस	1.70	
611206	ऊन और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	1.70	
611207	स्पेंडेक्स/लाइक्रा/इलास्टेन का 1% या इससे अधिक वजन वाले कपास का	पीस	1.64	
611299	अन्य का	पीस	1.70	
<b>6113</b>	<b>शीर्ष 5903, 5906 या 5907 के निटेड या क्रोचेटेड फैब्रिक्स के परिधान, मेड-अप्स</b>			
611301	कपास का	पीस	2.00	
611302	कपास और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	1.85	
611303	मानव निर्मित फाइबर का	पीस	1.70	
611304	रेशम का (नोइल रेशम के अलावा)	पीस	1.70	
611305	ऊन का	पीस	1.70	
611306	ऊन और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	1.70	
611399	अन्य का	पीस	1.70	
<b>6114</b>	<b>अन्य परिधान, निटिड या क्रोचेटेड</b>			
<b>611401</b>	<b>वस्त्रों के निचले हिस्से में बंधनी के साथ निटेड अथवा क्रोचेटेड महिलाओं अथवा लड़कियों के ब्लाउज, शर्ट और शर्ट ब्लाउज</b>			
61140101	कपास का	पीस	2.00	
61140102	कपास और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	1.85	
61140103	मानव निर्मित फाइबर का	पीस	1.70	
61140104	रेशम का (नोइल रेशम के अलावा)	पीस	1.70	
61140105	ऊन का	पीस	1.70	
61140106	ऊन और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	1.70	
61140107	स्पेंडेक्स/लाइक्रा/इलास्टेन का 1% या इससे अधिक वजन वाले कपास का	पीस	2.00	
61140199	अन्य का	पीस	1.70	
<b>611402</b>	<b>महिलाओं अथवा लड़कियों के टॉप्स/कैमी</b>			
61140201	कपास का	पीस	2.00	
61140202	कपास और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	1.85	
61140203	मानव निर्मित फाइबर का	पीस	1.70	
61140204	रेशम का (नोइल रेशम के अलावा)	पीस	1.70	
61140205	ऊन का	पीस	1.70	
61140206	ऊन और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	1.70	
61140207	स्पेंडेक्स/लाइक्रा/इलास्टेन का 1% या इससे अधिक वजन वाले कपास का	पीस	2.00	
61140299	अन्य का	पीस	1.70	
<b>611403</b>	<b>शीर्ष 6103 अथवा 6104 के अंतर्गत शामिल नहीं किए गए अन्य जैकेट</b>			
61140301	कपास	पीस	2.00	
61140302	कपास और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	2.05	23.7
61140303	मानव निर्मित फाइबर का	पीस	2.10	24.6

61140304	रेशम का (नोइल रेशम के अलावा)	पीस	2.10	47.0
61140305	ऊन का	पीस	2.10	97.5
61140306	ऊन और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	2.10	72.4
61140399	अन्य का	पीस	2.10	27.6
<b>611404</b>	<b>दुपट्टा के साथ अथवा उसके बिना कुर्ता और सलवार/सलवार शूट/सलवार कमीज/चूड़ीदार कमीज</b>			
61140401	कपास	पीस	2.45	38.2
61140402	कपास और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	2.28	31.2
61140403	मानव निर्मित फाइबर का	पीस	2.10	29.7
61140404	रेशम का (नोइल रेशम के अलावा)	पीस	2.10	49.7
61140405	ऊन का	पीस	2.10	43.4
61140406	ऊन और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	2.10	43.5
61140499	अन्य का	पीस	2.10	30.3
<b>611405</b>	<b>अन्य</b>			
61140501	कपास	पीस	2.00	
61140502	कपास और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	1.85	
61140503	मानव निर्मित फाइबर का	पीस	1.70	
61140504	रेशम का (नोइल रेशम के अलावा)	पीस	1.70	
61140505	ऊन का	पीस	1.70	
61140506	ऊन और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	1.70	
61140507	सुरक्षात्मक औद्योगिक वियर	पीस	1.70	
61140599	अन्य का	पीस	1.70	
<b>6115</b>	<b>निटेड अथवा क्रोचेटेड ग्रेजुएटेड कमप्रेशन हॉजरी (उदाहरण के लिए बेरीकोस विन्स के लिए स्टॉकिंग्स) सहित पैटी होस, टाइट्स स्टॉकिंग्स, शॉक्स और अन्य हॉजरी और एप्लाइड सोल्स के बगैर फुटवीयर</b>			
<b>611501</b>	<b>लैगिंग्स</b>			
61150101	कपास का	पीस	2.45	14.9
61150102	कपास और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	2.08	12.1
61150103	मानव निर्मित फाइबर का	पीस	1.70	
61150104	रेशम का (नोइल रेशम के अलावा)	पीस	1.70	
61150105	ऊन का	पीस	1.70	
61150106	ऊन और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	1.70	
61150107	स्पैन्डेक्स/लैग्रा/इलास्टेन के 1% अथवा अधिक भार वाले कॉटन	पीस	2.45	15.3
61150199	अन्य का	पीस	1.70	
<b>611502</b>	<b>अन्य</b>			
61150201	कपास का	कि.ग्रा.	2.00	
61150202	कपास और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	कि.ग्रा.	1.85	
61150203	मानव निर्मित फाइबर का	कि.ग्रा.	1.70	
61150204	रेशम का (नोइल रेशम के अलावा)	कि.ग्रा.	1.70	
61150205	ऊन का	कि.ग्रा.	1.70	
61150206	ऊन और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	कि.ग्रा.	1.70	
61150207	स्पैन्डेक्स/लाइक्रा/इलास्टेन का 1% या इससे अधिक वजन वाले कपास का	कि.ग्रा.	2.00	
61150299	अन्य का	कि.ग्रा.	1.70	
<b>6116</b>	<b>निटिड या क्रोचेटेड, ग्लोब्स, मिटेंस और मिट्स</b>			



611601	कपास का	कि.ग्रा.	2.00	
611602	कपास और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	कि.ग्रा.	1.85	
611603	मानव निर्मित फाइबर का	कि.ग्रा.	1.70	
611604	रेशम का (नोइल रेशम के अलावा)	कि.ग्रा.	1.70	
611605	ऊन का	कि.ग्रा.	1.70	
611606	ऊन और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	कि.ग्रा.	1.70	
611607	खेलों में उपयोग के लिए विशेष रूप से तैयार किए गए ग्लब्स नामतः टेक्सटाइल्स सामग्री से बने गोल्फ ग्लब्स	पीस	1.70	
611699	अन्य का	कि.ग्रा.	1.70	
<b>6117</b>	निटेड अथवा क्रोचेटेड अन्य तैयार क्लोदिंग एसेसरिज; परिधानों अथवा क्लोदिंग एसेसरिज के निटेड अथवा क्रोचेटेड पार्ट्स			
<b>611701</b>	शॉल, स्कॉफ, मफलर, स्टॉल, मंटीलास और वेल्स			
61170101	कपास का	पीस	2.00	
61170102	कपास और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	2.05	7.8
61170103	मानव निर्मित फाइबर का	पीस	2.10	8.6
61170104	रेशम का (नोइल रेशम के अलावा)	पीस	2.10	21.6
61170105	ऊन का	पीस	2.10	9.2
61170106	ऊन और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	2.10	9.2
61170199	अन्य का	पीस	2.10	9.1
<b>611702</b>	अन्य			
61170201	कपास का	कि.ग्रा.	2.00	
61170202	कपास और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	कि.ग्रा.	1.85	
61170203	मानव निर्मित फाइबर का	कि.ग्रा.	1.70	
61170204	रेशम का (नोइल रेशम के अलावा)	कि.ग्रा.	1.70	
61170205	ऊन का	कि.ग्रा.	1.70	
61170206	ऊन और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	कि.ग्रा.	1.70	
61170299	अन्य का	कि.ग्रा.	1.70	
<b>अध्याय- 62</b>				
<b>अपैरल और क्लोदिंग एसेसरिज, गैर निटेड या क्रोचेटेड की वस्तुएं</b>				
टैरिफ मद	वस्तुओं का विवरण	इकाई	दरें (% में)	प्रति इकाई सीमा रुपए में
1	2	3	4	5
<b>6201</b>	<b>पुरुषों अथवा लड़कों के ओवरकोट, कार-कोट, क्लॉक्स, अनोरेक्स (स्काई जैकेट सहित), विंड चीटर्स, विंड जैकेट और शीर्ष 6203 के अलावा ऐसे ही अन्य सामान</b>			
620101	कपास का	पीस	2.45	46.4
620102	कपास और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	2.28	26.4
620103	मानव निर्मित फाइबर का	पीस	2.10	24.6
620104	रेशम का (नोइल रेशम के अलावा)	पीस	2.10	47.0
620105	ऊन का	पीस	2.10	97.5
620106	ऊन और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	2.10	72.4
620199	अन्य का	पीस	2.10	27.6
<b>6202</b>	<b>महिलाओं अथवा लड़कियों के ओवरकोट, कार-कोट, कैप्स, क्लॉक्स, अनोरेक्स (स्काई जैकेट सहित), विंड चीटर्स, विंड जैकेट और शीर्ष 6204 के अलावा ऐसे ही अन्य सामान</b>			

620201	कपास का	पीस	2.00	
620202	कपास और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	2.05	23.7
620203	मानव निर्मित फाइबर का	पीस	2.10	24.6
620204	रेशम का (नोइल रेशम के अलावा)	पीस	2.10	47.0
620205	ऊन का	पीस	2.10	97.5
620206	ऊन और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	2.10	72.4
620299	अन्य का	पीस	2.10	27.6
<b>6203</b>	<b>पुरुषों अथवा लड़कों के शूट, ऐनसेंबल्स, जैकेट, ब्लेजर, ट्राउजर्स, बिब एंड ब्रेस ओवरऑल्स, ब्रीचेज एंड शॉर्ट्स (स्विमवियर के अलावा)</b>			
<b>620301</b>	<b>शूट (कम से कम एक पायजामा और एक जैकेट का कंबीनेशन)</b>			
62030101	कपास का	पीस	2.45	71.9
62030102	कपास और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	2.28	46.8
62030103	मानव निर्मित फाइबर का	पीस	2.10	43.3
62030104	रेशम का (नोइल रेशम के अलावा)	पीस	2.10	77.4
62030105	ऊन का	पीस	2.10	149.6
62030106	ऊन और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	2.10	111.0
62030199	अन्य का	पीस	2.10	46.9
<b>620302</b>	<b>जैकेट, ब्लेजर्स</b>			
62030201	कपास का	पीस	2.45	46.4
62030202	कपास और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	2.28	26.4
62030203	मानव निर्मित फाइबर का	पीस	2.10	24.6
62030204	रेशम का (नोइल रेशम के अलावा)	पीस	2.10	47.0
62030205	ऊन का	पीस	2.10	97.5
62030206	ऊन और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	2.10	72.4
62030207	स्पेंडेक्स/लाइक्रा/इलास्टेन का 1% या इससे अधिक वजन वाले कपास का	पीस	2.45	46.3
62030299	अन्य का	पीस	2.10	27.6
<b>620303</b>	<b>ट्राउजर्स, फुल पैट</b>			
62030301	कपास का	पीस	2.45	25.5
62030302	कपास और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	2.28	20.4
62030303	मानव निर्मित फाइबर का	पीस	2.10	18.5
62030304	रेशम का (नोइल रेशम के अलावा)	पीस	2.10	30.4
62030305	ऊन का	पीस	2.10	52.1
62030306	ऊन और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	2.10	38.6
62030307	स्पेंडेक्स/लाइक्रा/इलास्टेन का 1% या इससे अधिक वजन वाले कपास का	पीस	2.45	25.5
62030399	अन्य का	पीस	2.10	19.3
<b>620304</b>	<b>अन्य (कैपरी/ 3/4 पैट और ऐनसेंबल्स सहित)</b>			
62030401	कपास का	पीस	2.00	
62030402	कपास और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	1.85	
62030403	मानव निर्मित फाइबर का	पीस	1.70	
62030404	रेशम का (नोइल रेशम के अलावा)	पीस	1.70	
62030405	ऊन का	पीस	1.70	
62030406	ऊन और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	1.70	
62030407	स्पेंडेक्स/लाइक्रा/इलास्टेन का 1% या इससे अधिक वजन वाले कपास का	पीस	2.00	
62030499	अन्य का	पीस	1.70	

<b>6204</b>	<b>महिलाओं या लड़कियों के शूट, ऐनसेंबल्स, जैकेट, ब्लेजर्स, ड्रेसेस, स्कर्ट, डिवाइडेड स्कर्ट, ट्राउजर्स, विब एंड ब्रेस ओवरऑल्स, ब्रीचेज एंड शॉर्ट्स (स्विमवियर के अलावा)</b>			
<b>620401</b>	<b>शूट (कम से कम एक ट्राउजर्स और एक जैकेट का कंबीनेशन)</b>			
62040101	कपास का	पीस	2.00	
62040102	कपास और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	2.05	42.1
62040103	मानव निर्मित फाइबर का	पीस	2.10	43.3
62040104	रेशम का (नोइल रेशम के अलावा)	पीस	2.10	77.4
62040105	ऊन का	पीस	2.10	149.6
62040106	ऊन और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	2.10	111.0
62040199	अन्य का	पीस	2.10	46.9
<b>620402</b>	<b>जैकेट, ब्लेजर</b>			
62040201	कपास का	पीस	2.00	
62040202	कपास और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	2.05	23.7
62040203	मानव निर्मित फाइबर का	पीस	2.10	24.6
62040204	रेशम का (नोइल रेशम के अलावा)	पीस	2.10	47.0
62040205	ऊन का	पीस	2.10	97.5
62040206	ऊन और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	2.10	72.4
62040207	स्पेंडेक्स/लाइक्रा/इलास्टेन का 1% या इससे अधिक वजन वाले कपास का	पीस	2.00	
62040299	अन्य का	पीस	2.10	27.6
<b>620403</b>	<b>ड्रेसेस/फ्रॉक्स, स्कर्ट, डिवाइडेड स्कर्ट, ट्राउजर्स, फूल पैट</b>			
62040301	कपास का	पीस	2.45	25.5
62040302	कपास और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	2.28	20.4
62040303	मानव निर्मित फाइबर का	पीस	2.10	18.5
62040304	रेशम का (नोइल रेशम के अलावा)	पीस	2.10	30.4
62040305	ऊन का	पीस	2.10	52.1
62040306	ऊन और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	2.10	38.6
62040307	स्पेंडेक्स/लाइक्रा/इलास्टेन का 1% या इससे अधिक वजन वाले कपास का	पीस	2.45	25.5
62040399	अन्य का	पीस	2.10	19.3
<b>620404</b>	<b>अन्य (कैपरी/ 3/4 पैट और ऐनसेंबल्स सहित)</b>			
62040401	कपास का	पीस	2.00	
62040402	कपास और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	1.85	
62040403	मानव निर्मित फाइबर का	पीस	1.70	
62040404	रेशम का (नोइल रेशम के अलावा)	पीस	1.70	
62040405	ऊन का	पीस	1.70	
62040406	ऊन और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	1.70	
62040407	स्पेंडेक्स/लाइक्रा/इलास्टेन का 1% या इससे अधिक वजन वाले कपास का	पीस	2.00	
62040499	अन्य का	पीस	1.70	
<b>6205</b>	<b>पुरुष या लड़कों की शर्ट</b>			
620501	कपास का	पीस	2.45	25.5
620502	कपास और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	2.08	13.4
620503	मानव निर्मित फाइबर का	पीस	1.70	
620504	रेशम का (नोइल रेशम के अलावा)	पीस	1.70	
620505	ऊन का	पीस	1.70	

620506	ऊन और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	1.70	
620507	स्पेंडेक्स/लाइक्रा/इलास्टेन का 1% या इससे अधिक वजन वाले कपास का	पीस	2.45	25.5
620599	अन्य का	पीस	1.70	
<b>6206</b>	<b>महिलाओं या लड़कियों का ब्लाउज, शर्ट्स और शर्ट-ब्लाउज</b>			
620601	कपास का	पीस	2.00	
620602	कपास और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	1.85	
620603	मानव निर्मित फाइबर का	पीस	1.70	
620604	रेशम का (नोइल रेशम के अलावा)	पीस	1.70	
620605	ऊन का	पीस	1.70	
620606	ऊन और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	1.70	
620607	स्पेंडेक्स/लाइक्रा/इलास्टेन का 1% या इससे अधिक वजन वाले कपास का	पीस	2.00	
620699	अन्य का	पीस	1.70	
<b>6207</b>	<b>पुरुषों या लड़कों के सिन्गलेट और अन्य वेस्ट्स, अंडरपैट, ब्रीफ्स, नाइटशर्ट्स, पायजामा, बाथ-रॉब्स, ड्रेसिंग गॉउन्स और ऐसे ही सामान</b>			
<b>620701</b>	<b>ड्रेसिंग गॉउन्स, बाथरॉब्स, पायजामा, नाइटशर्ट्स और ऐसे ही सामान</b>			
62070101	कपास का	पीस	2.45	14.3
62070102	कपास और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	2.08	12.1
62070103	मानव निर्मित फाइबर का	पीस	1.70	
62070104	रेशम का (नोइल रेशम के अलावा)	पीस	1.70	
62070105	ऊन का	पीस	1.70	
62070106	ऊन और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	1.70	
62070107	स्पेंडेक्स/लाइक्रा/इलास्टेन का 1% या इससे अधिक वजन वाले कपास का	पीस	2.45	14.5
62070199	अन्य का	पीस	1.70	
<b>620702</b>	<b>सिन्गलेट्स और अन्य वेस्ट्स, अंडरपैट, ब्रीफ्स और ऐसे ही सामान</b>			
62070201	कपास का	पीस	2.00	
62070202	कपास और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	1.85	
62070203	मानव निर्मित फाइबर का	पीस	1.70	
62070204	रेशम का (नोइल रेशम के अलावा)	पीस	1.70	
62070205	ऊन का	पीस	1.70	
62070206	ऊन और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	1.70	
62070207	स्पेंडेक्स/लाइक्रा/इलास्टेन का 1% या इससे अधिक वजन वाले कपास का	पीस	2.00	
62070299	अन्य का	पीस	1.70	
<b>6208</b>	<b>महिलाओं या लड़कियों का सिंगलेट और अन्य वेस्ट्स, स्लिप, पेटिकोट्स, ब्रीफ, पेंटीज, नाइट ड्रेसेस, पायजामा, नेगलीगेस, बाथरॉब्स, ड्रेसिंग गॉउन्स और ऐसे ही सामान</b>			
<b>620801</b>	<b>ड्रेसिंग गॉउन्स, बाथरॉब्स, पायजामा, नेगलीगेस, नाइटड्रेसेस (नाइटशर्ट्स सहित) और ऐसे ही सामान</b>			
62080101	कपास का	पीस	2.45	14.3
62080102	कपास और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	2.08	12.1
62080103	मानव निर्मित फाइबर का	पीस	1.70	
62080104	रेशम का (नोइल रेशम के अलावा)	पीस	1.70	
62080105	ऊन का	पीस	1.70	
62080106	ऊन और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	1.70	
62080107	स्पेंडेक्स/लाइक्रा/इलास्टेन का 1% या इससे अधिक वजन वाले कपास का	पीस	2.45	14.5

62080199	अन्य का	पीस	1.70	
<b>620802</b>	<b>सिंगलेट और अन्य वेस्ट्स, स्लिप, पेटीकोट, ब्रीफ, पेंटीज और इसी प्रकार की वस्तुएं</b>			
62080201	कपास का	पीस	2.00	
62080202	कपास और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	1.85	
62080203	मानव निर्मित फाइबर का	पीस	1.70	
62080204	रेशम का (नोइल रेशम के अलावा)	पीस	1.70	
62080205	ऊन का	पीस	1.70	
62080206	ऊन और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	1.70	
62080207	स्पेंडेक्स/लाइक्रा/इलास्टेन का 1% या इससे अधिक वजन वाले कपास का	पीस	2.00	
62080299	अन्य का	पीस	1.70	
<b>6209</b>	<b>बच्चों के कपड़े और क्लोदिंग एसेसरिज</b>			
620901	कपास का	पीस	1.64	
620902	कपास और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	1.67	
620903	मानव निर्मित फाइबर का	पीस	1.70	
620904	रेशम का (नोइल रेशम के अलावा)	पीस	1.70	
620905	ऊन का	पीस	1.70	
620906	ऊन और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	1.70	
620907	स्पेंडेक्स/लाइक्रा/इलास्टेन का 1% या इससे अधिक वजन वाले कपास का	पीस	1.64	
620999	अन्य का	पीस	1.70	
<b>6210</b>	<b>शीर्ष 5602, 5603, 5903, 5906 या 5907 के परिधान, फैब्रिक्स के सामान</b>			
621001	कपास का	पीस	2.00	
621002	कपास और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	1.85	
621003	मानव निर्मित फाइबर का	पीस	1.70	
621004	रेशम का (नोइल रेशम के अलावा)	पीस	1.70	
621005	ऊन का	पीस	1.70	
621006	ऊन और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	1.70	
621099	अन्य का	पीस	1.70	
<b>6211</b>	<b>ट्रेक शूट, स्काई शूट और स्विमवियर; अन्य परिधान</b>			
<b>621101</b>	<b>वस्त्रों के निचले हिस्से में बंधनी के साथ महिलाओं या लड़कियों का ब्लाउज, शर्ट्स और शर्ट-ब्लाउज,</b>			
62110101	कपास का	पीस	2.00	
62110102	कपास और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	1.85	
62110103	मानव निर्मित फाइबर का	पीस	1.70	
62110104	रेशम का (नोइल रेशम के अलावा)	पीस	1.70	
62110105	ऊन का	पीस	1.70	
62110106	ऊन और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	1.70	
62110107	स्पेंडेक्स/लाइक्रा/इलास्टेन का 1% या इससे अधिक वजन वाले कपास का	पीस	2.00	
62110199	अन्य का	पीस	1.70	
<b>621102</b>	<b>महिलाओं अथवा लड़कियों के टॉप्स/केमी</b>			
62110201	कपास का	पीस	2.00	
62110202	कपास और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	1.85	
62110203	मानव निर्मित फाइबर का	पीस	1.70	
62110204	रेशम का (नोइल रेशम के अलावा)	पीस	1.70	

62110205	ऊन का	पीस	1.70	
62110206	ऊन और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	1.70	
62110207	स्पेंडेक्स/लाइक्रा/इलास्टेन का 1% या इससे अधिक वजन वाले कपास का	पीस	2.00	
62110299	अन्य का	पीस	1.70	
<b>621103</b>	<b>शीर्ष 6203 अथवा 6204 के अंतर्गत शामिल नहीं किए अन्य जैकेट</b>			
62110301	कपास का	पीस	2.00	
62110302	कपास और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	2.05	23.7
62110303	मानव निर्मित फाइबर का	पीस	2.10	24.6
62110304	रेशम का (नोइल रेशम के अलावा)	पीस	2.10	47.0
62110305	ऊन का	पीस	2.10	97.5
62110306	ऊन और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	2.10	72.4
62110399	अन्य का	पीस	2.10	27.6
<b>621104</b>	<b>सुरक्षात्मक औद्योगिक वियर</b>			
62110401	समग्र रूप से कपास के बने सुरक्षात्मक औद्योगिक वियर	पीस	2.00	
62110402	कपास के बने अन्य सुरक्षात्मक औद्योगिक वियर	पीस	2.00	
62110403	समग्र रूप से अरामिड फाइबर अथवा मोडाकिलिक फाइबर से बने सुरक्षात्मक औद्योगिक वियर	पीस	1.70	
62110404	अरामिड फाइबर से बने अन्य सुरक्षात्मक औद्योगिक वियर	पीस	1.70	
62110405	समग्र रूप से मोडाकिलिक फाइबर से बने सुरक्षात्मक औद्योगिक वियर	पीस	1.70	
62110406	मोडाकिलिक फाइबर से बने अन्य सुरक्षात्मक औद्योगिक वियर	पीस	1.70	
62110499	अन्य सुरक्षात्मक औद्योगिक वियर	पीस	1.70	
<b>621105</b>	<b>दुपट्टा के साथ अथवा उसके बिना कुर्ता और सलवार/सलवार शूट/सलवार कमीज/चूड़ीदार कमीज</b>			
62110501	कपास का	पीस	2.45	38.2
62110502	कपास और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	2.28	31.2
62110503	मानव निर्मित फाइबर का	पीस	2.10	29.7
62110504	रेशम का (नोइल रेशम के अलावा)	पीस	2.10	49.7
62110505	ऊन का	पीस	2.10	43.4
62110506	ऊन और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	2.10	43.5
62110599	अन्य का	पीस	2.10	30.3
<b>621106</b>	<b>अन्य</b>			
62110601	कपास	पीस	2.00	
62110602	कपास और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	1.85	
62110603	मानव निर्मित फाइबर का	पीस	1.70	
62110604	रेशम का (नोइल रेशम के अलावा)	पीस	1.70	
62110605	ऊन का	पीस	1.70	
62110606	ऊन और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	1.70	
62110699	अन्य का	पीस	1.70	
<b>6212</b>	<b>ब्रेजियर, गर्डल्स, कोरसेट, ब्रेसेस, सस्पेंडर्स, गार्डर्स और ऐसे ही अन्य सामान, तत्संबंधी भाग, चाहे निटेड हो अथवा क्रोचेटेड हो अथवा नहीं</b>			
621201	कपास का	कि.ग्रा.	2.00	
621202	कपास और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	कि.ग्रा.	1.85	
621203	मानव निर्मित फाइबर का	कि.ग्रा.	1.70	
621204	रेशम का (नोइल रेशम के अलावा)	कि.ग्रा.	1.70	
621205	ऊन का	कि.ग्रा.	1.70	

621206	ऊन और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	कि.ग्रा.	1.70	
621299	अन्य का	कि.ग्रा.	1.70	
<b>6213</b>	<b>रूमाल</b>			
621301	कपास का	कि.ग्रा.	2.00	
621302	कपास और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	कि.ग्रा.	1.85	
621303	मानव निर्मित फाइबर का	कि.ग्रा.	1.70	
621304	रेशम का (नोइल रेशम के अलावा)	कि.ग्रा.	1.70	
621305	ऊन का	कि.ग्रा.	1.70	
621306	ऊन और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	कि.ग्रा.	1.70	
621399	अन्य का	कि.ग्रा.	1.70	
<b>6214</b>	<b>शॉल, स्क्रॉफ, मफलर, मंटीलास, वेल्स और ऐसे ही अन्य सामान</b>			
<b>621401</b>	<b>शॉल, स्क्रॉफ, मफलर, स्टॉल, मंटीलास और वेल्स</b>			
62140101	कपास का	पीस	2.00	
62140102	कपास और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	2.05	7.8
62140103	मानव निर्मित फाइबर का	पीस	2.10	8.6
62140104	रेशम का (नोइल रेशम के अलावा)	पीस	2.10	21.6
62140105	ऊन का	पीस	2.10	9.2
62140106	ऊन और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	2.10	9.2
62140199	अन्य का	पीस	2.10	9.1
<b>621402</b>	<b>अन्य</b>			
62140201	कपास का	कि.ग्रा.	2.00	
62140202	कपास और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	कि.ग्रा.	1.85	31.2
62140203	मानव निर्मित फाइबर का	कि.ग्रा.	1.70	
62140204	रेशम का (नोइल रेशम के अलावा)	कि.ग्रा.	1.70	
62140205	ऊन का	कि.ग्रा.	1.70	
62140206	ऊन और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	कि.ग्रा.	1.70	
62140299	अन्य का	कि.ग्रा.	1.70	
<b>6215</b>	<b>टाई, बो टाई और क्वाट्स</b>			
621501	कपास का	कि.ग्रा.	2.00	
621502	कपास और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	कि.ग्रा.	1.85	
621503	मानव निर्मित फाइबर का	कि.ग्रा.	1.70	
621504	रेशम का (नोइल रेशम के अलावा)	कि.ग्रा.	1.70	
621505	ऊन का	कि.ग्रा.	1.70	
621506	ऊन और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	कि.ग्रा.	1.70	
621599	अन्य का	कि.ग्रा.	1.70	
<b>6216</b>	<b>ग्लोबस, मिटेंस और मिट्स</b>			
621601	कपास का	कि.ग्रा.	2.00	
621602	कपास और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	कि.ग्रा.	1.85	
621603	मानव निर्मित फाइबर का	कि.ग्रा.	1.70	
621604	रेशम का (नोइल रेशम के अलावा)	कि.ग्रा.	1.70	
621605	ऊन का	कि.ग्रा.	1.70	
621606	ऊन और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	कि.ग्रा.	1.70	
621607	खेलों में उपयोग के लिए विशेष रूप से तैयार किए गए ग्लब्स नामतः टेक्सटाइल्स सामग्री से बने गोलफ ग्लब्स	पीस	1.70	

621699	अन्य का	कि.ग्रा.	1.70	
<b>6217</b>	<b>शीर्ष 6212 के अलावा अन्य तैयार क्लोदिंग एसेसरिज और परिधानों अथवा क्लोदिंग एसेसरिज के भाग</b>			
621701	कपास का	कि.ग्रा.	2.00	
621702	कपास और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	कि.ग्रा.	1.85	
621703	मानव निर्मित फाइबर का	कि.ग्रा.	1.70	
621704	रेशम का (नोइल रेशम के अलावा)	कि.ग्रा.	1.70	
621705	ऊन का	कि.ग्रा.	1.70	
621706	ऊन और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	कि.ग्रा.	1.70	
621799	अन्य का	कि.ग्रा.	1.70	
<b>अध्याय - 63</b>				
<b>टेक्सटाइल की अन्य तैयार वस्तुएं, सेट्स, वॉर्न क्लोदिंग और वॉर्न टेक्सटाइल वस्तुएं, रैग्स</b>				
<b>टैरिफ मद</b>	<b>वस्तुओं का विवरण</b>	<b>इकाई</b>	<b>दरें (% में)</b>	<b>प्रति इकाई सीमा रुपए में</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>6301</b>	<b>ब्लैकेट और यात्रा रग्स</b>			
630101	कपास का	कि.ग्रा.	3.20	26.1
630102	कपास और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	कि.ग्रा.	2.75	21.4
630103	मानव निर्मित फाइबर का	कि.ग्रा.	2.30	17.2
630199	ऊन सहित अन्य	कि.ग्रा.	2.30	21.6
<b>6302</b>	<b>बेड लिनेन, टेबल लिनेन, शौचालय लिनेन और रसोई लिनेन</b>			
630201	कपास का	कि.ग्रा.	3.20	32.0
630202	कपास और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	कि.ग्रा.	3.03	31.0
630203	मानव निर्मित फाइबर का	कि.ग्रा.	2.85	36.9
630204	रेशम का (नोइल रेशम के अलावा)	कि.ग्रा.	2.85	152.0
630299	अन्य का	कि.ग्रा.	2.85	27.4
<b>6303</b>	<b>पर्दे (ड्रेपर्स सहित) और इंटीरियर ब्लाइंड, पर्दे अथवा बेड ब्लान्सेस</b>			
630301	कपास का	कि.ग्रा.	3.20	32.0
630302	कपास और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	कि.ग्रा.	2.75	28.1
630303	मानव निर्मित फाइबर का	कि.ग्रा.	2.30	29.8
630304	रेशम का (नोइल रेशम के अलावा)	कि.ग्रा.	2.30	122.7
630399	अन्य का	कि.ग्रा.	2.30	22.1
<b>6304</b>	<b>शीर्ष 9404 के अलावा अन्य साज-सज्जा की वस्तुएं</b>			
630401	कपास का	कि.ग्रा.	3.20	32.0
630402	कपास और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	कि.ग्रा.	3.03	31.0
630403	मानव निर्मित फाइबर का	कि.ग्रा.	2.85	36.9
630404	रेशम का (नोइल रेशम के अलावा)	कि.ग्रा.	2.85	152.0
630499	अन्य का	कि.ग्रा.	2.85	27.4
<b>6305</b>	<b>सामानों की पैकिंग के लिए प्रयोग किए जाने वाले एक किस्म के बोरे और थैले</b>			
630501	लचीले मध्यवर्ती भारी कन्टेनर (एफआईबीसी)		शून्य	
630502	हैसियन थैले, सैकिंग थैले, पटसन मिट्टी को बचाने वाले पटसन आदि सहित पटसन के बने बोरे और थैले	कि.ग्रा.	1.44	



630599	अन्य	कि.ग्रा.	1.44	
<b>6306</b>	<b>तिरपाल, ऑर्निस और सन ब्लाईंड्स; टेंट, नावों के लिए पाल, सेल बोर्ड अथवा लैंड क्राफ्ट; कैपिंग के सामान</b>	कि.ग्रा.	1.44	
<b>6307</b>	<b>ट्रेस पैटर्न सहित कैपिंग अन्य तैयार वस्तुएं</b>			
<b>630701</b>	<b>फैब्रिक स्वाचेस</b>			
63070101	कपास का		शून्य	
63070102	कपास और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का		शून्य	
63070103	मानव निर्मित फाइबर का		शून्य	
63070199	अन्य का		शून्य	
<b>630702</b>	<b>अन्य (फैब्रिक स्वाचेस के अलावा)</b>			
63070201	कपास का	कि.ग्रा.	3.20	32.0
63070202	कपास और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	कि.ग्रा.	2.75	28.1
63070203	मानव निर्मित फाइबर का	कि.ग्रा.	2.30	29.8
63070204	रेशम का (नोइल रेशम के अलावा)	कि.ग्रा.	2.30	122.7
63070299	अन्य का	कि.ग्रा.	2.30	22.1

### अनुसूची 3: एए की दरें - राज्य कर और लेवियां

अध्याय- 61			
अपैरल, और क्लोदिंग एसेसरीज, निटेड या क्रोचेटेड की वस्तुएं			
टैरिफ मद	वस्तुओं का विवरण	इकाई	एए- राज्य की दरें (% में)
1	2	3	4
<b>6101</b>	<b>पुरुष या लड़कों का ओवरकोट, कारकोट, टोपी, चोगा, अनोरेक (स्काई-जैकेट सहित), विंड-चिटर, विंड-जैकेट और इसी प्रकार की वस्तुएं, निटेड या क्रोचेटेड, 6103 शीर्ष के अलावा</b>		
610101	कपास का	पीस	1.37
610102	कपास और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	1.37
610103	मानव निर्मित फाइबर का	पीस	1.37
610104	रेशम का (नोइल रेशम के अलावा)	पीस	1.37
610105	ऊन का	पीस	1.37
610106	ऊन और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	1.37
610199	अन्य का	पीस	1.37
<b>6102</b>	<b>महिला या लड़कियों का ओवरकोट, कारकोट, टोपी, चोगा, अनोरेक (स्काई-जैकेट सहित), विंड-चिटर, विंड-जैकेट और इसी प्रकार की वस्तुएं, निटेड या क्रोचेटेड, 6104 शीर्ष के अलावा</b>		
610201	कपास का	पीस	1.37
610202	कपास और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	1.37
610203	मानव निर्मित फाइबर का	पीस	1.37
610204	रेशम का (नोइल रेशम के अलावा)	पीस	1.37
610205	ऊन का	पीस	1.37
610206	ऊन और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	1.37

610299	अन्य का	पीस	1.37
<b>6103</b>	<b>पुरुष या लड़कों का शूट, ऐनसेम्बल, जैकेट, ब्लेजर, ट्राउजर्स विब और ब्रेसेज औवरऑल, ब्रीचेज और शार्ट (स्विम वीयर को छोड़कर) निटिड या क्रोचेटेड</b>		
<b>610301</b>	<b>शूट (कम से कम एक ट्राउजर और एक जैकेट का कंबीनेशन)</b>		
61030101	कपास का	पीस	1.37
61030102	कपास और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	1.37
61030103	मानव निर्मित फाइबर का	पीस	1.37
61030104	रेशम का (नोइल रेशम के अलावा)	पीस	1.37
61030105	ऊन का	पीस	1.37
61030106	ऊन और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	1.37
61030199	अन्य का	पीस	1.37
<b>610302</b>	<b>जैकेट, ब्लेजर</b>		
61030201	कपास का	पीस	1.37
61030202	कपास और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	1.37
61030203	मानव निर्मित फाइबर का	पीस	1.37
61030204	रेशम का (नोइल रेशम के अलावा)	पीस	1.37
61030205	ऊन का	पीस	1.37
61030206	ऊन और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	1.37
61030207	स्पेंडेक्स/लाइक्रा/इलास्टेन का 1% या इससे अधिक वजन वाले कपास का	पीस	1.37
61030299	<b>अन्य का</b>	पीस	1.37
<b>610303</b>	<b>ट्राउजर्स, फुल पैट</b>		
61030301	कपास का	पीस	1.37
61030302	कपास और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	1.37
61030303	मानव निर्मित फाइबर का	पीस	1.37
61030304	रेशम का (नोइल रेशम के अलावा)	पीस	1.37
61030305	ऊन का	पीस	1.37
61030306	ऊन और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	1.37
61030307	स्पेंडेक्स/लाइक्रा/इलास्टेन का 1% या इससे अधिक वजन वाले कपास का	पीस	1.37
61030399	अन्य का	पीस	1.37
<b>610304</b>	<b>अन्य (कैपरी/ 3/4 पैट और ऐनसेंबल्स सहित)</b>		
61030401	कपास का	पीस	1.37
61030402	कपास और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	1.37
61030403	मानव निर्मित फाइबर का	पीस	1.37
61030404	रेशम का (नोइल रेशम के अलावा)	पीस	1.37
61030405	ऊन का	पीस	1.37
61030406	ऊन और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	1.37
61030407	स्पेंडेक्स/लाइक्रा/इलास्टेन का 1% या इससे अधिक वजन वाले कपास का	पीस	1.37
61030499	अन्य का	पीस	1.37
<b>6104</b>	<b>महिला या लड़कियों का शूट, ऐनसेंबल्स, जैकेट, ब्लेजर, ड्रेसेस, स्कर्ट, डिवाइडेड स्कर्ट, ट्राउजर्स, बिब एंड ब्रेस औवरऑल, ब्रीचेज एंड शॉर्ट्स (स्विम वीयर के अलावा), निटिड</b>		

	या क्रोचेटेड		
<b>610401</b>	<b>शूट (कम से कम एक पायजामा और एक जैकेट का कंबीनेशन)</b>		
61040101	कपास का	पीस	1.37
61040102	कपास और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	1.37
61040103	मानव निर्मित फाइबर का	पीस	1.37
61040104	रेशम का (नोइल रेशम के अलावा)	पीस	1.37
61040105	ऊन का	पीस	1.37
61040106	ऊन और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	1.37
61040199	अन्य का	पीस	1.37
<b>610402</b>	<b>जैकेट, ब्लेजर</b>		
61040201	कपास का	पीस	1.37
61040202	कपास और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	1.37
61040203	मानव निर्मित फाइबर का	पीस	1.37
61040204	रेशम का (नोइल रेशम के अलावा)	पीस	1.37
61040205	ऊन का	पीस	1.37
61040206	ऊन और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	1.37
61040207	स्पेंडेक्स/लाइक्रा/इलास्टेन का 1% या इससे अधिक वजन वाले कपास का	पीस	1.37
61040299	अन्य का	पीस	1.37
<b>610403</b>	<b>ट्रैसेस/फ्रोक्स, स्कर्ट्स, डिवाइडेड स्कर्ट्स, ट्राउजर्स, फुल पैंट</b>		
61040301	कपास का	पीस	1.37
61040302	कपास और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	1.37
61040303	मानव निर्मित फाइबर का	पीस	1.37
61040304	रेशम का (नोइल रेशम के अलावा)	पीस	1.37
61040305	ऊन का	पीस	1.37
61040306	ऊन और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	1.37
61040307	स्पेंडेक्स/लाइक्रा/इलास्टेन का 1% या इससे अधिक वजन वाले कपास का	पीस	1.37
61040399	अन्य का	पीस	1.37
<b>610404</b>	<b>वन्य (कैपरी/ 3/4 पैंट और ऐनसेंबल्स सहित)</b>		
61040401	कपास का	पीस	1.37
61040402	कपास और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	1.37
61040403	मानव निर्मित फाइबर का	पीस	1.37
61040404	रेशम का (नोइल रेशम के अलावा)	पीस	1.37
61040405	ऊन का	पीस	1.37
61040406	ऊन और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	1.37
61040407	स्पेंडेक्स/लाइक्रा/इलास्टेन का 1% या इससे अधिक वजन वाले कपास का	पीस	1.37
61040499	अन्य का	पीस	1.37
<b>6105</b>	<b>पुरुष या लड़कों की शर्ट, निटिड या क्रोचेटेड</b>		
610501	कपास का	पीस	1.37
610502	कपास और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	1.37

610503	मानव निर्मित फाइबर का	पीस	1.37
610504	रेशम का (नोइल रेशम के अलावा)	पीस	1.37
610505	ऊन का	पीस	1.37
610506	ऊन और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	1.37
610507	स्पेंडेक्स/लाइक्रा/इलास्टेन का 1% या इससे अधिक वजन वाले कपास का	पीस	1.37
610599	अन्य का	पीस	1.37
<b>6106</b>	<b>महिला या लड़कियों का ब्लाउज़, शर्ट और शर्ट-ब्लाउज़, निटिड या क्रोचेटेड</b>		
610601	कपास का	पीस	1.37
610602	कपास और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	1.37
610603	मानव निर्मित फाइबर का	पीस	1.37
610604	रेशम का (नोइल रेशम के अलावा)	पीस	1.37
610605	ऊन का	पीस	1.37
610606	ऊन और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	1.37
610607	स्पेंडेक्स/लाइक्रा/इलास्टेन का 1% या इससे अधिक वजन वाले कपास का	पीस	1.37
610699	अन्य का	पीस	1.37
<b>6107</b>	<b>पुरुष या लड़कों का अंडरपैट, ब्रीफ, नाइटशर्ट, पायजामा, बाथरोब्स, ड्रेसिंग गाउनस और इस प्रकार की वस्तुएं, निटिड या क्रोचेटेड</b>		
<b>610701</b>	<b>नाइटशर्ट, पायजामा, बाथरोब्स, ड्रेसिंग गाउनस और इस प्रकार की वस्तुएं</b>		
61070101	कपास का	पीस	1.37
61070102	कपास और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	1.37
61070103	मानव निर्मित फाइबर का	पीस	1.37
61070104	रेशम का (नोइल रेशम के अलावा)	पीस	1.37
61070105	ऊन का	पीस	1.37
61070106	ऊन और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	1.37
61070107	स्पेंडेक्स/लाइक्रा/इलास्टेन का 1% या इससे अधिक वजन वाले कपास का	पीस	1.37
61070199	अन्य का	पीस	1.37
<b>610702</b>	<b>ब्रीफ, अंडरपैट और इस प्रकार की वस्तुएं</b>		
61070201	कपास का	पीस	1.37
61070202	कपास और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	1.37
61070203	मानव निर्मित फाइबर का	पीस	1.37
61070204	रेशम का (नोइल रेशम के अलावा)	पीस	1.37
61070205	ऊन का	पीस	1.37
61070206	ऊन और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	1.37
61070207	स्पेंडेक्स/लाइक्रा/इलास्टेन का 1% या इससे अधिक वजन वाले कपास का	पीस	1.37
61070299	अन्य का	पीस	1.37
<b>6108</b>	<b>महिला या लड़कियों की स्लिप, पेटीकोट, ब्रीफ, पेंटीज़, नाइट ड्रेसेज़, पायजामा, नेगलिगीज़, बाथरोब, ड्रेसिंग गाउन और इस प्रकार की वस्तुएं, निटिड या क्रोचेटेड</b>		
<b>610801</b>	<b>नाइट ड्रेसेज़ (नाइट शर्ट सहित), पायजामा, नेगलिगीज़, बाथरोब और ड्रेसिंग गाउन और इस प्रकार की वस्तुएं</b>		
61080101	कपास का	पीस	1.37

61080102	कपास और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	1.37
61080103	मानव निर्मित फाइबर का	पीस	1.37
61080104	रेशम का (नोइल रेशम के अलावा)	पीस	1.37
61080105	ऊन का	पीस	1.37
61080106	ऊन और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	1.37
61080107	स्पेंडेक्स/लाइक्रा/इलास्टेन का 1% या इससे अधिक वजन वाले कपास का	पीस	1.37
61080199	अन्य का	पीस	1.37
<b>610802</b>	<b>स्लिप, पेटीकोट, ब्रीफ, पेंटीज और इस प्रकार की वस्तुएं</b>		
61080201	कपास का	पीस	1.37
61080202	कपास और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	1.37
61080203	मानव निर्मित फाइबर का	पीस	1.37
61080204	रेशम का (नोइल रेशम के अलावा)	पीस	1.37
61080205	ऊन का	पीस	1.37
61080206	ऊन और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	1.37
61080207	स्पेंडेक्स/लाइक्रा/इलास्टेन का 1% या इससे अधिक वजन वाले कपास का	पीस	1.37
61080299	अन्य का	पीस	1.37
<b>6109</b>	<b>टी-शर्ट, सिंगलेट और अन्य वेस्ट, निटिड या क्रोचेटेड</b>		
610901	कपास का	पीस	1.37
610902	कपास और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	1.37
610903	मानव निर्मित फाइबर का	पीस	1.37
610904	रेशम का (नोइल रेशम के अलावा)	पीस	1.37
610905	ऊन का	पीस	1.37
610906	ऊन और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	1.37
610907	स्पेंडेक्स/लाइक्रा/इलास्टेन का 1% या इससे अधिक वजन वाले कपास का	पीस	1.37
610999	अन्य का	पीस	1.37
<b>6110</b>	<b>जर्सी, पुलओवर, कार्डिगन्स, वेस्टकोट और इस प्रकार की वस्तुएं, निटिड या क्रोचेटेड</b>		
611001	कपास का	पीस	1.37
611002	कपास और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	1.37
611003	मानव निर्मित फाइबर का	पीस	1.37
611004	रेशम का (नोइल रेशम के अलावा)	पीस	1.37
611005	ऊन का	पीस	1.37
611006	ऊन और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	1.37
611007	स्पेंडेक्स/लाइक्रा/इलास्टेन का 1% या इससे अधिक वजन वाले कपास का	पीस	1.37
611099	अन्य का	पीस	1.37
<b>6111</b>	<b>बच्चों के परिधान और क्लोदिंग एसेसरीज, निटिड या क्रोचेटेड</b>		
611101	कपास का	पीस	1.37
611102	कपास और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	1.37
611103	मानव निर्मित फाइबर का	पीस	1.37
611104	रेशम का (नोइल रेशम के अलावा)	पीस	1.37

611105	ऊन का	पीस	1.37
611106	ऊन और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	1.37
611107	स्पेंडेक्स/लाइक्रा/इलास्टेन का 1% या इससे अधिक वजन वाले कपास का	पीस	1.37
611199	अन्य का	पीस	1.37
<b>6112</b>	<b>ट्रेक शूट, स्काई शूट और स्विमवियर, निटिड या क्रोचेटेड</b>		
611201	कपास का	पीस	1.37
611202	कपास और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	1.37
611203	मानव निर्मित फाइबर का	पीस	1.37
611204	रेशम का (नोइल रेशम के अलावा)	पीस	1.37
611205	ऊन का	पीस	1.37
611206	ऊन और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	1.37
611207	स्पेंडेक्स/लाइक्रा/इलास्टेन का 1% या इससे अधिक वजन वाले कपास का	पीस	1.37
611299	अन्य का	पीस	1.37
<b>6113</b>	<b>शीर्ष 5903, 5906 या 5907 के निटेड या क्रोचेटेड फैब्रिक्स के परिधान, मेड-अप्स</b>		
611301	कपास का	पीस	1.37
611302	कपास और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	1.37
611303	मानव निर्मित फाइबर का	पीस	1.37
611304	रेशम का (नोइल रेशम के अलावा)	पीस	1.37
611305	ऊन का	पीस	1.37
611306	ऊन और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	1.37
611399	अन्य का	पीस	1.37
<b>6114</b>	<b>अन्य परिधान, निटिड या क्रोचेटेड</b>		
<b>611401</b>	<b>वस्त्रों के निचले हिस्से में बंधनी के साथ निटेड अथवा क्रोचेटेड महिलाओं अथवा लड़कियों के ब्लाउज, शर्ट और शर्ट ब्लाउज</b>		
61140101	कपास का	पीस	1.37
61140102	कपास और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	1.37
61140103	मानव निर्मित फाइबर का	पीस	1.37
61140104	रेशम का (नोइल रेशम के अलावा)	पीस	1.37
61140105	ऊन का	पीस	1.37
61140106	ऊन और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	1.37
61140107	स्पेंडेक्स/लाइक्रा/इलास्टेन का 1% या इससे अधिक वजन वाले कपास का	पीस	1.37
61140199	अन्य का	पीस	1.37
<b>611402</b>	<b>महिलाओं अथवा लड़कियों के टॉप्स/कैमी</b>		
61140201	कपास का	पीस	1.37
61140202	कपास और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	1.37
61140203	मानव निर्मित फाइबर का	पीस	1.37
61140204	रेशम का (नोइल रेशम के अलावा)	पीस	1.37
61140205	ऊन का	पीस	1.37
61140206	ऊन और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	1.37
61140207	स्पेंडेक्स/लाइक्रा/इलास्टेन का 1% या इससे अधिक वजन वाले कपास का	पीस	1.37

61140299	अन्य का	पीस	1.37
<b>611403</b>	<b>शीर्ष 6103 अथवा 6104 के अंतर्गत शामिल नहीं किए गए अन्य जैकेट</b>		
61140301	कपास	पीस	1.37
61140302	कपास और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	1.37
61140303	मानव निर्मित फाइबर का	पीस	1.37
61140304	रेशम का (नोइल रेशम के अलावा)	पीस	1.37
61140305	ऊन का	पीस	1.37
61140306	ऊन और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	1.37
61140399	अन्य का	पीस	1.37
<b>611404</b>	<b>दुपट्टा के साथ अथवा उसके बिना कुर्ता और सलवार/सलवार शूट/सलवार कमीज/चूड़ीदार कमीज</b>		
61140401	कपास	पीस	1.37
61140402	कपास और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	1.37
61140403	मानव निर्मित फाइबर का	पीस	1.37
61140404	रेशम का (नोइल रेशम के अलावा)	पीस	1.37
61140405	ऊन का	पीस	1.37
61140406	ऊन और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	1.37
61140499	अन्य का	पीस	1.37
<b>611405</b>	<b>अन्य</b>		
61140501	कपास	पीस	1.37
61140502	कपास और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	1.37
61140503	मानव निर्मित फाइबर का	पीस	1.37
61140504	रेशम का (नोइल रेशम के अलावा)	पीस	1.37
61140505	ऊन का	पीस	1.37
61140506	ऊन और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	1.37
61140507	सुरक्षात्मक औद्योगिक वियर	पीस	1.37
61140599	अन्य का	पीस	1.37
<b>6115</b>	<b>निटेड अथवा क्रोचेटेड ग्रेजुएटेड कमप्रेशन हॉजरी (उदाहरण के लिए बेरीकोस विन्स के लिए स्टॉकिंग्स) सहित पैंटी होस, टाइट्स स्टॉकिंग्स, शॉक्स और अन्य हॉजरी और एप्लाइड सोल्स के बगैर फुटवीयर</b>		
<b>611501</b>	<b>लैंगिंस</b>		
61150101	कपास का	पीस	1.37
61150102	कपास और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	1.37
61150103	मानव निर्मित फाइबर का	पीस	1.37
61150104	रेशम का (नोइल रेशम के अलावा)	पीस	1.37
61150105	ऊन का	पीस	1.37
61150106	ऊन और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	1.37
61150107	स्पैनडेक्स/लैग्रा/इलसटेन के 1% अथवा अधिक भार वाले कॉटन	पीस	1.37
61150199	अन्य का	पीस	1.37
<b>611502</b>	<b>अन्य</b>		

61150201	कपास का	कि.ग्रा.	1.37
61150202	कपास और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	कि.ग्रा.	1.37
61150203	मानव निर्मित फाइबर का	कि.ग्रा.	1.37
61150204	रेशम का (नोइल रेशम के अलावा)	कि.ग्रा.	1.37
61150205	ऊन का	कि.ग्रा.	1.37
61150206	ऊन और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	कि.ग्रा.	1.37
61150207	स्पेंडेक्स/लाइक्रा/इलास्टेन का 1% या इससे अधिक वजन वाले कपास का	कि.ग्रा.	1.37
61150299	अन्य का	कि.ग्रा.	1.37
<b>6116</b>	निटिड या क्रोचेटेड, ग्लोब्स, मिटेंस और मिट्स		
611601	कपास का	कि.ग्रा.	1.37
611602	कपास और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	कि.ग्रा.	1.37
611603	मानव निर्मित फाइबर का	कि.ग्रा.	1.37
611604	रेशम का (नोइल रेशम के अलावा)	कि.ग्रा.	1.37
611605	ऊन का	कि.ग्रा.	1.37
611606	ऊन और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	कि.ग्रा.	1.37
611607	खेलों में उपयोग के लिए विशेष रूप से तैयार किए गए ग्लोब्स नामतः टेक्सटाइल्स सामग्री से बने गोल्फ ग्लोब्स	पीस	1.37
611699	अन्य का	कि.ग्रा.	1.37
<b>6117</b>	निटेड अथवा क्रोचेटेड अन्य तैयार क्लोदिंग एसेसरिज; परिधानों अथवा क्लोदिंग एसेसरिज के निटेड अथवा क्रोचेटेड पार्ट्स		
<b>611701</b>	शॉल, स्कॉर्फ, मफलर, स्टॉल, मंटीलास और वेल्स		
61170101	कपास का	पीस	1.37
61170102	कपास और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	1.37
61170103	मानव निर्मित फाइबर का	पीस	1.37
61170104	रेशम का (नोइल रेशम के अलावा)	पीस	1.37
61170105	ऊन का	पीस	1.37
61170106	ऊन और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	1.37
61170199	अन्य का	पीस	1.37
<b>611702</b>	अन्य		
61170201	कपास का	कि.ग्रा.	1.37
61170202	कपास और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	कि.ग्रा.	1.37
61170203	मानव निर्मित फाइबर का	कि.ग्रा.	1.37
61170204	रेशम का (नोइल रेशम के अलावा)	कि.ग्रा.	1.37
61170205	ऊन का	कि.ग्रा.	1.37
61170206	ऊन और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	कि.ग्रा.	1.37
61170299	अन्य का	कि.ग्रा.	1.37

**अध्याय- 62****गैर निटिड या क्रोचेटेड अपैरल और क्लोदिंग एसेसरिज की वस्तुएं**

टैरिफ मद	वस्तुओं का विवरण	इकाई	एए- राज्य की दरें (% में)
1	2	3	4



<b>6201</b>	<b>पुरुषों अथवा लड़कों के ओवरकोट, कार-कोट, क्लॉक्स, अनोरेक्स (स्काई जैकेट सहित), विंड चीटर्स, विंड जैकेट और शीर्ष 6203 के अलावा ऐसे ही अन्य सामान</b>		
620101	कपास का	पीस	1.37
620102	कपास और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	1.37
620103	मानव निर्मित फाइबर का	पीस	1.37
620104	रेशम का (नोइल रेशम के अलावा)	पीस	1.37
620105	ऊन का	पीस	1.37
620106	ऊन और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	1.37
620199	अन्य का	पीस	1.37
<b>6202</b>	<b>महिलाओं अथवा लड़कियों के ओवरकोट, कार-कोट, कैप्स, क्लॉक्स, अनोरेक्स (स्काई जैकेट सहित), विंड चीटर्स, विंड जैकेट और शीर्ष 6204 के अलावा ऐसे ही अन्य सामान</b>		
620201	कपास का	पीस	1.37
620202	कपास और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	1.37
620203	मानव निर्मित फाइबर का	पीस	1.37
620204	रेशम का (नोइल रेशम के अलावा)	पीस	1.37
620205	ऊन का	पीस	1.37
620206	ऊन और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	1.37
620299	अन्य का	पीस	1.37
<b>6203</b>	<b>पुरुषों अथवा लड़कों के शूट, ऐनसेंबल्स, जैकेट, ब्लेजर, ट्राउजर्स, बिब एंड ब्रेस ओवरऑल्स, ब्रीचेज एंड शॉर्ट्स (स्विमवियर के अलावा)</b>		
<b>620301</b>	<b>शूट (कम से कम एक पायजामा और एक जैकेट का कंबीनेशन)</b>		
62030101	कपास का	पीस	1.37
62030102	कपास और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	1.37
62030103	मानव निर्मित फाइबर का	पीस	1.37
62030104	रेशम का (नोइल रेशम के अलावा)	पीस	1.37
62030105	ऊन का	पीस	1.37
62030106	ऊन और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	1.37
62030199	अन्य का	पीस	1.37
<b>620302</b>	<b>जैकेट, ब्लेजर्स</b>		
62030201	कपास का	पीस	1.37
62030202	कपास और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	1.37
62030203	मानव निर्मित फाइबर का	पीस	1.37
62030204	रेशम का (नोइल रेशम के अलावा)	पीस	1.37
62030205	ऊन का	पीस	1.37
62030206	ऊन और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	1.37
62030207	स्पेंडेक्स/लाइक्रा/इलास्टेन का 1% या इससे अधिक वजन वाले कपास का	पीस	1.37
62030299	अन्य का	पीस	1.37
<b>620303</b>	<b>ट्राउजर्स, फुल पैट</b>		
62030301	कपास का	पीस	1.37

62030302	कपास और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	1.37
62030303	मानव निर्मित फाइबर का	पीस	1.37
62030304	रेशम का (नोइल रेशम के अलावा)	पीस	1.37
62030305	ऊन का	पीस	1.37
62030306	ऊन और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	1.37
62030307	स्पेंडेक्स/लाइक्रा/इलास्टेन का 1% या इससे अधिक वजन वाले कपास का	पीस	1.37
62030399	अन्य का	पीस	1.37
<b>620304</b>	<b>अन्य (कैपरी/ 3/4 पैंट और ऐनसेंबल्स सहित)</b>		
62030401	कपास का	पीस	1.37
62030402	कपास और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	1.37
62030403	मानव निर्मित फाइबर का	पीस	1.37
62030404	रेशम का (नोइल रेशम के अलावा)	पीस	1.37
62030405	ऊन का	पीस	1.37
62030406	ऊन और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	1.37
62030407	स्पेंडेक्स/लाइक्रा/इलास्टेन का 1% या इससे अधिक वजन वाले कपास का	पीस	1.37
62030499	अन्य का	पीस	1.37
<b>6204</b>	<b>महिलाओं या लड़कियों के शूट, ऐनसेंबल्स, जैकेट, ब्लेजर्स, ड्रेसेस, स्कर्ट, डिवाइडेड स्कर्ट, ट्राउजर्स, बिब एंड ब्रेस ओवरऑल्स, ब्रीचेज एंड शॉर्ट्स (स्विमवियर के अलावा)</b>		
<b>620401</b>	<b>शूट (कम से कम एक ट्राउजर्स और एक जैकेट का कंबीनेशन)</b>		
62040101	कपास का	पीस	1.37
62040102	कपास और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	1.37
62040103	मानव निर्मित फाइबर का	पीस	1.37
62040104	रेशम का (नोइल रेशम के अलावा)	पीस	1.37
62040105	ऊन का	पीस	1.37
62040106	ऊन और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	1.37
62040199	अन्य का	पीस	1.37
<b>620402</b>	<b>जैकेट, ब्लेजर</b>		
62040201	कपास का	पीस	1.37
62040202	कपास और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	1.37
62040203	मानव निर्मित फाइबर का	पीस	1.37
62040204	रेशम का (नोइल रेशम के अलावा)	पीस	1.37
62040205	ऊन का	पीस	1.37
62040206	ऊन और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	1.37
62040207	स्पेंडेक्स/लाइक्रा/इलास्टेन का 1% या इससे अधिक वजन वाले कपास का	पीस	1.37
62040299	अन्य का	पीस	1.37
<b>620403</b>	<b>ड्रेसेस/फ्रॉक्स, स्कर्ट, डिवाइडेड स्कर्ट, ट्राउजर्स, फूल पैंट</b>		
62040301	कपास का	पीस	1.37
62040302	कपास और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	1.37
62040303	मानव निर्मित फाइबर का	पीस	1.37

62040304	रेशम का (नोइल रेशम के अलावा)	पीस	1.37
62040305	ऊन का	पीस	1.37
62040306	ऊन और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	1.37
62040307	स्पेंडेक्स/लाइक्रा/इलास्टेन का 1% या इससे अधिक वजन वाले कपास का	पीस	1.37
62040399	अन्य का	पीस	1.37
<b>620404</b>	<b>अन्य (कैपरी/ 3/4 पैट और ऐनसेंबल्स सहित)</b>		
62040401	कपास का	पीस	1.37
62040402	कपास और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	1.37
62040403	मानव निर्मित फाइबर का	पीस	1.37
62040404	रेशम का (नोइल रेशम के अलावा)	पीस	1.37
62040405	ऊन का	पीस	1.37
62040406	ऊन और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	1.37
62040407	स्पेंडेक्स/लाइक्रा/इलास्टेन का 1% या इससे अधिक वजन वाले कपास का	पीस	1.37
62040499	अन्य का	पीस	1.37
<b>6205</b>	<b>पुरुष या लड़कों की शर्ट</b>		
620501	कपास का	पीस	1.37
620502	कपास और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	1.37
620503	मानव निर्मित फाइबर का	पीस	1.37
620504	रेशम का (नोइल रेशम के अलावा)	पीस	1.37
620505	ऊन का	पीस	1.37
620506	ऊन और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	1.37
620507	स्पेंडेक्स/लाइक्रा/इलास्टेन का 1% या इससे अधिक वजन वाले कपास का	पीस	1.37
620599	अन्य का	पीस	1.37
<b>6206</b>	<b>महिलाओं या लड़कियों का ब्लाउज, शर्ट्स और शर्ट-ब्लाउज</b>		
620601	कपास का	पीस	1.37
620602	कपास और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	1.37
620603	मानव निर्मित फाइबर का	पीस	1.37
620604	रेशम का (नोइल रेशम के अलावा)	पीस	1.37
620605	ऊन का	पीस	1.37
620606	ऊन और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	1.37
620607	स्पेंडेक्स/लाइक्रा/इलास्टेन का 1% या इससे अधिक वजन वाले कपास का	पीस	1.37
620699	अन्य का	पीस	1.37
<b>6207</b>	<b>पुरुषों या लड़कों के सिंगलेट और अन्य वेस्ट्स, अंडरपैट, ब्रीफ्स, नाइटशर्ट्स, पायजामा, बाथ-रॉब्स, ड्रेसिंग गॉउन्स और ऐसे ही सामान</b>		
<b>620701</b>	<b>ड्रेसिंग गॉउन्स, बाथरॉब्स, पायजामा, नाइटशर्ट्स और ऐसे ही सामान</b>		
62070101	कपास का	पीस	1.37
62070102	कपास और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	1.37
62070103	मानव निर्मित फाइबर का	पीस	1.37
62070104	रेशम का (नोइल रेशम के अलावा)	पीस	1.37

62070105	ऊन का	पीस	1.37
62070106	ऊन और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	1.37
62070107	स्पेंडेक्स/लाइक्रा/इलास्टेन का 1% या इससे अधिक वजन वाले कपास का	पीस	1.37
62070199	अन्य का	पीस	1.37
<b>620702</b>	<b>सिन्गलेट्स और अन्य वेस्ट्स, अंडरपैट, ब्रीफ्स और ऐसे ही सामान</b>		
62070201	कपास का	पीस	1.37
62070202	कपास और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	1.37
62070203	मानव निर्मित फाइबर का	पीस	1.37
62070204	रेशम का (नोइल रेशम के अलावा)	पीस	1.37
62070205	ऊन का	पीस	1.37
62070206	ऊन और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	1.37
62070207	स्पेंडेक्स/लाइक्रा/इलास्टेन का 1% या इससे अधिक वजन वाले कपास का	पीस	1.37
62070299	अन्य का	पीस	1.37
<b>6208</b>	<b>महिलाओं या लड़कियों का सिंगलेट और अन्य वेस्ट्स, स्लिप, पेटीकोट्स, ब्रीफ, पेंटीज, नाइट ड्रेस, पायजामा, नेगलीगेस, बाथरॉब्स, ड्रेसिंग गॉउन्स और ऐसे ही सामान</b>		
<b>620801</b>	<b>ड्रेसिंग गॉउन्स, बाथरॉब्स, पायजामा, नेगलीगेस, नाइटड्रेस (नाइटशर्ट्स सहित) और ऐसे ही सामान</b>		
62080101	कपास का	पीस	1.37
62080102	कपास और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	1.37
62080103	मानव निर्मित फाइबर का	पीस	1.37
62080104	रेशम का (नोइल रेशम के अलावा)	पीस	1.37
62080105	ऊन का	पीस	1.37
62080106	ऊन और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	1.37
62080107	स्पेंडेक्स/लाइक्रा/इलास्टेन का 1% या इससे अधिक वजन वाले कपास का	पीस	1.37
62080199	अन्य का	पीस	1.37
<b>620802</b>	<b>सिंगलेट और अन्य वेस्ट्स, स्लिप, पेटीकोट, ब्रीफ, पेंटीज और इसी प्रकार की वस्तुएं</b>		
62080201	कपास का	पीस	1.37
62080202	कपास और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	1.37
62080203	मानव निर्मित फाइबर का	पीस	1.37
62080204	रेशम का (नोइल रेशम के अलावा)	पीस	1.37
62080205	ऊन का	पीस	1.37
62080206	ऊन और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	1.37
62080207	स्पेंडेक्स/लाइक्रा/इलास्टेन का 1% या इससे अधिक वजन वाले कपास का	पीस	1.37
62080299	अन्य का	पीस	1.37
<b>6209</b>	<b>बच्चों के कपड़े और क्लोदिंग एसेसरिज</b>		
620901	कपास का	पीस	1.37
620902	कपास और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	1.37
620903	मानव निर्मित फाइबर का	पीस	1.37
620904	रेशम का (नोइल रेशम के अलावा)	पीस	1.37
620905	ऊन का	पीस	1.37

620906	ऊन और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	1.37
620907	स्पेंडेक्स/लाइक्रा/इलास्टेन का 1% या इससे अधिक वजन वाले कपास का	पीस	1.37
620999	अन्य का	पीस	1.37
<b>6210</b>	<b>शीर्ष 5602, 5603, 5903, 5906 या 5907 के परिधान, फैब्रिक्स के सामान</b>		
621001	कपास का	पीस	1.37
621002	कपास और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	1.37
621003	मानव निर्मित फाइबर का	पीस	1.37
621004	रेशम का (नोइल रेशम के अलावा)	पीस	1.37
621005	ऊन का	पीस	1.37
621006	ऊन और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	1.37
621099	अन्य का	पीस	1.37
<b>6211</b>	<b>ट्रेक शूट, स्काई शूट और स्विमवियर; अन्य परिधान</b>		
<b>621101</b>	<b>वस्त्रों के निचले हिस्से में बंधनी के साथ महिलाओं या लड़कियों का ब्लाउज, शर्ट्स और शर्ट-ब्लाउज,</b>		
62110101	कपास का	पीस	1.37
62110102	कपास और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	1.37
62110103	मानव निर्मित फाइबर का	पीस	1.37
62110104	रेशम का (नोइल रेशम के अलावा)	पीस	1.37
62110105	ऊन का	पीस	1.37
62110106	ऊन और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	1.37
62110107	स्पेंडेक्स/लाइक्रा/इलास्टेन का 1% या इससे अधिक वजन वाले कपास का	पीस	1.37
62110199	अन्य का	पीस	1.37
<b>621102</b>	<b>महिलाओं अथवा लड़कियों के टॉप्स/कैमी</b>		
62110201	कपास का	पीस	1.37
62110202	कपास और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	1.37
62110203	मानव निर्मित फाइबर का	पीस	1.37
62110204	रेशम का (नोइल रेशम के अलावा)	पीस	1.37
62110205	ऊन का	पीस	1.37
62110206	ऊन और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	1.37
62110207	स्पेंडेक्स/लाइक्रा/इलास्टेन का 1% या इससे अधिक वजन वाले कपास का	पीस	1.37
62110299	अन्य का	पीस	1.37
<b>621103</b>	<b>शीर्ष 6203 अथवा 6204 के अंतर्गत शामिल नहीं किए अन्य जैकेट</b>		
62110301	कपास का	पीस	1.37
62110302	कपास और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	1.37
62110303	मानव निर्मित फाइबर का	पीस	1.37
62110304	रेशम का (नोइल रेशम के अलावा)	पीस	1.37
62110305	ऊन का	पीस	1.37
62110306	ऊन और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	1.37
62110399	अन्य का	पीस	1.37

<b>621104</b>	<b>सुरक्षात्मक औद्योगिक वियर</b>		
62110401	समग्र रूप से कपास के बने सुरक्षात्मक औद्योगिक वियर	पीस	1.37
62110402	कपास के बने अन्य सुरक्षात्मक औद्योगिक वियर	पीस	1.37
62110403	समग्र रूप से अरामिड फाइबर अथवा मोडाकिलिक फाइबर से बने सुरक्षात्मक औद्योगिक वियर	पीस	1.37
62110404	अरामिड फाइबर से बने अन्य सुरक्षात्मक औद्योगिक वियर	पीस	1.37
62110405	समग्र रूप से मोडाकिलिक फाइबर से बने सुरक्षात्मक औद्योगिक वियर	पीस	1.37
62110406	मोडाकिलिक फाइबर से बने अन्य सुरक्षात्मक औद्योगिक वियर	पीस	1.37
62110499	अन्य सुरक्षात्मक औद्योगिक वियर	पीस	1.37
<b>621105</b>	<b>दुपट्टा के साथ अथवा उसके बिना कुर्ता और सलवार/सलवार शूट/सलवार कमीज/चूड़ीदार कमीज</b>		
62110501	कपास का	पीस	1.37
62110502	कपास और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	1.37
62110503	मानव निर्मित फाइबर का	पीस	1.37
62110504	रेशम का (नोइल रेशम के अलावा)	पीस	1.37
62110505	ऊन का	पीस	1.37
62110506	ऊन और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	1.37
62110599	अन्य का	पीस	1.37
<b>621106</b>	<b>अन्य</b>		
62110601	कपास	पीस	1.37
62110602	कपास और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	1.37
62110603	मानव निर्मित फाइबर का	पीस	1.37
62110604	रेशम का (नोइल रेशम के अलावा)	पीस	1.37
62110605	ऊन का	पीस	1.37
62110606	ऊन और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	1.37
62110699	अन्य का	पीस	1.37
<b>6212</b>	<b>ब्रेजियर, गर्डल्स, कोरसेट, ब्रेसेस, सस्पेंडर्स, गाटर्स और ऐसे ही अन्य सामान, तत्संबंधी भाग, चाहे निटेड हो अथवा क्रोचेटेड हो अथवा नहीं</b>		
621201	कपास का	कि.ग्रा.	1.37
621202	कपास और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	कि.ग्रा.	1.37
621203	मानव निर्मित फाइबर का	कि.ग्रा.	1.37
621204	रेशम का (नोइल रेशम के अलावा)	कि.ग्रा.	1.37
621205	ऊन का	कि.ग्रा.	1.37
621206	ऊन और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	कि.ग्रा.	1.37
621299	अन्य का	कि.ग्रा.	1.37
<b>6213</b>	<b>रुमाल</b>		
621301	कपास का	कि.ग्रा.	1.37
621302	कपास और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	कि.ग्रा.	1.37
621303	मानव निर्मित फाइबर का	कि.ग्रा.	1.37
621304	रेशम का (नोइल रेशम के अलावा)	कि.ग्रा.	1.37

621305	ऊन का	कि.ग्रा.	1.37
621306	ऊन और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	कि.ग्रा.	1.37
621399	अन्य का	कि.ग्रा.	1.37
<b>6214</b>	शॉल, स्कार्फ, मफलर, मंटीलास, वेल्स और ऐसे ही अन्य सामान		
<b>621401</b>	शॉल, स्क्रॉफ, मफलर, स्टॉल, मंटीलास और वेल्स		
62140101	कपास का	पीस	1.37
62140102	कपास और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	1.37
62140103	मानव निर्मित फाइबर का	पीस	1.37
62140104	रेशम का (नोइल रेशम के अलावा)	पीस	1.37
62140105	ऊन का	पीस	1.37
62140106	ऊन और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	पीस	1.37
62140199	अन्य का	पीस	1.37
<b>621402</b>	अन्य		
62140201	कपास का	कि.ग्रा.	1.37
62140202	कपास और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	कि.ग्रा.	1.37
62140203	मानव निर्मित फाइबर का	कि.ग्रा.	1.37
62140204	रेशम का (नोइल रेशम के अलावा)	कि.ग्रा.	1.37
62140205	ऊन का	कि.ग्रा.	1.37
62140206	ऊन और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	कि.ग्रा.	1.37
62140299	अन्य का	कि.ग्रा.	1.37
<b>6215</b>	टाई, बो टाई और क्रवाट्स		
621501	कपास का	कि.ग्रा.	1.37
621502	कपास और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	कि.ग्रा.	1.37
621503	मानव निर्मित फाइबर का	कि.ग्रा.	1.37
621504	रेशम का (नोइल रेशम के अलावा)	कि.ग्रा.	1.37
621505	ऊन का	कि.ग्रा.	1.37
621506	ऊन और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	कि.ग्रा.	1.37
621599	अन्य का	कि.ग्रा.	1.37
<b>6216</b>	ग्लोब्स, मिटेंस और मिट्स		
621601	कपास का	कि.ग्रा.	1.37
621602	कपास और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	कि.ग्रा.	1.37
621603	मानव निर्मित फाइबर का	कि.ग्रा.	1.37
621604	रेशम का (नोइल रेशम के अलावा)	कि.ग्रा.	1.37
621605	ऊन का	कि.ग्रा.	1.37
621606	ऊन और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	कि.ग्रा.	1.37
621607	खेलों में उपयोग के लिए विशेष रूप से तैयार किए गए ग्लोब्स नामतः टेक्सटाइल्स सामग्री से बने गोल्फ ग्लोब्स	पीस	1.37
621699	अन्य का	कि.ग्रा.	1.37
<b>6217</b>	शीर्ष 6212 के अलावा अन्य तैयार क्लोदिंग एसेसरिज और परिधानों अथवा क्लोदिंग एसेसरिज के भाग		

621701	कपास का	कि.ग्रा.	1.37
621702	कपास और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	कि.ग्रा.	1.37
621703	मानव निर्मित फाइबर का	कि.ग्रा.	1.37
621704	रेशम का (नोइल रेशम के अलावा)	कि.ग्रा.	1.37
621705	ऊन का	कि.ग्रा.	1.37
621706	ऊन और मानव निर्मित फाइबर वाले मिश्रण का	कि.ग्रा.	1.37
621799	अन्य का	कि.ग्रा.	1.37

**अनुसूची 4: एए-लगाए गए केंद्रीय लेवियों की दरें**

<b>अध्याय - 61</b>			
<b>अपैरल और क्लॉदिंग ऐससरीज़ के वस्त्र, निटिड या क्रोचेटेड</b>			
टैरिफ मद	वस्तु का विवरण	इकाई	एए-केंद्रीय दरें (% में)
1	2	3	4
<b>6101</b>	<b>पुरुषों या लड़कों के ओवरकोट, कारकोट्स, केप्स, क्लोक्स, एनोरक्स (स्की-जैकेट सहित), विंड-शीटर्स, विंड-जैकेट्स और इसी तरह की वस्त्र, बुना हुआ या क्रोचेटेड, 6103 मुख्य शीर्ष में शामिल वस्त्रों के अलावा</b>		
610,101	कपास का	पीस	1.08
610,102	कॉटन और मैन मेड फाइबर युक्त ब्लेंड की	पीस	1.08
610,103	मैन मेड फाइबर्स की	पीस	1.08
610,104	सिल्क की ( नोइल सिल्क युक्त अन्य )	पीस	1.08
610,105	ऊन का	पीस	1.08
610,106	वूल और मैन मेड फाइबर युक्त ब्लेंड की	पीस	1.08
610,199	अन्य	पीस	1.08
<b>6102</b>	<b>महिलाओं या लड़कियों के ओवरकोट, कार-कोट, टोपी, लहंगा, अनारक (स्की-जैकेट सहित), विंड-शीटर, विंड-जैकेट और इसी तरह के वस्त्र, बुना हुआ या क्रोचेटेड, 6104 शीर्षक में शामिल वस्त्रों के अलावा</b>		
610,201	कपास का	पीस	1.08
610,202	कॉटन और मैन मेड फाइबर युक्त ब्लेंड की	पीस	1.08
610,203	मैन मेड फाइबर्स की	पीस	1.08
610,204	सिल्क की ( नोइल सिल्क युक्त अन्य )	पीस	1.08
610,205	ऊन का	पीस	1.08
610,206	वूल और मैन मेड फाइबर युक्त ब्लेंड की	पीस	1.08
610,299	अन्य	पीस	1.08
<b>6103</b>	<b>पुरुषों या लड़कों के सूट, ऍसेम्बल, जैकेट, ब्लेज़र, ट्राउजर, बिब और ब्रेस ओवरऑल, ब्रीच और शॉर्ट्स (स्विम वियर के अलावा), बुना हुआ या क्रोचेटेड</b>		
<b>610,301</b>	<b>सूट (कम से कम एक ट्राउजर और एक जैकेट शामिल है)</b>		
61030101	कपास का	पीस	1.08
61030102	कॉटन और मैन मेड फाइबर युक्त ब्लेंड की	पीस	1.08



61030103	मैन मेड फाइबर्स की	पीस	1.08
61030104	सिल्क की ( नोइल सिल्क युक्त अन्य )	पीस	1.08
61030105	ऊन का	पीस	1.08
61030106	वूल और मैन मेड फाइबर युक्त ब्लेंड की	पीस	1.08
61030199	अन्य	पीस	1.08
<b>610,302</b>	<b>जैकेट, ब्लेज़र</b>		1.08
61030201	कपास का	पीस	1.08
61030202	कॉटन और मैन मेड फाइबर युक्त ब्लेंड की	पीस	1.08
61030203	मैन मेड फाइबर्स की	पीस	1.08
61030204	सिल्क की ( नोइल सिल्क युक्त अन्य )	पीस	1.08
61030205	ऊन का	पीस	1.08
61030206	वूल और मैन मेड फाइबर युक्त ब्लेंड की	पीस	1.08
61030207	स्पैन्डेक्स / लाइक्रा / इलास्टेन के वजन से 1% या अधिक कपास की	पीस	1.08
61030299	अन्य	पीस	1.08
<b>610,303</b>	<b>ट्राउजर, पूरी पैट</b>		
61030301	कपास का	पीस	1.08
61030302	कॉटन और मैन मेड फाइबर युक्त ब्लेंड की	पीस	1.08
61030303	मैन मेड फाइबर्स की	पीस	1.08
61030304	सिल्क की ( नोइल सिल्क युक्त अन्य )	पीस	1.08
61030305	ऊन का	पीस	1.08
61030306	वूल और मैन मेड फाइबर युक्त ब्लेंड की	पीस	1.08
61030307	स्पैन्डेक्स / लाइक्रा / इलास्टेन के वजन से 1% या अधिक कपास की	पीस	1.08
61030399	अन्य	पीस	1.08
<b>610,304</b>	<b>अन्य ( कैप्री / तीन-चौथाई पैट और ऐनसेम्बलज सहित)</b>		
61030401	कपास का	पीस	1.08
61030402	कॉटन और मैन मेड फाइबर युक्त ब्लेंड की	पीस	1.08
61030403	मैन मेड फाइबर्स की	पीस	1.08
61030404	सिल्क की ( नोइल सिल्क युक्त अन्य )	पीस	1.08
61030405	ऊन का	पीस	1.08
61030406	वूल और मैन मेड फाइबर युक्त ब्लेंड की	पीस	1.08
61030407	स्पैन्डेक्स / लाइक्रा / इलास्टेन के वजन से 1% या अधिक कपास की	पीस	1.08
61030499	अन्य	पीस	1.08
<b>6104</b>	<b>महिलाओं या लड़कियों के सूट, ऐनसेम्बलज, जैकेट, ब्लेज़र, कपड़े, स्कर्ट, विभाजित स्कर्ट, ट्राउजर, विब और ब्रेस ओवरऑल, ब्रीच और शॉर्ट्स (तैराकी पहनने के अलावा), बुना हुआ या क्रोचेटेड</b>		
<b>610,401</b>	<b>सूट (कम से कम एक ट्राउजर और एक जैकेट शामिल है)</b>		
61040101	कपास का	पीस	1.08
61040102	कॉटन और मैन मेड फाइबर युक्त ब्लेंड की	पीस	1.08
61040103	मैन मेड फाइबर्स की	पीस	1.08

61040104	सिल्क की ( नोइल सिल्क युक्त अन्य )	पीस	1.08
61040105	ऊन का	पीस	1.08
61040106	वूल और मैन मेड फाइबर युक्त ब्लेंड की	पीस	1.08
61040199	अन्य	पीस	1.08
<b>610,402</b>	<b>जैकेट, ब्लेज़र</b>		
61040201	कपास का	पीस	1.08
61040202	कॉटन और मैन मेड फाइबर युक्त ब्लेंड की	पीस	1.08
61040203	मैन मेड फाइबर्स की	पीस	1.08
61040204	सिल्क की ( नोइल सिल्क युक्त अन्य )	पीस	1.08
61040205	ऊन का	पीस	1.08
61040206	वूल और मैन मेड फाइबर युक्त ब्लेंड की	पीस	1.08
61040207	स्पैन्डेक्स / लाइक्रा / इलास्टेन के वजन से 1% या अधिक कपास की	पीस	1.08
61040299	अन्य	पीस	1.08
<b>610,403</b>	<b>कपड़े / फ्रॉक, स्कर्ट, विभाजित स्कर्ट, ट्राउज़र, पूरी पैट</b>		
61040301	कपास का	पीस	1.08
61040302	कॉटन और मैन मेड फाइबर युक्त ब्लेंड की	पीस	1.08
61040303	मैन मेड फाइबर्स की	पीस	1.08
61040304	सिल्क की ( नोइल सिल्क युक्त अन्य )	पीस	1.08
61040305	ऊन का	पीस	1.08
61040306	वूल और मैन मेड फाइबर युक्त ब्लेंड की	पीस	1.08
61040307	स्पैन्डेक्स / लाइक्रा / इलास्टेन के वजन से 1% या अधिक कपास की	पीस	1.08
61040399	अन्य	पीस	1.08
<b>610,404</b>	<b>अन्य ( कैप्री / तीन-चौथाई पैट और ऍसेम्बल सहित)</b>		
61040401	कपास का	पीस	1.08
61040402	कॉटन और मैन मेड फाइबर युक्त ब्लेंड की	पीस	1.08
61040403	मैन मेड फाइबर्स की	पीस	1.08
61040404	सिल्क की ( नोइल सिल्क युक्त अन्य )	पीस	1.08
61040405	ऊन का	पीस	1.08
61040406	वूल और मैन मेड फाइबर युक्त ब्लेंड की	पीस	1.08
61040407	स्पैन्डेक्स / लाइक्रा / इलास्टेन के वजन से 1% या अधिक कपास की	पीस	1.08
61040499	अन्य	पीस	1.08
<b>6105</b>	<b>पुरुषों या लड़कों की शर्ट, बुना हुआ या क्रोचेटेड</b>		
610,501	कपास का	पीस	1.08
610,502	कॉटन और मैन मेड फाइबर युक्त ब्लेंड की	पीस	1.08
610,503	मैन मेड फाइबर्स की	पीस	1.08
610,504	सिल्क की ( नोइल सिल्क युक्त अन्य )	पीस	1.08
610,505	ऊन का	पीस	1.08
610,506	वूल और मैन मेड फाइबर युक्त ब्लेंड की	पीस	1.08
610,507	स्पैन्डेक्स / लाइक्रा / इलास्टेन के वजन से 1% या अधिक कपास की	पीस	1.08

610,599	अन्य	पीस	1.08
<b>6106</b>	<b>महिलाओं या लड़कियों के ब्लाउज, शर्ट और शर्ट-ब्लाउज, बुना हुआ या क्रोचेटेड</b>		
610,601	कपास का	पीस	1.08
610,602	काँटन और मैन मेड फाइबर युक्त ब्लेंड की	पीस	1.08
610,603	मैन मेड फाइबर्स की	पीस	1.08
610,604	सिल्क की ( नोइल सिल्क युक्त अन्य )	पीस	1.08
610,605	ऊन का	पीस	1.08
610,606	वूल और मैन मेड फाइबर युक्त ब्लेंड की	पीस	1.08
610,607	स्पैन्डेक्स / लाइक्रा / इलास्टेन के वजन से 1% या अधिक कपास की	पीस	1.08
610,699	अन्य	पीस	1.08
<b>6107</b>	<b>पुरुषों या लड़कों के अन्डरपैन्ट, ब्रीफ, नाइटशर्ट, पजामा , बाथरोब, ड्रेसिंग गाउन और इसी तरह के वस्त्र, बुना हुआ या क्रोचेटेड</b>		
<b>610,701</b>	<b>नाइटशर्ट, पजामा , बाथरोब और ड्रेसिंग गाउन और इसी तरह की वस्त्र</b>		
61070101	कपास का	पीस	1.08
61070102	काँटन और मैन मेड फाइबर युक्त ब्लेंड की	पीस	1.08
61070103	मैन मेड फाइबर्स की	पीस	1.08
61070104	सिल्क की ( नोइल सिल्क युक्त अन्य )	पीस	1.08
61070105	ऊन का	पीस	1.08
61070106	वूल और मैन मेड फाइबर युक्त ब्लेंड की	पीस	1.08
61070107	स्पैन्डेक्स / लाइक्रा / इलास्टेन के वजन से 1% या अधिक कपास की	पीस	1.08
61070199	अन्य	पीस	1.08
<b>610,702</b>	<b>ब्रीफ्स, अंडरपैन्ट और इसी तरह की वस्त्र</b>		
61070201	कपास का	पीस	1.08
61070202	काँटन और मैन मेड फाइबर युक्त ब्लेंड की	पीस	1.08
61070203	मैन मेड फाइबर्स की	पीस	1.08
61070204	सिल्क की ( नोइल सिल्क युक्त अन्य )	पीस	1.08
61070205	ऊन का	पीस	1.08
61070206	वूल और मैन मेड फाइबर युक्त ब्लेंड की	पीस	1.08
61070207	स्पैन्डेक्स / लाइक्रा / इलास्टेन के वजन से 1% या अधिक कपास की	पीस	1.08
61070299	अन्य	पीस	1.08
<b>6108</b>	<b>महिलाओं या लड़कियों की स्लिप, पेटीकोट, ब्रीफ, पैंटी, रात के कपड़े,पजामा , नेगलिजी, बाथरोब, ड्रेसिंग गाउन और इसी तरह के वस्त्र, बुना हुआ या क्रोचेटेड</b>		
<b>610,801</b>	<b>नाइट ड्रेस (नाइटशर्ट सहित), पजामा , नेगलिज बाथरोब और ड्रेसिंग गाउन और इसी तरह के वस्त्र</b>		
61080101	कपास का	पीस	1.08
61080102	काँटन और मैन मेड फाइबर युक्त ब्लेंड की	पीस	1.08
61080103	मैन मेड फाइबर्स की	पीस	1.08
61080104	सिल्क की ( नोइल सिल्क युक्त अन्य )	पीस	1.08

61080105	ऊन का	पीस	1.08
61080106	वूल और मैन मेड फाइबर युक्त ब्लेंड की	पीस	1.08
61080107	स्पैन्डेक्स / लाइक्रा / इलास्टेन के वजन से 1% या अधिक कपास की	पीस	1.08
61080199	अन्य	पीस	1.08
<b>610,802</b>	<b>स्लिप, पेटीकोट, ब्रीफ, पैंटी और इसी तरह के वस्त्र</b>		
61080201	कपास का	पीस	1.08
61080202	कॉटन और मैन मेड फाइबर युक्त ब्लेंड की	पीस	1.08
61080203	मैन मेड फाइबर्स की	पीस	1.08
61080204	सिल्क की ( नोइल सिल्क युक्त अन्य )	पीस	1.08
61080205	ऊन का	पीस	1.08
61080206	वूल और मैन मेड फाइबर युक्त ब्लेंड की	पीस	1.08
61080207	स्पैन्डेक्स / लाइक्रा / इलास्टेन के वजन से 1% या अधिक कपास की	पीस	1.08
61080299	अन्य	पीस	1.08
<b>6109</b>	<b>टी-शर्ट, सिंग्लेट और अन्य वेस्ट, बुना हुआ या क्रोचेटेड</b>		
610,901	कपास का	पीस	1.08
610,902	कॉटन और मैन मेड फाइबर युक्त ब्लेंड की	पीस	1.08
610,903	मैन मेड फाइबर्स की	पीस	1.08
610,904	सिल्क की ( नोइल सिल्क युक्त अन्य )	पीस	1.08
610,905	ऊन का	पीस	1.08
610,906	वूल और मैन मेड फाइबर युक्त ब्लेंड की	पीस	1.08
610,907	स्पैन्डेक्स / लाइक्रा / इलास्टेन के वजन से 1% या अधिक कपास की	पीस	1.08
610,999	अन्य	पीस	1.08
<b>6110</b>	<b>जर्सी, पुलओवर, कार्डिगन, कमरकोट, इसी प्रकार का एक वस्त्र, बुना हुआ या क्रोचेटेड</b>		
611,001	कपास का	पीस	1.08
611,002	कॉटन और मैन मेड फाइबर युक्त ब्लेंड की	पीस	1.08
611,003	मैन मेड फाइबर्स की	पीस	1.08
611,004	सिल्क की ( नोइल सिल्क युक्त अन्य )	पीस	1.08
611,005	ऊन का	पीस	1.08
611,006	वूल और मैन मेड फाइबर युक्त ब्लेंड की	पीस	1.08
611,007	स्पैन्डेक्स / लाइक्रा / इलास्टेन के वजन से 1% या अधिक कपास की	पीस	1.08
611,099	अन्य	पीस	1.08
<b>6111</b>	<b>शिशुओं के वस्त्र और कपड़े का सामान, बुना हुआ या क्रोचेटेड</b>		
611,101	कपास का	पीस	1.08
611,102	कॉटन और मैन मेड फाइबर युक्त ब्लेंड की	पीस	1.08
611,103	मैन मेड फाइबर्स की	पीस	1.08
611,104	सिल्क की ( नोइल सिल्क युक्त अन्य )	पीस	1.08
611,105	ऊन का	पीस	1.08
611,106	वूल और मैन मेड फाइबर युक्त ब्लेंड की	पीस	1.08
611,107	स्पैन्डेक्स / लाइक्रा / इलास्टेन के वजन से 1% या अधिक कपास की	पीस	1.08

611,199	अन्य	पीस	1.08
<b>6112</b>	<b>ट्रैक सूट, स्की सूट और स्विमवियर, बुना हुआ या क्रोचेटेड</b>		
611,201	कपास का	पीस	1.08
611,202	कॉटन और मैन मेड फाइबर युक्त ब्लेंड की	पीस	1.08
611,203	मैन मेड फाइबर्स की	पीस	1.08
611,204	सिल्क की ( नोइल सिल्क युक्त अन्य )	पीस	1.08
611,205	ऊन का	पीस	1.08
611,206	वूल और मैन मेड फाइबर युक्त ब्लेंड की	पीस	1.08
611,207	स्पैन्डेक्स / लाइक्रा / इलास्टेन के वजन से 1% या अधिक कपास की	पीस	1.08
611,299	अन्य	पीस	1.08
<b>6113</b>	<b>गारमेंट्स, 5903, 5906 या 5907 शीर्ष के तहत बुना हुआ या क्रोचेटेड कपड़ों से बना परिधान</b>		
611,301	कपास का	पीस	1.08
611,302	कॉटन और मैन मेड फाइबर युक्त ब्लेंड की	पीस	1.08
611,303	मैन मेड फाइबर्स की	पीस	1.08
611,304	सिल्क की ( नोइल सिल्क युक्त अन्य )	पीस	1.08
611,305	ऊन का	पीस	1.08
611,306	वूल और मैन मेड फाइबर युक्त ब्लेंड की	पीस	1.08
611,399	अन्य	पीस	1.08
<b>6114</b>	<b>अन्य वस्त्र, बुना हुआ या क्रोचेटेड</b>		1.08
<b>611,401</b>	<b>महिलाओं या लड़कियों के ब्लाउज, शर्ट और शर्ट-ब्लाउज, नीचे टाइट करने वाले बुने हुए या क्रोचेटेड</b>		
61140101	कपास का	पीस	1.08
61140102	कॉटन और मैन मेड फाइबर युक्त ब्लेंड की	पीस	1.08
61140103	मैन मेड फाइबर्स की	पीस	1.08
61140104	सिल्क की ( नोइल सिल्क युक्त अन्य )	पीस	1.08
61140105	ऊन का	पीस	1.08
61140106	वूल और मैन मेड फाइबर युक्त ब्लेंड की	पीस	1.08
61140107	स्पैन्डेक्स / लाइक्रा / इलास्टेन के वजन से 1% या अधिक कपास की	पीस	1.08
61140199	अन्य	पीस	1.08
<b>611,402</b>	<b>महिलाओं या लड़कियों के टॉप्स/ कैमी</b>		
61140201	कपास का	पीस	1.08
61140202	कॉटन और मैन मेड फाइबर युक्त ब्लेंड की	पीस	1.08
61140203	मैन मेड फाइबर्स की	पीस	1.08
61140204	सिल्क की ( नोइल सिल्क युक्त अन्य )	पीस	1.08
61140205	ऊन का	पीस	1.08
61140206	वूल और मैन मेड फाइबर युक्त ब्लेंड की	पीस	1.08
61140207	स्पैन्डेक्स / लाइक्रा / इलास्टेन के वजन से 1% या अधिक कपास की	पीस	1.08
61140299	अन्य	पीस	1.08
<b>611,403</b>	<b>अन्य जैकेट 6103 या 6104 शीर्ष के तहत कवर नहीं किए गए हैं</b>		

61140301	कपास का	पीस	1.08
61140302	कॉटन और मैन मेड फाइबर युक्त ब्लेंड की	पीस	1.08
61140303	मैन मेड फाइबर्स की	पीस	1.08
61140304	सिल्क की ( नोइल सिल्क युक्त अन्य )	पीस	1.08
61140305	ऊन का	पीस	1.08
61140306	वूल और मैन मेड फाइबर युक्त ब्लेंड की	पीस	1.08
61140399	अन्य	पीस	1.08
<b>611,404</b>	<b>कुर्ता और सलवार / सलवार सूट/ सलवार-कमीज / चूड़ीदार-कमीज ,दुपट्टे के साथ या बिना</b>		
61140401	कपास का	पीस	1.08
61140402	कॉटन और मैन मेड फाइबर युक्त ब्लेंड की	पीस	1.08
61140403	मैन मेड फाइबर्स की	पीस	1.08
61140404	सिल्क की ( नोइल सिल्क युक्त अन्य )	पीस	1.08
61140405	ऊन का	पीस	1.08
61140406	वूल और मैन मेड फाइबर युक्त ब्लेंड की	पीस	1.08
61140499	अन्य	पीस	1.08
<b>611,405</b>	<b>अन्य लोग</b>		
61140501	कपास का	पीस	1.08
61140502	कॉटन और मैन मेड फाइबर युक्त ब्लेंड की	पीस	1.08
61140503	मैन मेड फाइबर्स की	पीस	1.08
61140504	सिल्क की ( नोइल सिल्क युक्त अन्य )	पीस	1.08
61140505	ऊन का	पीस	1.08
61140506	वूल और मैन मेड फाइबर युक्त ब्लेंड की	पीस	1.08
61140507	सुरक्षात्मक औद्योगिक पहनते हैं	पीस	1.08
61140599	अन्य	पीस	1.08
<b>6115</b>	<b>पेंटी होज़, टाइल्स, मोज़ा, मोज़े और अन्य होज़री, जिनमें ग्रेजुएटेड कंफ़ेसन होज़री (उदाहरण के लिए, वैरिकोज़ नसों के लिए मोज़ा) और प्रायोगिक तलवों के बिना जूते, बुना हुआ या क्रोचेटेड</b>		
<b>611,501</b>	<b>लेगिंग</b>		
61150101	कपास का	पीस	1.08
61150102	कॉटन और मैन मेड फाइबर युक्त ब्लेंड की	पीस	1.08
61150103	मैन मेड फाइबर्स की	पीस	1.08
61150104	सिल्क की ( नोइल सिल्क युक्त अन्य )	पीस	1.08
61150105	ऊन का	पीस	1.08
61150106	वूल और मैन मेड फाइबर युक्त ब्लेंड की	पीस	1.08
61150107	स्पैन्डेक्स / लाइक्रा / इलास्टेन के वजन से 1% या अधिक कपास की	पीस	1.08
61150199	अन्य	पीस	1.08
<b>611,502</b>	<b>अन्य</b>		
61150201	कपास का	कि.ग्रा.	1.08
61150202	कॉटन और मैन मेड फाइबर युक्त ब्लेंड की	कि.ग्रा.	1.08

61150203	मैन मेड फाइबर्स की	कि.ग्रा.	1.08
61150204	सिल्क की ( नोइल सिल्क युक्त अन्य )	कि.ग्रा.	1.08
61150205	ऊन का	कि.ग्रा.	1.08
61150206	वूल और मैन मेड फाइबर युक्त ब्लेंड की	कि.ग्रा.	1.08
61150207	स्पैन्डेक्स / लाइक्रा / इलास्टेन के वजन से 1% या अधिक कपास की	कि.ग्रा.	1.08
61150299	अन्य	कि.ग्रा.	1.08
<b>6116</b>	<b>दस्ताने, मिटेन और मिट, बुना हुआ या क्रोचेटेड</b>		
611,601	कपास का	कि.ग्रा.	1.08
611,602	कॉटन और मैन मेड फाइबर युक्त ब्लेंड की	कि.ग्रा.	1.08
611,603	मैन मेड फाइबर्स की	कि.ग्रा.	1.08
611,604	सिल्क की ( नोइल सिल्क युक्त अन्य )	कि.ग्रा.	1.08
611,605	ऊन का	कि.ग्रा.	1.08
611,606	वूल और मैन मेड फाइबर युक्त ब्लेंड की	कि.ग्रा.	1.08
611,607	दस्ताने, जो विशेष रूप से खेल में उपयोग के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, जैसे कि कपड़ों से गोल्फ के दस्ताने	पीस	1.08
611,699	<b>अन्य</b>	कि.ग्रा.	1.08
<b>6117</b>	<b>कपड़े की अन्य वस्तुएं, बुना हुआ या क्रोचेटेड; परिधानों अथवा अनुषंगी कपड़ों के भाग</b>		
<b>611,701</b>	<b>शॉल, स्कार्फ, मफलर, स्टोल, मैन्टिलस और पर्दा</b>		
61170101	कपास का	पीस	1.08
61170102	कॉटन और मैन मेड फाइबर युक्त ब्लेंड की	पीस	1.08
61170103	मैन मेड फाइबर्स की	पीस	1.08
61170104	सिल्क की ( नोइल सिल्क युक्त अन्य )	पीस	1.08
61170105	ऊन का	पीस	1.08
61170106	वूल और मैन मेड फाइबर युक्त ब्लेंड की	पीस	1.08
61170199	अन्य	पीस	1.08
<b>611,702</b>	<b>अन्य</b>		
61170201	कपास का	कि.ग्रा.	1.08
61170202	कॉटन और मैन मेड फाइबर युक्त ब्लेंड की	कि.ग्रा.	1.08
61170203	मैन मेड फाइबर्स की	कि.ग्रा.	1.08
61170204	सिल्क की ( नोइल सिल्क युक्त अन्य )	कि.ग्रा.	1.08
61170205	ऊन का	कि.ग्रा.	1.08
61170206	वूल और मैन मेड फाइबर युक्त ब्लेंड की	कि.ग्रा.	1.08
61170299	अन्य	कि.ग्रा.	1.08
<b>अध्याय - 62</b>			
<b>अपैरल और क्लोदिंग एसेसरीज, गैर-निटेड अथवा क्रोचेटेड वस्त्र</b>			
<b>टैरिफ मद</b>	<b>वस्तुओं का विवरण</b>	<b>इकाई</b>	<b>एए- केंद्रीय दरें (% में)</b>

1	2	3	4
<b>6201</b>	<b>पुरुषों या लड़कों के ओवरकोट, कार-कोट, लहंगा, अनारक (स्की-जैकेट सहित), विंड-चीटर, विंड जैकेट और इसी तरह के अन्य वस्त्र 6203 शीर्ष में शामिल वस्त्रों के अलावा</b>		
620,101	कपास का	पीस	1.08
620,102	कॉटन और मैन मेड फाइबर युक्त ब्लेंड की	पीस	1.08
620,103	मैन मेड फाइबर्स की	पीस	1.08
620,104	सिल्क की ( नोइल सिल्क युक्त अन्य )	पीस	1.08
620,105	ऊन का	पीस	1.08
620,106	वूल और मैन मेड फाइबर युक्त ब्लेंड की	पीस	1.08
620,199	अन्य	पीस	1.08
<b>6202</b>	<b>महिलाओं या लड़कियों के ओवरकोट, कार-कोट, टोपी, लहंगा, अनारक (स्की-जैकेट सहित), विंड-शीटर, विंड-जैकेट और इसी तरह के अन्य वस्त्र, 6204 शीर्ष में शामिल वस्त्रों के अलावा</b>		
620,201	कपास का	पीस	1.08
620,202	कॉटन और मैन मेड फाइबर युक्त ब्लेंड की	पीस	1.08
620,203	मैन मेड फाइबर्स की	पीस	1.08
620,204	सिल्क की ( नोइल सिल्क युक्त अन्य )	पीस	1.08
620,205	ऊन का	पीस	1.08
620,206	वूल और मैन मेड फाइबर युक्त ब्लेंड की	पीस	1.08
620,299	अन्य	पीस	1.08
<b>6203</b>	<b>पुरुषों या लड़कों के सूट, ऍसेम्बल, जैकेट, ब्लेज़र, ट्राउज़र, बिब और ब्रेस ओवरऑल, ब्रीच और शॉर्ट्स (स्विमवियर के अलावा)</b>		
<b>620,301</b>	<b>सूट (कम से कम एक ट्राउज़र और एक जैकेट सहित संयुक्त ट्राउज़र का कंबीनेशन)</b>		
62030101	कपास का	पीस	1.08
62030102	कॉटन और मैन मेड फाइबर युक्त ब्लेंड की	पीस	1.08
62030103	मैन मेड फाइबर्स की	पीस	1.08
62030104	सिल्क की ( नोइल सिल्क युक्त अन्य )	पीस	1.08
62030105	ऊन का	पीस	1.08
62030106	वूल और मैन मेड फाइबर युक्त ब्लेंड की	पीस	1.08
62030199	अन्य	पीस	1.08
<b>620,302</b>	<b>जैकेट, ब्लेज़र</b>		
62030201	कपास का	पीस	1.08
62030202	कॉटन और मैन मेड फाइबर युक्त ब्लेंड की	पीस	1.08
62030203	मैन मेड फाइबर्स की	पीस	1.08
62030204	सिल्क की ( नोइल सिल्क युक्त अन्य )	पीस	1.08



62030205	ऊन का	पीस	1.08
62030206	वूल और मैन मेड फाइबर युक्त ब्लेंड की	पीस	1.08
62030207	स्पैन्डेक्स/ लाइक्रा / इलास्टेन के वजन से 1% या अधिक कपास की	पीस	1.08
62030299	अन्य	पीस	1.08
<b>620,303</b>	<b>ट्राउजर, फुल पैट</b>		
62030301	कपास का	पीस	1.08
62030302	कॉटन और मैन मेड फाइबर युक्त ब्लेंड की	पीस	1.08
62030303	मैन मेड फाइबर्स की	पीस	1.08
62030304	सिल्क की ( नोइल सिल्क युक्त अन्य )	पीस	1.08
62030305	ऊन का	पीस	1.08
62030306	वूल और मैन मेड फाइबर युक्त ब्लेंड की	पीस	1.08
62030307	स्पैन्डेक्स/ लाइक्रा / इलास्टेन के वजन से 1% या अधिक कपास की	पीस	1.08
62030399	अन्य	पीस	1.08
<b>620,304</b>	<b>अन्य ( कैप्री / तीन-चौथाई पैट और ऐंसेम्बल सहित)</b>		
62030401	कपास का	पीस	1.08
62030402	कॉटन और मैन मेड फाइबर युक्त ब्लेंड की	पीस	1.08
62030403	मैन मेड फाइबर्स की	पीस	1.08
62030404	सिल्क की ( नोइल सिल्क युक्त अन्य )	पीस	1.08
62030405	ऊन का	पीस	1.08
62030406	वूल और मैन मेड फाइबर युक्त ब्लेंड की	पीस	1.08
62030407	स्पैन्डेक्स/ लाइक्रा / इलास्टेन के वजन से 1% या अधिक कपास की	पीस	1.08
62030499	अन्य	पीस	1.08
<b>6204</b>	<b>महिलाओं या लड़कियों के सूट, ऐंसेम्बल, जैकेट, ब्लेज़र, कपड़े, स्कर्ट, विभाजित स्कर्ट, ट्राउजर, बिब और ब्रेस ओवरऑल, ब्रीच और शॉर्ट्स (स्विमवियर के अलावा)</b>		
<b>620,401</b>	<b>सूट (कम से कम एक ट्राउजर और एक जैकेट का कंबीनेशन)</b>		
62040101	कपास का	पीस	1.08
62040102	कॉटन और मैन मेड फाइबर युक्त ब्लेंड की	पीस	1.08
62040103	मैन मेड फाइबर्स की	पीस	1.08
62040104	सिल्क की ( नोइल सिल्क युक्त अन्य )	पीस	1.08
62040105	ऊन का	पीस	1.08
62040106	वूल और मैन मेड फाइबर युक्त ब्लेंड की	पीस	1.08
62040199	अन्य	पीस	1.08
<b>620,402</b>	<b>जैकेट, ब्लेज़र</b>		
62040201	कपास का	पीस	1.08
62040202	कॉटन और मैन मेड फाइबर युक्त ब्लेंड की	पीस	1.08
62040203	मैन मेड फाइबर्स की	पीस	1.08

62040204	सिल्क की ( नोइल सिल्क युक्त अन्य )	पीस	1.08
62040205	ऊन का	पीस	1.08
62040206	वूल और मैन मेड फाइबर युक्त ब्लेंड की	पीस	1.08
62040207	स्पैन्डेक्स/ लाइक्रा / इलास्टेन के वजन से 1% या अधिक कपास की	पीस	1.08
62040299	अन्य	पीस	1.08
<b>620,403</b>	<b>ट्रेस/फ्रॉक, स्कर्ट, विभाजित स्कर्ट, ट्राउजर, फुल पैंट</b>		
62040301	कपास का	पीस	1.08
62040302	कॉटन और मैन मेड फाइबर युक्त ब्लेंड की	पीस	1.08
62040303	मैन मेड फाइबर्स की	पीस	1.08
62040304	सिल्क की ( नोइल सिल्क युक्त अन्य )	पीस	1.08
62040305	ऊन का	पीस	1.08
62040306	वूल और मैन मेड फाइबर युक्त ब्लेंड की	पीस	1.08
62040307	स्पैन्डेक्स/ लाइक्रा / इलास्टेन के वजन से 1% या अधिक कपास की	पीस	1.08
62040399	अन्य	पीस	1.08
<b>620,404</b>	<b>अन्य ( कैप्री / तीन-चौथाई पैंट और एंसेम्बल सहित)</b>		
62040401	कपास का	पीस	1.08
62040402	कॉटन और मैन मेड फाइबर युक्त ब्लेंड की	पीस	1.08
62040403	मैन मेड फाइबर्स की	पीस	1.08
62040404	सिल्क की ( नोइल सिल्क युक्त अन्य )	पीस	1.08
62040405	ऊन का	पीस	1.08
62040406	वूल और मैन मेड फाइबर युक्त ब्लेंड की	पीस	1.08
62040407	स्पैन्डेक्स/ लाइक्रा / इलास्टेन के वजन से 1% या अधिक कपास की	पीस	1.08
62040499	अन्य	पीस	1.08
<b>6205</b>	<b>पुरुषों या लड़कों की शर्ट</b>		
620,501	कपास का	पीस	1.08
620,502	कॉटन और मैन मेड फाइबर युक्त ब्लेंड की	पीस	1.08
620,503	मैन मेड फाइबर्स की	पीस	1.08
620,504	सिल्क की ( नोइल सिल्क युक्त अन्य )	पीस	1.08
620,505	ऊन का	पीस	1.08
620,506	वूल और मैन मेड फाइबर युक्त ब्लेंड की	पीस	1.08
620,507	स्पैन्डेक्स/ लाइक्रा / इलास्टेन के वजन से 1% या अधिक कपास की	पीस	1.08
620,599	अन्य	पीस	1.08
<b>6206</b>	<b>महिलाओं या लड़कियों के ब्लाउज, शर्ट और शर्ट-ब्लाउज</b>		
620,601	कपास का	पीस	1.08
620,602	कॉटन और मैन मेड फाइबर युक्त ब्लेंड की	पीस	1.08
620,603	मैन मेड फाइबर्स की	पीस	1.08

620,604	सिल्क की ( नोइल सिल्क युक्त अन्य )	पीस	1.08
620,605	ऊन का	पीस	1.08
620,606	वूल और मैन मेड फाइबर युक्त ब्लेंड की	पीस	1.08
620,607	स्पैन्डेक्स/ लाइक्रा / इलास्टेन के वजन से 1% या अधिक कपास की	पीस	1.08
620,699	अन्य	पीस	1.08
<b>6207</b>	<b>पुरुषों या लड़कों के सिंग्लेट और अन्य वेस्ट, अन्डरपैन्ट, ब्रीफ, नाइटशर्ट, पजामा , बाथरोब, ड्रेसिंग गाउन और इसी तरह के वस्त्र</b>		
<b>620,701</b>	<b>ड्रेसिंग गाउन, बाथरोब, पजामा , नाइटशर्ट और इसी तरह के वस्त्र</b>		
62070101	कपास का	पीस	1.08
62070102	कॉटन और मैन मेड फाइबर युक्त ब्लेंड की	पीस	1.08
62070103	मैन मेड फाइबर्स की	पीस	1.08
62070104	सिल्क की ( नोइल सिल्क युक्त अन्य )	पीस	1.08
62070105	ऊन का	पीस	1.08
62070106	वूल और मैन मेड फाइबर युक्त ब्लेंड की	पीस	1.08
62070107	स्पैन्डेक्स/ लाइक्रा / इलास्टेन के वजन से 1% या अधिक कपास की	पीस	1.08
62070199	अन्य	पीस	1.08
<b>620,702</b>	<b>सिंग्लेट और अन्य वेस्ट, अन्डरपैन्ट, ब्रीफ और इसी तरह के वस्त्र</b>		
62070201	कपास का	पीस	1.08
62070202	कॉटन और मैन मेड फाइबर युक्त ब्लेंड की	पीस	1.08
62070203	मैन मेड फाइबर्स की	पीस	1.08
62070204	सिल्क की ( नोइल सिल्क युक्त अन्य )	पीस	1.08
62070205	ऊन का	पीस	1.08
62070206	वूल और मैन मेड फाइबर युक्त ब्लेंड की	पीस	1.08
62070207	स्पैन्डेक्स/ लाइक्रा / इलास्टेन के वजन से 1% या अधिक कपास की	पीस	1.08
62070299	अन्य	पीस	1.08
<b>6208</b>	<b>महिलाओं या लड़कियों के सिंग्लेट और अन्य वेस्ट, स्लिप, पेटीकोट, ब्रीफ, पेंटीज, रात के कपड़े, पायजामा , नेगलिग्स , बाथरोब, ड्रेसिंग गाउन और इसी तरह के वस्त्र</b>		
<b>620,801</b>	<b>ड्रेसिंग गाउन, बाथरोब, पजामा , नेगलिग्स , नाइट नाईट ( नाइटशर्ट सहित) और इसी तरह के वस्त्र</b>		
62080101	कपास का	पीस	1.08
62080102	कॉटन और मैन मेड फाइबर युक्त ब्लेंड की	पीस	1.08
62080103	मैन मेड फाइबर्स की	पीस	1.08
62080104	सिल्क की ( नोइल सिल्क युक्त अन्य )	पीस	1.08

62080105	ऊन का	पीस	1.08
62080106	वूल और मैन मेड फाइबर युक्त ब्लेंड की	पीस	1.08
62080107	स्पैन्डेक्स/ लाइक्रा / इलास्टेन के वजन से 1% या अधिक कपास की	पीस	1.08
62080199	अन्य	पीस	1.08
<b>620,802</b>	<b>सिंग्लेट और अन्य वेस्ट, स्लिप, पेटीकोट, ब्रीफ, पैंटी और इसी तरह के वस्त्र</b>		
62080201	कपास का	पीस	1.08
62080202	कॉटन और मैन मेड फाइबर युक्त ब्लेंड की	पीस	1.08
62080203	मैन मेड फाइबर्स की	पीस	1.08
62080204	सिल्क की ( नोइल सिल्क युक्त अन्य )	पीस	1.08
62080205	ऊन का	पीस	1.08
62080206	वूल और मैन मेड फाइबर युक्त ब्लेंड की	पीस	1.08
62080207	स्पैन्डेक्स/ लाइक्रा / इलास्टेन के वजन से 1% या अधिक कपास की	पीस	1.08
62080299	अन्य	पीस	1.08
<b>6209</b>	<b>शिशुओं के वस्त्र और वस्त्र सामग्री</b>		
620,901	कपास का	पीस	1.08
620,902	कॉटन और मैन मेड फाइबर युक्त ब्लेंड की	पीस	1.08
620,903	मैन मेड फाइबर्स की	पीस	1.08
620,904	सिल्क की ( नोइल सिल्क युक्त अन्य )	पीस	1.08
620,905	ऊन का	पीस	1.08
620,906	वूल और मैन मेड फाइबर युक्त ब्लेंड की	पीस	1.08
620,907	स्पैन्डेक्स/ लाइक्रा / इलास्टेन के वजन से 1% या अधिक कपास की	पीस	1.08
620,999	अन्य	पीस	1.08
<b>6210</b>	<b>शीर्ष 5602, 5603, 5903, 5906 या 5907 के परिधान और मेड-अप्स</b>		
621,001	कपास का	पीस	1.08
621,002	कॉटन और मैन मेड फाइबर युक्त ब्लेंड की	पीस	1.08
621,003	मैन मेड फाइबर्स की	पीस	1.08
621,004	सिल्क की ( नोइल सिल्क युक्त अन्य )	पीस	1.08
621,005	ऊन का	पीस	1.08
621,006	वूल और मैन मेड फाइबर युक्त ब्लेंड की	पीस	1.08
621,099	अन्य	पीस	1.08
<b>6211</b>	<b>ट्रैक सूट, स्की सूट और स्विमवियर; अन्य परिधान</b>		
<b>621,101</b>	<b>महिलाओं या लड़कियों के ब्लाउज, शर्ट और बॉटम टाइट करने वाले</b>		
62110101	कपास का	पीस	1.08
62110102	कॉटन और मैन मेड फाइबर युक्त ब्लेंड की	पीस	1.08
62110103	मैन मेड फाइबर्स की	पीस	1.08

62110104	सिल्क की ( नोइल सिल्क युक्त अन्य )	पीस	1.08
62110105	ऊन का	पीस	1.08
62110106	वूल और मैन मेड फाइबर युक्त ब्लेंड की	पीस	1.08
62110107	स्पैन्डेक्स/ लाइक्रा / इलास्टेन के वजन से 1% या अधिक कपास की	पीस	1.08
62110199	अन्य	पीस	1.08
<b>621,102</b>	<b>महिलाओं या लड़कियों के टॉप्स / कैमी</b>		
62110201	कपास का	पीस	1.08
62110202	कॉटन और मैन मेड फाइबर युक्त ब्लेंड की	पीस	1.08
62110203	मैन मेड फाइबर्स की	पीस	1.08
62110204	सिल्क की ( नोइल सिल्क युक्त अन्य )	पीस	1.08
62110205	ऊन का	पीस	1.08
62110206	वूल और मैन मेड फाइबर युक्त ब्लेंड की	पीस	1.08
62110207	स्पैन्डेक्स/ लाइक्रा / इलास्टेन के वजन से 1% या अधिक कपास की	पीस	1.08
62110299	अन्य	पीस	1.08
<b>621,103</b>	<b>6203 या 6204 शीर्षक के तहत कवर नहीं किए गए अन्य जैकेट</b>		
62110301	कपास का	पीस	1.08
62110302	कॉटन और मैन मेड फाइबर युक्त ब्लेंड की	पीस	1.08
62110303	मैन मेड फाइबर्स की	पीस	1.08
62110304	सिल्क की ( नोइल सिल्क युक्त अन्य )	पीस	1.08
62110305	ऊन का	पीस	1.08
62110306	वूल और मैन मेड फाइबर युक्त ब्लेंड की	पीस	1.08
62110399	अन्य	पीस	1.08
<b>621,104</b>	<b>सुरक्षात्मक औद्योगिक वस्त्र</b>		
62110401	कपास से बना समग्र औद्योगिक आवरण/ सुरक्षा कवच	पीस	1.08
62110402	कपास से बने अन्य सुरक्षात्मक औद्योगिक वस्त्र	पीस	1.08
62110403	अरामिड फाइबर अथवा मोडाक्रिलिक फाइबर से बने सुरक्षात्मक औद्योगिक वस्त्र ओवरऑल/कवर ऑल	पीस	1.08
62110404	अरामिड फाइबर से बने अन्य सुरक्षात्मक औद्योगिक वस्त्र	पीस	1.08
62110405	मोडाक्रिलिक फाइबर से बने सुरक्षात्मक औद्योगिक वस्त्र ओवर ऑल/कवर ऑल	पीस	1.08
62110406	मोडाक्रिलिक फाइबर से बने अन्य सुरक्षात्मक औद्योगिक वस्त्र	पीस	1.08
62110499	अन्य सुरक्षात्मक औद्योगिक वस्त्र	पीस	1.08
<b>621,105</b>	<b>कुर्ता और सलवार / सलवार सूट/ सलवार-कमीज / चूड़ीदार-कमीज , दुपट्टे के साथ या बिना</b>		
62110501	कपास का	पीस	1.08
62110502	कॉटन और मैन मेड फाइबर युक्त ब्लेंड की	पीस	1.08
62110503	मैन मेड फाइबर्स की	पीस	1.08

62110504	सिल्क की ( नोइल सिल्क युक्त अन्य )	पीस	1.08
62110505	ऊन का	पीस	1.08
62110506	वूल और मैन मेड फाइबर युक्त ब्लेंड की	पीस	1.08
62110599	अन्य	पीस	1.08
<b>621,106</b>	<b>अन्य</b>		
62110601	कपास का	पीस	1.08
62110602	कॉटन और मैन मेड फाइबर युक्त ब्लेंड की	पीस	1.08
62110603	मैन मेड फाइबर्स की	पीस	1.08
62110604	सिल्क की ( नोइल सिल्क युक्त अन्य )	पीस	1.08
62110605	ऊन का	पीस	1.08
62110606	वूल और मैन मेड फाइबर युक्त ब्लेंड की	पीस	1.08
62110699	अन्य	पीस	1.08
<b>6212</b>	<b>ब्रैसियर, गर्डल, कोर्सेट, ब्रेसिज़, सस्पेंडर्स, गार्टर और इसी तरह के वस्त्र और उसके कुछ हिस्सों, गैर-निटेड या क्रोचेटेड</b>		
621,201	कपास का	कि.ग्रा.	1.08
621,202	कॉटन और मैन मेड फाइबर युक्त ब्लेंड की	कि.ग्रा.	1.08
621,203	मैन मेड फाइबर्स की	कि.ग्रा.	1.08
621,204	सिल्क की ( नोइल सिल्क युक्त अन्य )	कि.ग्रा.	1.08
621,205	ऊन का	कि.ग्रा.	1.08
621,206	वूल और मैन मेड फाइबर युक्त ब्लेंड की	कि.ग्रा.	1.08
621,299	अन्य	कि.ग्रा.	1.08
<b>6213</b>	<b>रूमाल</b>		
621,301	कपास का	कि.ग्रा.	1.08
621,302	कॉटन और मैन मेड फाइबर युक्त ब्लेंड की	कि.ग्रा.	1.08
621,303	मैन मेड फाइबर्स की	कि.ग्रा.	1.08
621,304	सिल्क की ( नोइल सिल्क युक्त अन्य )	कि.ग्रा.	1.08
621,305	ऊन का	कि.ग्रा.	1.08
621,306	वूल और मैन मेड फाइबर युक्त ब्लेंड की	कि.ग्रा.	1.08
621,399	अन्य	कि.ग्रा.	1.08
<b>6214</b>	<b>शॉल, स्कार्फ, मफलर, मंटिलस, घूंघट और इसी प्रकार के वस्त्र</b>		
<b>621,401</b>	<b>शॉल, स्कार्फ, मफलर, स्टोल, मैन्टिलस और पर्दा</b>		
62140101	कपास का	पीस	1.08
62140102	कॉटन और मैन मेड फाइबर युक्त ब्लेंड की	पीस	1.08
62140103	मैन मेड फाइबर्स की	पीस	1.08
62140104	सिल्क की ( नोइल सिल्क युक्त अन्य )	पीस	1.08
62140105	ऊन का	पीस	1.08
62140106	वूल और मैन मेड फाइबर युक्त ब्लेंड की	पीस	1.08
62140199	अन्य	पीस	1.08

<b>621,402</b>	<b>अन्य</b>		
62140201	कपास का	कि.ग्रा.	1.08
62140202	कॉटन और मैन मेड फाइबर युक्त ब्लेंड की	कि.ग्रा.	1.08
62140203	मैन मेड फाइबर्स की	कि.ग्रा.	1.08
62140204	सिल्क की ( नोइल सिल्क युक्त अन्य )	कि.ग्रा.	1.08
62140205	ऊन का	कि.ग्रा.	1.08
62140206	वूल और मैन मेड फाइबर युक्त ब्लेंड की	कि.ग्रा.	1.08
62140299	अन्य	कि.ग्रा.	1.08
<b>6215</b>	<b>टाई, बोटाई और क्रावट</b>		
621501	कपास का	कि.ग्रा.	1.08
621502	कॉटन और मैन मेड फाइबर युक्त ब्लेंड की	कि.ग्रा.	1.08
621503	मैन मेड फाइबर्स की	कि.ग्रा.	1.08
621504	सिल्क की ( नोइल सिल्क युक्त अन्य )	कि.ग्रा.	1.08
621505	ऊन का	कि.ग्रा.	1.08
621,506	वूल और मैन मेड फाइबर युक्त ब्लेंड की	कि.ग्रा.	1.08
621,599	अन्य	कि.ग्रा.	1.08
<b>6216</b>	<b>दस्ताने, मिटेन और मिट</b>		
621,601	कपास का	कि.ग्रा.	1.08
621,602	कॉटन और मैन मेड फाइबर युक्त ब्लेंड की	कि.ग्रा.	1.08
621,603	मैन मेड फाइबर्स की	कि.ग्रा.	1.08
621,604	सिल्क की ( नोइल सिल्क युक्त अन्य )	कि.ग्रा.	1.08
621,605	ऊन का	कि.ग्रा.	1.08
621,606	वूल और मैन मेड फाइबर युक्त ब्लेंड की	कि.ग्रा.	1.08
621,607	दस्ताने, जो विशेष रूप से खेल में उपयोग के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, जैसे कि वस्त्र सामग्री से बने गोलफ के दस्ताने	पीस	1.08
621,699	अन्य	कि.ग्रा.	1.08
<b>6217</b>	<b>अन्य मेड-अप क्लोदिंग एसेसरीज; शीर्ष 6212 के अलावा, परिधानों अथवा क्लोदिंग एसेसरीज के भाग</b>		
621,701	कपास का	कि.ग्रा.	1.08
621,702	कॉटन और मैन मेड फाइबर युक्त ब्लेंड की	कि.ग्रा.	1.08
621,703	मैन मेड फाइबर्स की	कि.ग्रा.	1.08
621,704	सिल्क की ( नोइल सिल्क युक्त अन्य )	कि.ग्रा.	1.08
621,705	ऊन का	कि.ग्रा.	1.08
621,706	वूल और मैन मेड फाइबर युक्त ब्लेंड की	कि.ग्रा.	1.08
621,799	अन्य	कि.ग्रा.	1.08

## MINISTRY OF TEXTILES

## NOTIFICATION

New Delhi, the 8th March, 2019

**Scheme to Rebate State and Central Embedded Taxes and Levies to Support the Textile Sector**

**No.14/26/2016-IT (Vol.II)** - In pursuance of the decision of the Government of India to rebate all embedded State and Central Taxes and Levies on garments and made-ups to enhance competitiveness of these sectors, the Ministry of Textiles has notified the scheme for Rebate of State and Central Taxes and Levies (RoSCTL) on export of garments and made-ups through a scrip based system.

2. The rates of RoSCTL Scheme are hereby notified as Schedules 1, 2, 3 and 4 of this notification. The rates under this scheme will come into effect from 07.03.2019 i.e. the date of the Notification of scheme guidelines published vide notification No.14/26/2016-IT (Vol.II) dated 07.03.2019 and shall remain in force up to 31.03.2020. The Schedule 1 and 2 are the rates of State and Central taxes and levies respectively, for apparel and made-ups. Schedules 3 and 4 are the rates of State and Central taxes and levies respectively, applicable for apparel exports when the fabric (including interlining) only has been imported duty free under Special Advance Authorization Scheme.

3. This notification is in supersession of Ministry of Textiles notification No. 14/26/2016-IT dated 24.11.2017.

ADITI DAS ROUT, Trade Advisor

**Schedule 1: Rates of State taxes and levies**

<b>CHAPTER – 61</b>				
<b>ARTICLES OF APPAREL AND CLOTHING ACCESSORIES, KNITTED OR CROCHETED</b>				
<b>Tariff Item</b>	<b>Description of goods</b>	<b>Unit</b>	<b>Rates (in %)</b>	<b>Cap per unit in Rs.</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>6101</b>	<b>Men's or boys' overcoats, carcoats, capes, cloaks, anoraks (including ski-jackets), wind-cheaters, wind-jackets and similar articles, knitted or crocheted, other than those of heading 6103</b>			
610101	Of Cotton	Piece	3.60	68.2
610102	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Piece	3.13	36.2
610103	Of Man Made Fibres	Piece	2.65	31.1
610104	Of Silk (other than containing Noil silk)	Piece	2.65	59.3
610105	Of Wool	Piece	2.65	123.0
610106	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Piece	2.65	91.3
610199	Of Others	Piece	2.65	34.8
<b>6102</b>	<b>Women's or girls' overcoats, car-coats, capes, cloaks, anoraks (including ski-jackets), wind-cheaters, wind-jackets and similar articles, knitted or crocheted, other than those of heading 6104</b>			
610201	Of Cotton	Piece	2.90	55.0
610202	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Piece	2.78	32.1
610203	Of Man Made Fibres	Piece	2.65	31.1
610204	Of Silk (other than containing Noil silk)	Piece	2.65	59.3
610205	Of Wool	Piece	2.65	123.0
610206	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Piece	2.65	91.3
610299	Of Others	Piece	2.65	34.8
<b>6103</b>	<b>Men's or boys' suits, ensembles, jackets, blazers, trousers, bib and brace overalls, breeches and shorts (other than swim wear), knitted or crocheted</b>			
<b>610301</b>	<b>Suits (combination comprising of at least one trouser and one jacket)</b>			
61030101	Of Cotton	Piece	3.60	105.7
61030102	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Piece	3.13	64.2
61030103	Of Man Made Fibres	Piece	2.65	54.6
61030104	Of Silk (other than containing Noil silk)	Piece	2.65	97.6
61030105	Of Wool	Piece	2.65	188.8



61030106	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Piece	2.65	140.1
61030199	Of Others	Piece	2.65	59.2
<b>610302</b>	<b>Jackets, blazers</b>			
61030201	Of Cotton	Piece	3.60	68.2
61030202	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Piece	3.13	36.2
61030203	Of Man Made Fibres	Piece	2.65	31.1
61030204	Of Silk (other than containing Noil silk)	Piece	2.65	59.3
61030205	Of Wool	Piece	2.65	123.0
61030206	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Piece	2.65	91.3
61030207	Of Cotton containing 1% or more by weight of spandex/ lycra/elastane	Piece	3.60	68.0
61030299	Of Others	Piece	2.65	34.8
<b>610303</b>	<b>Trousers, full pants</b>			
61030301	Of Cotton	Piece	3.60	37.4
61030302	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Piece	3.13	28.0
61030303	Of Man Made Fibres	Piece	2.65	23.3
61030304	Of Silk (other than containing Noil silk)	Piece	2.65	38.4
61030305	Of Wool	Piece	2.65	65.8
61030306	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Piece	2.65	48.8
61030307	Of Cotton containing 1% or more by weight of spandex/ lycra/elastane	Piece	3.60	37.4
61030399	Of Others	Piece	2.65	24.4
<b>610304</b>	<b>Others (including capri/three-fourth pants and ensembles)</b>			
61030401	Of Cotton	Piece	2.90	17.7
61030402	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Piece	2.50	14.5
61030403	Of Man Made Fibres	Piece	2.10	12.1
61030404	Of Silk (other than containing Noil silk)	Piece	2.10	22.1
61030405	Of Wool	Piece	2.10	19.3
61030406	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Piece	2.10	19.3
61030407	Of Cotton containing 1% or more by weight of spandex/ lycra/elastane	Piece	2.90	18.1
61030499	Of Others	Piece	2.10	12.2
<b>6104</b>	<b>Women's or girls' suits, ensembles, jackets, blazers, dresses, skirts, divided skirts, trousers, bib and brace overalls, breeches and shorts (other than swim wear), knitted or crocheted</b>			
<b>610401</b>	<b>Suits (combination comprising of at least one trouser and one jacket)</b>			
61040101	Of Cotton	Piece	2.90	85.1
61040102	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Piece	2.78	57.0
61040103	Of Man Made Fibres	Piece	2.65	54.6
61040104	Of Silk (other than containing Noil silk)	Piece	2.65	97.6
61040105	Of Wool	Piece	2.65	188.8
61040106	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Piece	2.65	140.1
61040199	Of Others	Piece	2.65	59.2
<b>610402</b>	<b>Jackets, blazers</b>			
61040201	Of Cotton	Piece	2.90	55.0
61040202	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Piece	2.78	32.1
61040203	Of Man Made Fibres	Piece	2.65	31.1
61040204	Of Silk (other than containing Noil silk)	Piece	2.65	59.3
61040205	Of Wool	Piece	2.65	123.0
61040206	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Piece	2.65	91.3
61040207	Of Cotton containing 1% or more by weight of spandex/ lycra/elastane	Piece	2.90	54.8

61040299	Of Others	Piece	2.65	34.8
<b>610403</b>	<b>Dresses/frocks, skirts, divided skirts, trousers, full pants</b>			
61040301	Of Cotton	Piece	3.60	37.4
61040302	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Piece	3.13	28.0
61040303	Of Man Made Fibres	Piece	2.65	23.3
61040304	Of Silk (other than containing Noil silk)	Piece	2.65	38.4
61040305	Of Wool	Piece	2.65	65.8
61040306	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Piece	2.65	48.8
61040307	Of Cotton containing 1% or more by weight of spandex/ lycra/elastane	Piece	3.60	37.4
61040399	Of Others	Piece	2.65	24.4
<b>610404</b>	<b>Others (including capri/three-fourth pants and ensembles)</b>			
61040401	Of Cotton	Piece	2.90	17.7
61040402	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Piece	2.50	14.5
61040403	Of Man Made Fibres	Piece	2.10	12.1
61040404	Of Silk (other than containing Noil silk)	Piece	2.10	22.1
61040405	Of Wool	Piece	2.10	19.3
61040406	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Piece	2.10	19.3
61040407	Of Cotton containing 1% or more by weight of spandex/ lycra/elastane	Piece	2.90	18.1
61040499	Of Others	Piece	2.10	12.2
<b>6105</b>	<b>Men's or boys' shirts, knitted or crocheted</b>			
610501	Of Cotton	Piece	3.60	37.4
610502	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Piece	2.85	18.4
610503	Of Man Made Fibres	Piece	2.10	13.1
610504	Of Silk (other than containing Noil silk)	Piece	2.10	35.7
610505	Of Wool	Piece	2.10	14.5
610506	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Piece	2.10	14.5
610507	Of Cotton containing 1% or more by weight of spandex/lycra/ elastane	Piece	3.60	37.4
610599	Of Others	Piece	2.10	15.8
<b>6106</b>	<b>Women's or girls' blouses, shirts and shirt-blouses, knitted or crocheted</b>			
610601	Of Cotton	Piece	2.90	24.4
610602	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Piece	2.50	16.1
610603	Of Man Made Fibres	Piece	2.10	13.1
610604	Of Silk (other than containing Noil silk)	Piece	2.10	35.7
610605	Of Wool	Piece	2.10	14.5
610606	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Piece	2.10	14.5
610607	Of Cotton containing 1% or more by weight of spandex/lycra/ elastane	Piece	2.90	24.4
610699	Of Others	Piece	2.10	15.8
<b>6107</b>	<b>Men's or boys' underpants, briefs, nightshirts, pyjamas, bathrobes, dressing gowns and similar articles, knitted or crocheted</b>			
<b>610701</b>	<b>Nightshirts, pyjamas, bath robes and dressing gowns and similar articles</b>			
61070101	Of Cotton	Piece	3.60	21.1
61070102	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Piece	2.85	16.5
61070103	Of Man Made Fibres	Piece	2.10	12.9
61070104	Of Silk (other than containing Noil silk)	Piece	2.10	16.6
61070105	Of Wool	Piece	2.10	14.5
61070106	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Piece	2.10	14.5
61070107	Of Cotton containing 1% or more by weight of	Piece	3.60	21.2

	spandex/lycra/ elastane			
61070199	Of Others	Piece	2.10	12.2
<b>610702</b>	<b>Briefs, underpants and similar articles</b>			
61070201	Of Cotton	Piece	2.90	6.1
61070202	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Piece	2.50	4.5
61070203	Of Man Made Fibres	Piece	2.10	3.6
61070204	Of Silk (other than containing Noil silk)	Piece	2.10	11.9
61070205	Of Wool	Piece	2.10	4.1
61070206	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Piece	2.10	4.1
61070207	Of Cotton containing 1% or more by weight of spandex/lycra/ elastane	Piece	2.90	6.1
61070299	Of Others	Piece	2.10	4.2
<b>6108</b>	<b>Women's or girls' slips, petticoats, briefs, panties, night dresses, pyjamas, negligees, bathrobes, dressing gowns and similar articles, knitted or crocheted</b>			
<b>610801</b>	<b>Night dresses (including nightshirts), pyjamas, negligees bathrobes and dressing gowns and similar articles</b>			
61080101	Of Cotton	Piece	3.60	21.1
61080102	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Piece	2.85	16.5
61080103	Of Man Made Fibres	Piece	2.10	12.9
61080104	Of Silk (other than containing Noil silk)	Piece	2.10	16.6
61080105	Of Wool	Piece	2.10	14.5
61080106	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Piece	2.10	14.5
61080107	Of Cotton containing 1% or more by weight of spandex/lycra/ elastane	Piece	3.60	21.2
61080199	Of Others	Piece	2.10	12.2
<b>610802</b>	<b>Slips, petticoats, briefs, panties and similar articles</b>			
61080201	Of Cotton	Piece	2.90	6.1
61080202	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Piece	2.50	4.5
61080203	Of Man Made Fibres	Piece	2.10	3.6
61080204	Of Silk (other than containing Noil silk)	Piece	2.10	11.9
61080205	Of Wool	Piece	2.10	4.1
61080206	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Piece	2.10	4.1
61080207	Of Cotton containing 1% or more by weight of spandex/lycra/ elastane	Piece	2.90	6.1
61080299	Of Others	Piece	2.10	4.2
<b>6109</b>	<b>T-shirts, singlets and other vests, knitted or crocheted</b>			
610901	Of Cotton	Piece	2.90	13.8
610902	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Piece	2.10	9.8
610903	Of Man Made Fibres	Piece	2.10	10.1
610904	Of Silk (other than containing Noil silk)	Piece	2.10	22.1
610905	Of Wool	Piece	2.10	10.4
610906	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Piece	2.10	10.4
610907	Of Cotton containing 1% or more by weight of spandex/lycra/ elastane	Piece	2.90	14.5
610999	Of Others	Piece	2.10	9.1
<b>6110</b>	<b>Jerseys, pullovers, cardigans, waistcoats an similar articles, knitted or crocheted</b>			
611001	Of Cotton	Piece	3.60	40.7
611002	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Piece	2.85	25.5
611003	Of Man Made Fibres	Piece	2.10	19.3
611004	Of Silk (other than containing Noil silk)	Piece	2.10	30.4
611005	Of Wool	Piece	2.10	32.9

611006	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Piece	2.10	27.9
611007	Of Cotton containing 1% or more by weight of spandex/lycra/ elastane	Piece	3.60	42.8
611099	Of Others	Piece	2.10	19.3
<b>6111</b>	<b>Babies' garments and clothing accessories, knitted or crocheted</b>			
611101	Of Cotton	Piece	2.25	8.9
611102	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Piece	2.18	8.3
611103	Of Man Made Fibres	Piece	2.10	8.6
611104	Of Silk (other than containing Noil silk)	Piece	2.10	11.9
611105	Of Wool	Piece	2.10	9.7
611106	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Piece	2.10	9.7
611107	Of Cotton containing 1% or more by weight of spandex/lycra/ elastane	Piece	2.25	10.6
611199	Of Others	Piece	2.10	9.5
<b>6112</b>	<b>Track suits, ski suits and swimwear, knitted or crocheted</b>			
611201	Of Cotton	Piece	2.25	9.0
611202	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Piece	2.18	8.3
611203	Of Man Made Fibres	Piece	2.10	8.6
611204	Of Silk (other than containing Noil silk)	Piece	2.10	11.9
611205	Of Wool	Piece	2.10	9.7
611206	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Piece	2.10	9.7
611207	Of Cotton containing 1% or more by weight of spandex/lycra/ elastane	Piece	2.25	10.6
611299	Of Others	Piece	2.10	9.5
<b>6113</b>	<b>Garments, made up of knitted or crocheted fabrics of heading 5903, 5906 or 5907</b>			
611301	Of Cotton	Piece	2.90	13.8
611302	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Piece	2.50	11.7
611303	Of Man Made Fibres	Piece	2.10	10.1
611304	Of Silk (other than containing Noil silk)	Piece	2.10	13.0
611305	Of Wool	Piece	2.10	10.4
611306	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Piece	2.10	10.4
611399	Of Others	Piece	2.10	9.1
<b>6114</b>	<b>Other garments, knitted or crocheted</b>			
<b>611401</b>	<b>Women's or girls' blouses, shirts and shirt-blouses, knitted or crocheted with tightening at the bottom</b>			
61140101	Of Cotton	Piece	2.90	24.4
61140102	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Piece	2.50	16.1
61140103	Of Man Made Fibres	Piece	2.10	13.1
61140104	Of Silk (other than containing Noil silk)	Piece	2.10	35.7
61140105	Of Wool	Piece	2.10	14.5
61140106	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Piece	2.10	14.5
61140107	Of Cotton containing 1% or more by weight of spandex/lycra/ elastane	Piece	2.90	24.4
61140199	Of Others	Piece	2.10	15.8
<b>611402</b>	<b>Women's or girls' tops/cami</b>			
61140201	Of Cotton	Piece	2.90	24.4
61140202	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Piece	2.50	16.1
61140203	Of Man Made Fibres	Piece	2.10	13.1
61140204	Of Silk (other than containing Noil silk)	Piece	2.10	35.7
61140205	Of Wool	Piece	2.10	14.5
61140206	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Piece	2.10	14.5

61140207	Of Cotton containing 1% or more by weight of spandex/lycra/ elastane	Piece	2.90	24.4
61140299	Of Others	Piece	2.10	15.8
<b>611403</b>	<b>Other jackets not covered under heading 6103 or 6104</b>			
61140301	Of Cotton	Piece	2.90	55.0
61140302	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Piece	2.78	32.1
61140303	Of Man Made Fibres	Piece	2.65	31.1
61140304	Of Silk (other than containing Noil silk)	Piece	2.65	59.3
61140305	Of Wool	Piece	2.65	123.0
61140306	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Piece	2.65	91.3
61140399	Of Others	Piece	2.65	34.8
<b>611404</b>	<b>Kurta and Salwar/ Salwar suits/ salwar-kameez/ churidar-kameez, with or without dupatta</b>			
61140401	Of Cotton	Piece	3.60	56.2
61140402	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Piece	3.13	42.8
61140403	Of Man Made Fibres	Piece	2.65	37.5
61140404	Of Silk (other than containing Noil silk)	Piece	2.65	62.8
61140405	Of Wool	Piece	2.65	54.8
61140406	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Piece	2.65	54.9
61140499	Of Others	Piece	2.65	38.3
<b>611405</b>	<b>Others</b>			
61140501	Of Cotton	Piece	2.90	13.8
61140502	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Piece	2.50	11.7
61140503	Of Man Made Fibres	Piece	2.10	10.1
61140504	Of Silk (other than containing Noil silk)	Piece	2.10	13.0
61140505	Of Wool	Piece	2.10	10.4
61140506	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Piece	2.10	10.4
61140507	Protective industrial wear	Piece	2.10	25.1
61140599	Of Others	Piece	2.10	9.1
<b>6115</b>	<b>Panty hose, tights, stockings, socks and other hosiery, including graduated compression hosiery (for example, stockings for varicose veins) and footwear without applied soles, knitted or crocheted</b>			
<b>611501</b>	<b>Leggings</b>			
61150101	Of Cotton	Piece	3.60	22.0
61150102	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Piece	2.85	16.5
61150103	Of Man Made Fibres	Piece	2.10	12.1
61150104	Of Silk (other than containing Noil silk)	Piece	2.10	22.1
61150105	Of Wool	Piece	2.10	19.3
61150106	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Piece	2.10	19.3
61150107	Of Cotton containing 1% or more by weight of spandex/lycra/elastane	Piece	3.60	22.5
61150199	Of Others	Piece	2.10	12.2
<b>611502</b>	<b>Others</b>			
61150201	Of Cotton	Kg	2.90	53.4
61150202	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Kg	2.50	42.1
61150203	Of Man Made Fibres	Kg	2.10	38.6
61150204	Of Silk (other than containing Noil silk)	Kg	2.10	140.9
61150205	Of Wool	Kg	2.10	43.4
61150206	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Kg	2.10	43.5
61150207	Of Cotton containing 1% or more by weight of spandex/lycra/ elastane	Kg	2.90	58.0
61150299	Of Others	Kg	2.10	35.9
<b>6116</b>	<b>Gloves, mittens and mitts, knitted or crocheted</b>			

611601	Of Cotton	Kg	2.90	53.4
611602	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Kg	2.50	42.1
611603	Of Man Made Fibres	Kg	2.10	38.6
611604	Of Silk (other than containing Noil silk)	Kg	2.10	140.9
611605	Of Wool	Kg	2.10	43.4
611606	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Kg	2.10	43.5
611607	Gloves, specially designed for use in sports namely Golf Gloves made of textile materials	Piece	2.10	5.8
611699	Of Others	Kg	2.10	35.9
<b>6117</b>	<b>Other made up clothing accessories, knitted or crocheted; knitted or crocheted parts of garments or of clothing accessories</b>			
<b>611701</b>	<b>Shawls, scarves, mufflers, stoles, mantillas and veils</b>			
61170101	Of Cotton	Piece	2.90	12.9
61170102	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Piece	2.78	10.6
61170103	Of Man Made Fibres	Piece	2.65	10.8
61170104	Of Silk (other than containing Noil silk)	Piece	2.65	27.2
61170105	Of Wool	Piece	2.65	11.6
61170106	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Piece	2.65	11.6
61170199	Of Others	Piece	2.65	11.5
<b>611702</b>	<b>Others</b>			
61170201	Of Cotton	Kg	2.90	53.4
61170202	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Kg	2.50	42.1
61170203	Of Man Made Fibres	Kg	2.10	38.6
61170204	Of Silk (other than containing Noil silk)	Kg	2.10	140.9
61170205	Of Wool	Kg	2.10	43.4
61170206	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Kg	2.10	43.5
61170299	Of Others	Kg	2.10	35.9
<b>CHAPTER – 62</b>				
<b>ARTICLES OF APPAREL AND CLOTHING ACCESSORIES, NOT KNITTED OR CROCHETED</b>				
<b>Tariff Item</b>	<b>Description of goods</b>	<b>Unit</b>	<b>Rates (in %)</b>	<b>Cap per unit in Rs.</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>6201</b>	<b>Men's or boys' overcoats, car-coats, cloaks, anoraks (including ski-jackets), wind-cheaters, wind jackets and similar articles other than those of heading 6203</b>			
620101	Of Cotton	Piece	3.6	68.2
620102	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Piece	3.13	36.2
620103	Of Man Made Fibres	Piece	2.65	31.1
620104	Of Silk (other than containing Noil silk)	Piece	2.65	59.3
620105	Of Wool	Piece	2.65	123.0
620106	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Piece	2.65	91.3
620199	Of Others	Piece	2.65	34.8
<b>6202</b>	<b>Women's or girls' overcoats, car-coats, capes, cloaks, anoraks (including ski-jackets), wind-cheaters, wind-jackets and similar articles, other than those of heading 6204</b>			
620201	Of Cotton	Piece	2.90	55.0
620202	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Piece	2.78	32.1
620203	Of Man Made Fibres	Piece	2.65	31.1
620204	Of Silk (other than containing Noil silk)	Piece	2.65	59.3
620205	Of Wool	Piece	2.65	123.0
620206	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Piece	2.65	91.3

620299	Of Others	Piece	2.65	34.8
<b>6203</b>	<b>Men's or boys' suits, ensembles, jackets, blazers, trousers, bib and brace overalls, breeches and shorts (other than swimwear)</b>			
<b>620301</b>	<b>Suits (combination comprising of at least one trouser and one jacket)</b>			
62030101	Of Cotton	Piece	3.60	105.7
62030102	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Piece	3.13	64.2
62030103	Of Man Made Fibres	Piece	2.65	54.6
62030104	Of Silk (other than containing Noil silk)	Piece	2.65	97.6
62030105	Of Wool	Piece	2.65	188.8
62030106	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Piece	2.65	140.1
62030199	Of Others	Piece	2.65	59.2
<b>620302</b>	<b>Jackets, blazers</b>			
62030201	Of Cotton	Piece	3.60	68.2
62030202	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Piece	3.13	36.2
62030203	Of Man Made Fibres	Piece	2.65	31.1
62030204	Of Silk (other than containing Noil silk)	Piece	2.65	59.3
62030205	Of Wool	Piece	2.65	123.0
62030206	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Piece	2.65	91.3
62030207	Of Cotton containing 1% or more by weight of spandex/ lycra/elastane	Piece	3.60	68.0
62030299	Of Others	Piece	2.65	34.8
<b>620303</b>	<b>Trousers, full pants</b>			
62030301	Of Cotton	Piece	3.60	37.4
62030302	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Piece	3.13	28.0
62030303	Of Man Made Fibres	Piece	2.65	23.3
62030304	Of Silk (other than containing Noil silk)	Piece	2.65	38.4
62030305	Of Wool	Piece	2.65	65.8
62030306	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Piece	2.65	48.8
62030307	Of Cotton containing 1% or more by weight of spandex/ lycra/elastane	Piece	3.60	37.4
62030399	Of Others	Piece	2.65	24.4
<b>620304</b>	<b>Others (including capri/three-fourth pants and ensembles)</b>			
62030401	Of Cotton	Piece	2.90	17.7
62030402	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Piece	2.50	14.5
62030403	Of Man Made Fibres	Piece	2.10	12.1
62030404	Of Silk (other than containing Noil silk)	Piece	2.10	22.1
62030405	Of Wool	Piece	2.10	19.3
62030406	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Piece	2.10	19.3
62030407	Of Cotton containing 1% or more by weight of spandex/ lycra/elastane	Piece	2.90	18.1
62030499	Of Others	Piece	2.10	12.2
<b>6204</b>	<b>Women's or girls' suits, ensembles, jackets, blazers, dresses, skirts, divided skirts, trousers, bib and brace overalls, breeches and shorts (other than swimwear)</b>			
<b>620401</b>	<b>Suits (combination comprising of at least one trouser and one jacket)</b>			
62040101	Of Cotton	Piece	2.90	85.1
62040102	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Piece	2.78	57.0
62040103	Of Man Made Fibres	Piece	2.65	54.6
62040104	Of Silk (other than containing Noil silk)	Piece	2.65	97.6
62040105	Of Wool	Piece	2.65	188.8
62040106	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Piece	2.65	140.1
62040199	Of Others	Piece	2.65	59.2

<b>620402</b>	<b>Jackets, blazers</b>			
62040201	Of Cotton	Piece	2.90	55.0
62040202	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Piece	2.78	32.1
62040203	Of Man Made Fibres	Piece	2.65	31.1
62040204	Of Silk (other than containing Noil silk)	Piece	2.65	59.3
62040205	Of Wool	Piece	2.65	123.0
62040206	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Piece	2.65	91.3
62040207	Of Cotton containing 1% or more by weight of spandex/ lycra/elastane	Piece	2.90	54.8
62040299	Of Others	Piece	2.65	34.8
<b>620403</b>	<b>Dresses/frocks, skirts, divided skirts, trousers, full pants</b>			
62040301	Of Cotton	Piece	3.60	37.4
62040302	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Piece	3.13	28.0
62040303	Of Man Made Fibres	Piece	2.65	23.3
62040304	Of Silk (other than containing Noil silk)	Piece	2.65	38.4
62040305	Of Wool	Piece	2.65	65.8
62040306	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Piece	2.65	48.8
62040307	Of Cotton containing 1% or more by weight of spandex/ lycra/elastane	Piece	3.60	37.4
62040399	Of Others	Piece	2.65	24.4
<b>620404</b>	<b>Others (including capri/three-fourth pants and ensembles)</b>			
62040401	Of Cotton	Piece	2.90	17.7
62040402	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Piece	2.50	14.5
62040403	Of Man Made Fibres	Piece	2.10	12.1
62040404	Of Silk (other than containing Noil silk)	Piece	2.10	22.1
62040405	Of Wool	Piece	2.10	19.3
62040406	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Piece	2.10	19.3
62040407	Of Cotton containing 1% or more by weight of spandex/ lycra/elastane	Piece	2.90	18.1
62040499	Of Others	Piece	2.10	12.2
<b>6205</b>	<b>Men's or boys' shirts</b>			
620501	Of Cotton	Piece	3.60	37.4
620502	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Piece	2.85	18.4
620503	Of Man Made Fibres	Piece	2.10	13.1
620504	Of Silk (other than containing Noil silk)	Piece	2.10	35.7
620505	Of Wool	Piece	2.10	14.5
620506	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Piece	2.10	14.5
620507	Of Cotton containing 1% or more by weight of spandex/ lycra/elastane	Piece	3.60	37.4
620599	Of Others	Piece	2.10	15.8
<b>6206</b>	<b>Women's or girls' blouses, shirts and shirt-blouses</b>			
620601	Of Cotton	Piece	2.90	24.4
620602	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Piece	2.50	16.1
620603	Of Man Made Fibres	Piece	2.10	13.1
620604	Of Silk (other than containing Noil silk)	Piece	2.10	35.7
620605	Of Wool	Piece	2.10	14.5
620606	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Piece	2.10	14.5
620607	Of Cotton containing 1% or more by weight of spandex/ lycra/elastane	Piece	2.90	24.4
620699	Of Others	Piece	2.10	15.8
<b>6207</b>	<b>Men's or boys' singlets and other vests, underpants, briefs, nightshirts, pyjamas, bath-robos,</b>			



<b>dressing gowns and similar articles</b>				
<b>620701</b>	<b>Dressing gowns, bathrobes, pyjamas, nightshirts and similar articles</b>			
62070101	Of Cotton	Piece	3.60	21.1
62070102	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Piece	2.85	16.5
62070103	Of Man Made Fibres	Piece	2.10	12.9
62070104	Of Silk (other than containing Noil silk)	Piece	2.10	16.6
62070105	Of Wool	Piece	2.10	14.5
62070106	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Piece	2.10	14.5
62070107	Of Cotton containing 1% or more by weight of spandex/ lycra/elastane	Piece	3.60	21.2
62070199	Of Others	Piece	2.10	12.2
<b>620702</b>	<b>Singlets and other vests, underpants, briefs and similar articles</b>			
62070201	Of Cotton	Piece	2.90	6.1
62070202	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Piece	2.50	4.5
62070203	Of Man Made Fibres	Piece	2.10	3.6
62070204	Of Silk (other than containing Noil silk)	Piece	2.10	11.9
62070205	Of Wool	Piece	2.10	4.1
62070206	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Piece	2.10	4.1
62070207	Of Cotton containing 1% or more by weight of spandex/ lycra/elastane	Piece	2.90	6.1
62070299	Of Others	Piece	2.10	4.2
<b>6208</b>	<b>Women's or girls' singlets and other vests, slips, petticoats, briefs, panties, nightdresses, pyjamas, negliges, bathrobes, dressing gowns and similar articles</b>			
<b>620801</b>	<b>Dressing gowns, bathrobes, pyjamas, negliges, nightdresses (including nightshirts) and similar articles</b>			
62080101	Of Cotton	Piece	3.60	21.1
62080102	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Piece	2.85	16.5
62080103	Of Man Made Fibres	Piece	2.10	12.9
62080104	Of Silk (other than containing Noil silk)	Piece	2.10	16.6
62080105	Of Wool	Piece	2.10	14.5
62080106	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Piece	2.10	14.5
62080107	Of Cotton containing 1% or more by weight of spandex/ lycra/elastane	Piece	3.60	21.2
62080199	Of Others	Piece	2.10	12.2
<b>620802</b>	<b>Singlets and other vests, slips, petticoats, briefs, panties and similar articles</b>			
62080201	Of Cotton	Piece	2.90	6.1
62080202	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Piece	2.50	4.5
62080203	Of Man Made Fibres	Piece	2.10	3.6
62080204	Of Silk (other than containing Noil silk)	Piece	2.10	11.9
62080205	Of Wool	Piece	2.10	4.1
62080206	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Piece	2.10	4.1
62080207	Of Cotton containing 1% or more by weight of spandex/ lycra/elastane	Piece	2.90	6.1
62080299	Of Others	Piece	2.10	4.2
<b>6209</b>	<b>Babies' garments and clothing accessories</b>			
620901	Of Cotton	Piece	2.25	8.9
620902	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Piece	2.18	8.3
620903	Of Man Made Fibres	Piece	2.10	8.6
620904	Of Silk (other than containing Noil silk)	Piece	2.10	11.9
620905	Of Wool	Piece	2.10	9.7
620906	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Piece	2.10	9.7

620907	Of Cotton containing 1% or more by weight of spandex/ lycra/elastane	Piece	2.25	10.6
620999	Of Others	Piece	2.10	9.5
<b>6210</b>	<b>Garments, made up of fabrics of heading 5602, 5603, 5903, 5906 or 5907</b>			
621001	Of Cotton	Piece	2.90	13.8
621002	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Piece	2.50	11.7
621003	Of Man Made Fibres	Piece	2.10	10.1
621004	Of Silk (other than containing Noil silk)	Piece	2.10	13.0
621005	Of Wool	Piece	2.10	10.4
621006	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Piece	2.10	10.4
621099	Of Others	Piece	2.10	9.1
<b>6211</b>	<b>Track suits, ski suits and swimwear; other garments</b>			
<b>621101</b>	<b>Women's or girls' blouses, shirts and shirt-blouses, with tightening at the bottom</b>			
62110101	Of Cotton	Piece	2.90	24.4
62110102	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Piece	2.50	16.1
62110103	Of Man Made Fibres	Piece	2.10	13.1
62110104	Of Silk (other than containing Noil silk)	Piece	2.10	35.7
62110105	Of Wool	Piece	2.10	14.5
62110106	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Piece	2.10	14.5
62110107	Of Cotton containing 1% or more by weight of spandex/ lycra/elastane	Piece	2.90	24.4
62110199	Of Others	Piece	2.10	15.8
<b>621102</b>	<b>Women's or girls' tops/cami</b>			
62110201	Of Cotton	Piece	2.90	24.4
62110202	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Piece	2.50	16.1
62110203	Of Man Made Fibres	Piece	2.10	13.1
62110204	Of Silk (other than containing Noil silk)	Piece	2.10	35.7
62110205	Of Wool	Piece	2.10	14.5
62110206	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Piece	2.10	14.5
62110207	Of Cotton containing 1% or more by weight of spandex/ lycra/elastane	Piece	2.90	24.4
62110299	Of Others	Piece	2.10	15.8
<b>621103</b>	<b>Other jackets not covered under heading 6203 or 6204</b>			
62110301	Of Cotton	Piece	2.90	55.0
62110302	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Piece	2.78	32.1
62110303	Of Man Made Fibres	Piece	2.65	31.1
62110304	Of Silk (other than containing Noil silk)	Piece	2.65	59.3
62110305	Of Wool	Piece	2.65	123.0
62110306	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Piece	2.65	91.3
62110399	Of Others	Piece	2.65	34.8
<b>621104</b>	<b>Protective industrial wear</b>			
62110401	Protective industrial wear overall/coverall made of cotton	Piece	2.90	53.5
62110402	Other protective industrial wear made of cotton	Piece	2.90	34.7
62110403	Protective industrial wear overall/coverall made of Aramid fibre or Modacrylic fibre	Piece	2.10	71.7
62110404	Other protective industrial wear made of Aramid fibre	Piece	2.10	48.6
62110405	Protective industrial wear overall/coverall made of Modacrylic fibre	Piece	2.10	66.5
62110406	Other protective industrial wear made of Modacrylic fibre	Piece	2.10	44.4

62110499	Other protective industrial wear	Piece	2.10	25.1
<b>621105</b>	<b>Kurta and Salwar/ Salwar suits/ salwar-kameez/ churidar-kameez, with or without dupatta</b>			
62110501	Of Cotton	Piece	3.60	56.2
62110502	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Piece	3.13	42.8
62110503	Of Man Made Fibres	Piece	2.65	37.5
62110504	Of Silk (other than containing Noil silk)	Piece	2.65	62.8
62110505	Of Wool	Piece	2.65	54.8
62110506	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Piece	2.65	54.9
62110599	Of Others	Piece	2.65	38.3
<b>621106</b>	<b>Others</b>			
62110601	Of Cotton	Piece	2.90	13.8
62110602	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Piece	2.50	11.7
62110603	Of Man Made Fibres	Piece	2.10	10.1
62110604	Of Silk (other than containing Noil silk)	Piece	2.10	13.0
62110605	Of Wool	Piece	2.10	10.4
62110606	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Piece	2.10	10.4
62110699	Of Others	Piece	2.10	9.1
<b>6212</b>	<b>Brassieres, girdles, corsets, braces, suspenders, garters and similar articles and parts thereof, whether or not knitted or crocheted</b>			
621201	Of Cotton	Kg	2.90	53.4
621202	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Kg	2.50	42.1
621203	Of Man Made Fibres	Kg	2.10	38.6
621204	Of Silk (other than containing Noil silk)	Kg	2.10	140.9
621205	Of Wool	Kg	2.10	43.4
621206	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Kg	2.10	43.5
621299	Of Others	Kg	2.10	35.9
<b>6213</b>	<b>Handkerchiefs</b>			
621301	Of Cotton	Kg	2.90	53.4
621302	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Kg	2.50	42.1
621303	Of Man Made Fibres	Kg	2.10	38.6
621304	Of Silk (other than containing Noil silk)	Kg	2.10	140.9
621305	Of Wool	Kg	2.10	43.4
621306	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Kg	2.10	43.5
621399	Of Others	Kg	2.10	35.9
<b>6214</b>	<b>Shawls, scarves, mufflers, mantillas, veils and the like</b>			
<b>621401</b>	<b>Shawls, scarves, mufflers, stoles, mantillas and veils</b>			
62140101	Of Cotton	Piece	2.90	12.9
62140102	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Piece	2.78	10.6
62140103	Of Man Made Fibres	Piece	2.65	10.8
62140104	Of Silk (other than containing Noil silk)	Piece	2.65	27.2
62140105	Of Wool	Piece	2.65	11.6
62140106	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Piece	2.65	11.6
62140199	Of Others	Piece	2.65	11.5
<b>621402</b>	<b>Others</b>			
62140201	Of Cotton	Kg	2.90	53.4
62140202	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Kg	2.50	42.1
62140203	Of Man Made Fibres	Kg	2.10	38.6
62140204	Of Silk (other than containing Noil silk)	Kg	2.10	140.9
62140205	Of Wool	Kg	2.10	43.4
62140206	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Kg	2.10	43.5

62140299	Of Others	Kg	2.10	35.9
<b>6215</b>	<b>Ties, bow ties and cravats</b>			
621501	Of Cotton	Kg	2.90	53.4
621502	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Kg	2.50	42.1
621503	Of Man Made Fibres	Kg	2.10	38.6
621504	Of Silk (other than containing Noil silk)	Kg	2.10	140.9
621505	Of Wool	Kg	2.10	43.4
621506	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Kg	2.10	43.5
621599	Of Others	Kg	2.10	35.9
<b>6216</b>	<b>Gloves, mittens and mitts</b>			
621601	Of Cotton	Kg	2.90	53.4
621602	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Kg	2.50	42.1
621603	Of Man Made Fibres	Kg	2.10	38.6
621604	Of Silk (other than containing Noil silk)	Kg	2.10	140.9
621605	Of Wool	Kg	2.10	43.4
621606	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Kg	2.10	43.5
621607	Gloves, specially designed for use in sports namely Golf Gloves made of textile materials	Piece	2.10	5.8
621699	Of Others	Kg	2.10	35.9
<b>6217</b>	<b>Other made up clothing accessories; parts of garments or of clothing accessories, other than those of heading 6212</b>			
621701	Of Cotton	Kg	2.90	53.4
621702	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Kg	2.50	42.1
621703	Of Man Made Fibres	Kg	2.10	38.6
621704	Of Silk (other than containing Noil silk)	Kg	2.10	140.9
621705	Of Wool	Kg	2.10	43.4
621706	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Kg	2.10	43.5
621799	Of Others	Kg	2.10	35.9
<b>CHAPTER – 63</b>				
<b>OTHER MADE UP TEXTILES ARTICLES; SETS;</b>				
<b>WORN CLOTHING AND WORN TEXTILE ARTICLES; RAGS</b>				
<b>Tariff Item</b>	<b>Description of goods</b>	<b>Unit</b>	<b>Rates (in %)</b>	<b>Cap per unit in Rs.</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>6301</b>	<b>Blankets and traveling rugs</b>			
630101	Of Cotton	Kg	5.00	40.8
630102	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Kg	4.00	31.1
630103	Of Man Made Fibres	Kg	3.00	22.4
630199	Of others, including of wool	Kg	3.00	28.2
<b>6302</b>	<b>Bed linen, table linen, toilet linen and kitchen linen</b>			
630201	Of Cotton	Kg	5.00	50.0
630202	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Kg	4.40	45.0
630203	Of Man Made Fibres	Kg	3.80	49.2
630204	Of Silk (other than containing Noil silk)	Kg	3.80	202.7
630299	Of Others	Kg	3.80	36.5
<b>6303</b>	<b>Curtains (including drapes) and interior blinds; curtain or bed valances</b>			
630301	Of Cotton	Kg	5.00	50.0
630302	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Kg	4.00	40.9

630303	Of Man Made Fibres	Kg	3.00	38.9
630304	Of Silk (other than containing Noil silk)	Kg	3.00	160.0
630399	Of Others	Kg	3.00	28.8
<b>6304</b>	<b>Other furnishing articles, excluding those of heading 9404</b>			
630401	Of Cotton	Kg	5.00	50.0
630402	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Kg	4.40	45.0
630403	Of Man Made Fibres	Kg	3.80	49.2
630404	Of Silk (other than containing Noil silk)	Kg	3.80	202.7
630499	Of Others	Kg	3.80	36.5
<b>6305</b>	<b>Sacks and bags, of a kind used for the packing of goods</b>			
630501	Flexible Intermediate Bulk Containers (FIBC)	Kg	Nil	
630502	Sacks and bags made of jute including hessian bags, sacking bags, jute soil savers etc	Kg	1.87	
630599	Others	Kg	1.87	
<b>6306</b>	<b>Tarpaulins, awnings and sunblinds; tents; sails for boats, sailboards or landcraft; camping goods</b>			
<b>6307</b>	<b>Other made up articles, including dress patterns</b>			
<b>630701</b>	<b>Fabric Swatches</b>			
63070101	Of Cotton	Kg	Nil	
63070102	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Kg	Nil	
63070103	Of Man Made Fibres	Kg	Nil	
63070199	Of Others	Kg	Nil	
<b>630702</b>	<b>Others (excluding fabric swatches)</b>			
63070201	Of Cotton	Kg	5.00	50.0
63070202	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Kg	4.00	40.9
63070203	Of Man Made Fibres	Kg	3.00	38.9
63070204	Of Silk (other than containing Noil silk)	Kg	3.00	160.0
63070299	Of Others	Kg	3.00	28.8

**Schedule 2: Rates of embedded Central levies**

<b>CHAPTER - 61</b>				
<b>ARTICLES OF APPAREL AND CLOTHING ACCESSORIES, KNITTED OR CROCHETED</b>				
<b>Tariff Item</b>	<b>Description of goods</b>	<b>Unit</b>	<b>Rates (in %)</b>	<b>Cap per unit in Rs.</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>6101</b>	<b>Men's or boys' overcoats, carcoats, capes, cloaks, anoraks (including ski-jackets), wind-cheaters, wind-jackets and similar articles, knitted or crocheted, other than those of heading 6103</b>			
610101	Of Cotton	Piece	2.45	46.4
610102	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Piece	2.28	26.4
610103	Of Man Made Fibres	Piece	2.10	24.6
610104	Of Silk (other than containing Noil silk)	Piece	2.10	47.0
610105	Of Wool	Piece	2.10	97.5
610106	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Piece	2.10	72.4
610199	Of Others	Piece	2.10	27.6
<b>6102</b>	<b>Women's or girls' overcoats, car-coats, capes, cloaks, anoraks (including ski-jackets), wind-cheaters, wind-jackets and similar articles, knitted or crocheted, other than those of heading 6104</b>			
610201	Of Cotton	Piece	2.00	
610202	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Piece	2.05	23.7

610203	Of Man Made Fibres	Piece	2.10	24.6
610204	Of Silk (other than containing Noil silk)	Piece	2.10	47.0
610205	Of Wool	Piece	2.10	97.5
610206	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Piece	2.10	72.4
610299	Of Others	Piece	2.10	27.6
<b>6103</b>	<b>Men's or boys' suits, ensembles, jackets, blazers, trousers, bib and brace overalls, breeches and shorts (other than swim wear), knitted or crocheted</b>			
<b>610301</b>	<b>Suits (combination comprising of at least one trouser and one jacket)</b>			
61030101	Of Cotton	Piece	2.45	71.9
61030102	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Piece	2.28	46.8
61030103	Of Man Made Fibres	Piece	2.10	43.3
61030104	Of Silk (other than containing Noil silk)	Piece	2.10	77.4
61030105	Of Wool	Piece	2.10	149.6
61030106	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Piece	2.10	111.0
61030199	Of Others	Piece	2.10	46.9
<b>610302</b>	<b>Jackets, blazers</b>			
61030201	Of Cotton	Piece	2.45	46.4
61030202	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Piece	2.28	26.4
61030203	Of Man Made Fibres	Piece	2.10	24.6
61030204	Of Silk (other than containing Noil silk)	Piece	2.10	47.0
61030205	Of Wool	Piece	2.10	97.5
61030206	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Piece	2.10	72.4
61030207	Of Cotton containing 1% or more by weight of spandex/ lycra/elastane	Piece	2.45	46.3
61030299	Of Others	Piece	2.10	27.6
<b>610303</b>	<b>Trousers, full pants</b>			
61030301	Of Cotton	Piece	2.45	25.5
61030302	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Piece	2.28	20.4
61030303	Of Man Made Fibres	Piece	2.10	18.5
61030304	Of Silk (other than containing Noil silk)	Piece	2.10	30.4
61030305	Of Wool	Piece	2.10	52.1
61030306	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Piece	2.10	38.6
61030307	Of Cotton containing 1% or more by weight of spandex/ lycra/elastane	Piece	2.45	25.5
61030399	Of Others	Piece	2.10	19.3
<b>610304</b>	<b>Others (including capri/three-fourth pants and ensembles)</b>			
61030401	Of Cotton	Piece	2.00	
61030402	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Piece	1.85	
61030403	Of Man Made Fibres	Piece	1.70	
61030404	Of Silk (other than containing Noil silk)	Piece	1.70	
61030405	Of Wool	Piece	1.70	
61030406	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Piece	1.70	
61030407	Of Cotton containing 1% or more by weight of spandex/ lycra/elastane	Piece	2.00	
61030499	Of Others	Piece	1.70	
<b>6104</b>	<b>Women's or girls' suits, ensembles, jackets, blazers, dresses, skirts, divided skirts, trousers, bib and brace overalls, breeches and shorts (other than swim wear), knitted or crocheted</b>			
<b>610401</b>	<b>Suits (combination comprising of at least one trouser and one jacket)</b>			
61040101	Of Cotton	Piece	2.00	
61040102	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Piece	2.05	42.1
61040103	Of Man Made Fibres	Piece	2.10	43.3
61040104	Of Silk (other than containing Noil silk)	Piece	2.10	77.4
61040105	Of Wool	Piece	2.10	149.6
61040106	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Piece	2.10	111.0

61040199	Of Others	Piece	2.10	46.9
<b>610402</b>	<b>Jackets, blazers</b>			
61040201	Of Cotton	Piece	2.00	
61040202	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Piece	2.05	23.7
61040203	Of Man Made Fibres	Piece	2.10	24.6
61040204	Of Silk (other than containing Noil silk)	Piece	2.10	47.0
61040205	Of Wool	Piece	2.10	97.5
61040206	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Piece	2.10	72.4
61040207	Of Cotton containing 1% or more by weight of spandex/ lycra/elastane	Piece	2.00	
61040299	Of Others	Piece	2.10	27.6
<b>610403</b>	<b>Dresses/frocks, skirts, divided skirts, trousers, full pants</b>			
61040301	Of Cotton	Piece	2.45	25.5
61040302	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Piece	2.28	20.4
61040303	Of Man Made Fibres	Piece	2.10	18.5
61040304	Of Silk (other than containing Noil silk)	Piece	2.10	30.4
61040305	Of Wool	Piece	2.10	52.1
61040306	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Piece	2.10	38.6
61040307	Of Cotton containing 1% or more by weight of spandex/ lycra/elastane	Piece	2.45	25.5
61040399	Of Others	Piece	2.10	19.3
<b>610404</b>	<b>Others (including capri/three-fourth pants and ensembles)</b>			
61040401	Of Cotton	Piece	2.00	
61040402	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Piece	1.85	
61040403	Of Man Made Fibres	Piece	1.70	
61040404	Of Silk (other than containing Noil silk)	Piece	1.70	
61040405	Of Wool	Piece	1.70	
61040406	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Piece	1.70	
61040407	Of Cotton containing 1% or more by weight of spandex/ lycra/elastane	Piece	2.00	
61040499	Of Others	Piece	1.70	
<b>6105</b>	<b>Men's or boys' shirts, knitted or crocheted</b>			
610501	Of Cotton	Piece	2.45	25.5
610502	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Piece	2.08	13.4
610503	Of Man Made Fibres	Piece	1.70	
610504	Of Silk (other than containing Noil silk)	Piece	1.70	
610505	Of Wool	Piece	1.70	
610506	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Piece	1.70	
610507	Of Cotton containing 1% or more by weight of spandex/lycra/ elastane	Piece	2.45	25.5
610599	Of Others	Piece	1.70	
<b>6106</b>	<b>Women's or girls' blouses, shirts and shirt-blouses, knitted or crocheted</b>			
610601	Of Cotton	Piece	2.00	
610602	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Piece	1.85	
610603	Of Man Made Fibres	Piece	1.70	
610604	Of Silk (other than containing Noil silk)	Piece	1.70	
610605	Of Wool	Piece	1.70	
610606	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Piece	1.70	
610607	Of Cotton containing 1% or more by weight of spandex/lycra/ elastane	Piece	2.00	
610699	Of Others	Piece	1.70	
<b>6107</b>	<b>Men's or boys' underpants, briefs, nightshirts, pyjamas, bathrobes, dressing gowns and similar articles, knitted or crocheted</b>			

<b>610701</b>	<b>Nightshirts, pyjamas, bath robes and dressing gowns and similar articles</b>			
61070101	Of Cotton	Piece	2.45	14.3
61070102	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Piece	2.08	12.1
61070103	Of Man Made Fibres	Piece	1.70	
61070104	Of Silk (other than containing Noil silk)	Piece	1.70	
61070105	Of Wool	Piece	1.70	
61070106	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Piece	1.70	
61070107	Of Cotton containing 1% or more by weight of spandex/lycra/ elastane	Piece	2.45	14.5
61070199	Of Others	Piece	1.70	
<b>610702</b>	<b>Briefs, underpants and similar articles</b>			
61070201	Of Cotton	Piece	2.00	
61070202	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Piece	1.85	
61070203	Of Man Made Fibres	Piece	1.70	
61070204	Of Silk (other than containing Noil silk)	Piece	1.70	
61070205	Of Wool	Piece	1.70	
61070206	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Piece	1.70	
61070207	Of Cotton containing 1% or more by weight of spandex/lycra/ elastane	Piece	2.00	
61070299	Of Others	Piece	1.70	
<b>6108</b>	<b>Women's or girls' slips, petticoats, briefs, panties, night dresses, pyjamas, negligees, bathrobes, dressing gowns and similar articles, knitted or crocheted</b>			
<b>610801</b>	<b>Night dresses (including nightshirts), pyjamas, negligees bathrobes and dressing gowns and similar articles</b>			
61080101	Of Cotton	Piece	2.45	14.3
61080102	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Piece	2.08	12.1
61080103	Of Man Made Fibres	Piece	1.70	
61080104	Of Silk (other than containing Noil silk)	Piece	1.70	
61080105	Of Wool	Piece	1.70	
61080106	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Piece	1.70	
61080107	Of Cotton containing 1% or more by weight of spandex/lycra/ elastane	Piece	2.45	14.5
61080199	Of Others	Piece	1.70	
<b>610802</b>	<b>Slips, petticoats, briefs, panties and similar articles</b>			
61080201	Of Cotton	Piece	2.00	
61080202	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Piece	1.85	
61080203	Of Man Made Fibres	Piece	1.70	
61080204	Of Silk (other than containing Noil silk)	Piece	1.70	
61080205	Of Wool	Piece	1.70	
61080206	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Piece	1.70	
61080207	Of Cotton containing 1% or more by weight of spandex/lycra/ elastane	Piece	2.00	
61080299	Of Others	Piece	1.70	
<b>6109</b>	<b>T-shirts, singlets and other vests, knitted or crocheted</b>			
610901	Of Cotton	Piece	2.00	
610902	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Piece	1.70	
610903	Of Man Made Fibres	Piece	1.70	
610904	Of Silk (other than containing Noil silk)	Piece	1.70	
610905	Of Wool	Piece	1.70	
610906	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Piece	1.70	
610907	Of Cotton containing 1% or more by weight of spandex/lycra/ elastane	Piece	2.00	
610999	Of Others	Piece	1.70	
<b>6110</b>	<b>Jerseys, pullovers, cardigans, waistcoats an similar articles, knitted or crocheted</b>			



611001	Of Cotton	Piece	2.45	27.7
611002	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Piece	2.08	18.6
611003	Of Man Made Fibres	Piece	1.70	
611004	Of Silk (other than containing Noil silk)	Piece	1.70	
611005	Of Wool	Piece	1.70	
611006	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Piece	1.70	
611007	Of Cotton containing 1% or more by weight of spandex/lycra/ elastane	Piece	2.45	29.2
611099	Of Others	Piece	1.70	
<b>6111</b>	<b>Babies' garments and clothing accessories, knitted or crocheted</b>			
611101	Of Cotton	Piece	1.64	
611102	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Piece	1.67	
611103	Of Man Made Fibres	Piece	1.70	
611104	Of Silk (other than containing Noil silk)	Piece	1.70	
611105	Of Wool	Piece	1.70	
611106	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Piece	1.70	
611107	Of Cotton containing 1% or more by weight of spandex/lycra/ elastane	Piece	1.64	
611199	Of Others	Piece	1.70	
<b>6112</b>	<b>Track suits, ski suits and swimwear, knitted or crocheted</b>			
611201	Of Cotton	Piece	1.64	
611202	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Piece	1.67	
611203	Of Man Made Fibres	Piece	1.70	
611204	Of Silk (other than containing Noil silk)	Piece	1.70	
611205	Of Wool	Piece	1.70	
611206	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Piece	1.70	
611207	Of Cotton containing 1% or more by weight of spandex/lycra/ elastane	Piece	1.64	
611299	Of Others	Piece	1.70	
<b>6113</b>	<b>Garments, made up of knitted or crocheted fabrics of heading 5903, 5906 or 5907</b>			
611301	Of Cotton	Piece	2.00	
611302	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Piece	1.85	
611303	Of Man Made Fibres	Piece	1.70	
611304	Of Silk (other than containing Noil silk)	Piece	1.70	
611305	Of Wool	Piece	1.70	
611306	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Piece	1.70	
611399	Of Others	Piece	1.70	
<b>6114</b>	<b>Other garments, knitted or crocheted</b>			
<b>611401</b>	<b>Women's or girls' blouses, shirts and shirt-blouses, knitted or crocheted with tightening at the bottom</b>			
61140101	Of Cotton	Piece	2.00	
61140102	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Piece	1.85	
61140103	Of Man Made Fibres	Piece	1.70	
61140104	Of Silk (other than containing Noil silk)	Piece	1.70	
61140105	Of Wool	Piece	1.70	
61140106	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Piece	1.70	
61140107	Of Cotton containing 1% or more by weight of spandex/lycra/ elastane	Piece	2.00	
61140199	Of Others	Piece	1.70	
<b>611402</b>	<b>Women's or girls' tops/cami</b>			
61140201	Of Cotton	Piece	2.00	
61140202	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Piece	1.85	

61140203	Of Man Made Fibres	Piece	1.70	
61140204	Of Silk (other than containing Noil silk)	Piece	1.70	
61140205	Of Wool	Piece	1.70	
61140206	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Piece	1.70	
61140207	Of Cotton containing 1% or more by weight of spandex/lycra/ elastane	Piece	2.00	
61140299	Of Others	Piece	1.70	
<b>611403</b>	<b>Other jackets not covered under heading 6103 or 6104</b>			
61140301	Of Cotton	Piece	2.00	
61140302	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Piece	2.05	23.7
61140303	Of Man Made Fibres	Piece	2.10	24.6
61140304	Of Silk (other than containing Noil silk)	Piece	2.10	47.0
61140305	Of Wool	Piece	2.10	97.5
61140306	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Piece	2.10	72.4
61140399	Of Others	Piece	2.10	27.6
<b>611404</b>	<b>Kurta and Salwar/ Salwar suits/ salwar-kameez/ churidar-kameez, with or without dupatta</b>			
61140401	Of Cotton	Piece	2.45	38.2
61140402	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Piece	2.28	31.2
61140403	Of Man Made Fibres	Piece	2.10	29.7
61140404	Of Silk (other than containing Noil silk)	Piece	2.10	49.7
61140405	Of Wool	Piece	2.10	43.4
61140406	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Piece	2.10	43.5
61140499	Of Others	Piece	2.10	30.3
<b>611405</b>	<b>Others</b>			
61140501	Of Cotton	Piece	2.00	
61140502	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Piece	1.85	
61140503	Of Man Made Fibres	Piece	1.70	
61140504	Of Silk (other than containing Noil silk)	Piece	1.70	
61140505	Of Wool	Piece	1.70	
61140506	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Piece	1.70	
61140507	Protective industrial wear	Piece	1.70	
61140599	Of Others	Piece	1.70	
<b>6115</b>	<b>Panty hose, tights, stockings, socks and other hosiery, including graduated compre-ssion hosiery (for example, stockings for varicose veins) and footwear without applied soles, knitted or crocheted</b>			
<b>611501</b>	<b>Leggings</b>			
61150101	Of Cotton	Piece	2.45	14.9
61150102	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Piece	2.08	12.1
61150103	Of Man Made Fibres	Piece	1.70	
61150104	Of Silk (other than containing Noil silk)	Piece	1.70	
61150105	Of Wool	Piece	1.70	
61150106	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Piece	1.70	
61150107	Of Cotton containing 1% or more by weight of spandex/lycra/elastane	Piece	2.45	15.3
61150199	Of Others	Piece	1.70	
<b>611502</b>	<b>Others</b>			
61150201	Of Cotton	Kg	2.00	
61150202	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Kg	1.85	
61150203	Of Man Made Fibres	Kg	1.70	
61150204	Of Silk (other than containing Noil silk)	Kg	1.70	
61150205	Of Wool	Kg	1.70	
61150206	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Kg	1.70	
61150207	Of Cotton containing 1% or more by weight of spandex/lycra/ elastane	Kg	2.00	

61150299	Of Others	Kg	1.70	
<b>6116</b>	<b>Gloves, mittens and mitts, knitted or crocheted</b>			
611601	Of Cotton	Kg	2.00	
611602	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Kg	1.85	
611603	Of Man Made Fibres	Kg	1.70	
611604	Of Silk (other than containing Noil silk)	Kg	1.70	
611605	Of Wool	Kg	1.70	
611606	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Kg	1.70	
611607	Gloves, specially designed for use in sports namely Golf Gloves made of textile materials	Piece	1.70	
611699	Of Others	Kg	1.70	
<b>6117</b>	<b>Other made up clothing accessories, knitted or crocheted; knitted or crocheted parts of garments or of clothing accessories</b>			
<b>611701</b>	<b>Shawls, scarves, mufflers, stoles, mantillas and veils</b>			
61170101	Of Cotton	Piece	2.00	
61170102	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Piece	2.05	7.8
61170103	Of Man Made Fibres	Piece	2.10	8.6
61170104	Of Silk (other than containing Noil silk)	Piece	2.10	21.6
61170105	Of Wool	Piece	2.10	9.2
61170106	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Piece	2.10	9.2
61170199	Of Others	Piece	2.10	9.1
<b>611702</b>	<b>Others</b>			
61170201	Of Cotton	Kg	2.00	
61170202	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Kg	1.85	
61170203	Of Man Made Fibres	Kg	1.70	
61170204	Of Silk (other than containing Noil silk)	Kg	1.70	
61170205	Of Wool	Kg	1.70	
61170206	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Kg	1.70	
61170299	Of Others	Kg	1.70	
<b>CHAPTER – 62</b>				
<b>ARTICLES OF APPAREL AND CLOTHING ACCESSORIES, NOT KNITTED OR CROCHETED</b>				
<b>Tariff Item</b>	<b>Description of goods</b>	<b>Unit</b>	<b>Rates (in %)</b>	<b>Cap per unit in Rs.</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>6201</b>	<b>Men's or boys' overcoats, car-coats, cloaks, anoraks (including ski-jackets), wind-cheaters, wind jackets and similar articles other than those of heading 6203</b>			
620101	Of Cotton	Piece	2.45	46.4
620102	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Piece	2.28	26.4
620103	Of Man Made Fibres	Piece	2.10	24.6
620104	Of Silk (other than containing Noil silk)	Piece	2.10	47.0
620105	Of Wool	Piece	2.10	97.5
620106	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Piece	2.10	72.4
620199	Of Others	Piece	2.10	27.6
<b>6202</b>	<b>Women's or girls' overcoats, car-coats, capes, cloaks, anoraks (including ski-jackets), wind-cheaters, wind-jackets and similar articles, other than those of heading 6204</b>			
620201	Of Cotton	Piece	2.00	
620202	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Piece	2.05	23.7
620203	Of Man Made Fibres	Piece	2.10	24.6
620204	Of Silk (other than containing Noil silk)	Piece	2.10	47.0
620205	Of Wool	Piece	2.10	97.5
620206	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Piece	2.10	72.4
620299	Of Others	Piece	2.10	27.6
<b>6203</b>	<b>Men's or boys' suits, ensembles, jackets, blazers, trousers, bib and brace overalls, breeches and</b>			

<b>shorts (other than swimwear)</b>				
<b>620301</b>	<b>Suits (combination comprising of at least one trouser and one jacket)</b>			
62030101	Of Cotton	Piece	2.45	71.9
62030102	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Piece	2.28	46.8
62030103	Of Man Made Fibres	Piece	2.10	43.3
62030104	Of Silk (other than containing Noil silk)	Piece	2.10	77.4
62030105	Of Wool	Piece	2.10	149.6
62030106	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Piece	2.10	111.0
62030199	Of Others	Piece	2.10	46.9
<b>620302</b>	<b>Jackets, blazers</b>			
62030201	Of Cotton	Piece	2.45	46.4
62030202	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Piece	2.28	26.4
62030203	Of Man Made Fibres	Piece	2.10	24.6
62030204	Of Silk (other than containing Noil silk)	Piece	2.10	47.0
62030205	Of Wool	Piece	2.10	97.5
62030206	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Piece	2.10	72.4
62030207	Of Cotton containing 1% or more by weight of spandex/ lycra/elastane	Piece	2.45	46.3
62030299	Of Others	Piece	2.10	27.6
<b>620303</b>	<b>Trousers, full pants</b>			
62030301	Of Cotton	Piece	2.45	25.5
62030302	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Piece	2.28	20.4
62030303	Of Man Made Fibres	Piece	2.10	18.5
62030304	Of Silk (other than containing Noil silk)	Piece	2.10	30.4
62030305	Of Wool	Piece	2.10	52.1
62030306	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Piece	2.10	38.6
62030307	Of Cotton containing 1% or more by weight of spandex/ lycra/elastane	Piece	2.45	25.5
62030399	Of Others	Piece	2.10	19.3
<b>620304</b>	<b>Others (including capri/three-fourth pants and ensembles)</b>			
62030401	Of Cotton	Piece	2.00	
62030402	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Piece	1.85	
62030403	Of Man Made Fibres	Piece	1.70	
62030404	Of Silk (other than containing Noil silk)	Piece	1.70	
62030405	Of Wool	Piece	1.70	
62030406	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Piece	1.70	
62030407	Of Cotton containing 1% or more by weight of spandex/ lycra/elastane	Piece	2.00	
62030499	Of Others	Piece	1.70	
<b>6204</b>	<b>Women's or girls' suits, ensembles, jackets, blazers, dresses, skirts, divided skirts, trousers, bib and brace overalls, breeches and shorts (other than swimwear)</b>			
<b>620401</b>	<b>Suits (combination comprising of at least one trouser and one jacket)</b>			
62040101	Of Cotton	Piece	2.00	
62040102	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Piece	2.05	42.1
62040103	Of Man Made Fibres	Piece	2.10	43.3
62040104	Of Silk (other than containing Noil silk)	Piece	2.10	77.4
62040105	Of Wool	Piece	2.10	149.6
62040106	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Piece	2.10	111.0
62040199	Of Others	Piece	2.10	46.9
<b>620402</b>	<b>Jackets, blazers</b>			
62040201	Of Cotton	Piece	2.00	
62040202	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Piece	2.05	23.7
62040203	Of Man Made Fibres	Piece	2.10	24.6
62040204	Of Silk (other than containing Noil silk)	Piece	2.10	47.0
62040205	Of Wool	Piece	2.10	97.5
62040206	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Piece	2.10	72.4
62040207	Of Cotton containing 1% or more by weight of spandex/ lycra/elastane	Piece	2.00	

62040299	Of Others	Piece	2.10	27.6
<b>620403</b>	<b>Dresses/frocks, skirts, divided skirts, trousers, full pants</b>			
62040301	Of Cotton	Piece	2.45	25.5
62040302	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Piece	2.28	20.4
62040303	Of Man Made Fibres	Piece	2.10	18.5
62040304	Of Silk (other than containing Noil silk)	Piece	2.10	30.4
62040305	Of Wool	Piece	2.10	52.1
62040306	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Piece	2.10	38.6
62040307	Of Cotton containing 1% or more by weight of spandex/ lycra/elastane	Piece	2.45	25.5
62040399	Of Others	Piece	2.10	19.3
<b>620404</b>	<b>Others (including capri/three-fourth pants and ensembles)</b>			
62040401	Of Cotton	Piece	2.00	
62040402	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Piece	1.85	
62040403	Of Man Made Fibres	Piece	1.70	
62040404	Of Silk (other than containing Noil silk)	Piece	1.70	
62040405	Of Wool	Piece	1.70	
62040406	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Piece	1.70	
62040407	Of Cotton containing 1% or more by weight of spandex/ lycra/elastane	Piece	2.00	
62040499	Of Others	Piece	1.70	
<b>6205</b>	<b>Men's or boys' shirts</b>			
620501	Of Cotton	Piece	2.45	25.5
620502	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Piece	2.08	13.4
620503	Of Man Made Fibres	Piece	1.70	
620504	Of Silk (other than containing Noil silk)	Piece	1.70	
620505	Of Wool	Piece	1.70	
620506	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Piece	1.70	
620507	Of Cotton containing 1% or more by weight of spandex/ lycra/elastane	Piece	2.45	25.5
620599	Of Others	Piece	1.70	
<b>6206</b>	<b>Women's or girls' blouses, shirts and shirt-blouses</b>			
620601	Of Cotton	Piece	2.00	
620602	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Piece	1.85	
620603	Of Man Made Fibres	Piece	1.70	
620604	Of Silk (other than containing Noil silk)	Piece	1.70	
620605	Of Wool	Piece	1.70	
620606	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Piece	1.70	
620607	Of Cotton containing 1% or more by weight of spandex/ lycra/elastane	Piece	2.00	
620699	Of Others	Piece	1.70	
<b>6207</b>	<b>Men's or boys' singlets and other vests, underpants, briefs, nightshirts, pyjamas, bath-robos, dressing gowns and similar articles</b>			
<b>620701</b>	<b>Dressing gowns, bathrobes, pyjamas, nightshirts and similar articles</b>			
62070101	Of Cotton	Piece	2.45	14.3
62070102	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Piece	2.08	12.1
62070103	Of Man Made Fibres	Piece	1.70	
62070104	Of Silk (other than containing Noil silk)	Piece	1.70	
62070105	Of Wool	Piece	1.70	
62070106	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Piece	1.70	
62070107	Of Cotton containing 1% or more by weight of spandex/ lycra/elastane	Piece	2.45	14.5
62070199	Of Others	Piece	1.70	
<b>620702</b>	<b>Singlets and other vests, underpants, briefs and similar articles</b>			
62070201	Of Cotton	Piece	2.00	
62070202	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Piece	1.85	
62070203	Of Man Made Fibres	Piece	1.70	
62070204	Of Silk (other than containing Noil silk)	Piece	1.70	

62070205	Of Wool	Piece	1.70	
62070206	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Piece	1.70	
62070207	Of Cotton containing 1% or more by weight of spandex/ lycra/elastane	Piece	2.00	
62070299	Of Others	Piece	1.70	
<b>6208</b>	<b>Women's or girls' singlets and other vests, slips, petticoats, briefs, panties, nightdresses, pyjamas, negliges, bathrobes, dressing gowns and similar articles</b>			
<b>620801</b>	<b>Dressing gowns, bathrobes, pyjamas, negliges, nightdresses (including nightshirts) and similar articles</b>			
62080101	Of Cotton	Piece	2.45	14.3
62080102	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Piece	2.08	12.1
62080103	Of Man Made Fibres	Piece	1.70	
62080104	Of Silk (other than containing Noil silk)	Piece	1.70	
62080105	Of Wool	Piece	1.70	
62080106	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Piece	1.70	
62080107	Of Cotton containing 1% or more by weight of spandex/ lycra/elastane	Piece	2.45	14.5
62080199	Of Others	Piece	1.70	
<b>620802</b>	<b>Singlets and other vests, slips, petticoats, briefs, panties and similar articles</b>			
62080201	Of Cotton	Piece	2.00	
62080202	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Piece	1.85	
62080203	Of Man Made Fibres	Piece	1.70	
62080204	Of Silk (other than containing Noil silk)	Piece	1.70	
62080205	Of Wool	Piece	1.70	
62080206	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Piece	1.70	
62080207	Of Cotton containing 1% or more by weight of spandex/ lycra/elastane	Piece	2.00	
62080299	Of Others	Piece	1.70	
<b>6209</b>	<b>Babies' garments and clothing accessories</b>			
620901	Of Cotton	Piece	1.64	
620902	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Piece	1.67	
620903	Of Man Made Fibres	Piece	1.70	
620904	Of Silk (other than containing Noil silk)	Piece	1.70	
620905	Of Wool	Piece	1.70	
620906	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Piece	1.70	
620907	Of Cotton containing 1% or more by weight of spandex/ lycra/elastane	Piece	1.64	
620999	Of Others	Piece	1.70	
<b>6210</b>	<b>Garments, made up of fabrics of heading 5602, 5603, 5903, 5906 or 5907</b>			
621001	Of Cotton	Piece	2.00	
621002	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Piece	1.85	
621003	Of Man Made Fibres	Piece	1.70	
621004	Of Silk (other than containing Noil silk)	Piece	1.70	
621005	Of Wool	Piece	1.70	
621006	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Piece	1.70	
621099	Of Others	Piece	1.70	
<b>6211</b>	<b>Track suits, ski suits and swimwear; other garments</b>			
<b>621101</b>	<b>Women's or girls' blouses, shirts and shirt-blouses, with tightening at the bottom</b>			
62110101	Of Cotton	Piece	2.00	
62110102	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Piece	1.85	
62110103	Of Man Made Fibres	Piece	1.70	
62110104	Of Silk (other than containing Noil silk)	Piece	1.70	
62110105	Of Wool	Piece	1.70	
62110106	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Piece	1.70	
62110107	Of Cotton containing 1% or more by weight of spandex/ lycra/elastane	Piece	2.00	
62110199	Of Others	Piece	1.70	
<b>621102</b>	<b>Women's or girls' tops/cami</b>			

62110201	Of Cotton	Piece	2.00	
62110202	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Piece	1.85	
62110203	Of Man Made Fibres	Piece	1.70	
62110204	Of Silk (other than containing Noil silk)	Piece	1.70	
62110205	Of Wool	Piece	1.70	
62110206	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Piece	1.70	
62110207	Of Cotton containing 1% or more by weight of spandex/ lycra/elastane	Piece	2.00	
62110299	Of Others	Piece	1.70	
<b>621103</b>	<b>Other jackets not covered under heading 6203 or 6204</b>			
62110301	Of Cotton	Piece	2.00	
62110302	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Piece	2.05	23.7
62110303	Of Man Made Fibres	Piece	2.10	24.6
62110304	Of Silk (other than containing Noil silk)	Piece	2.10	47.0
62110305	Of Wool	Piece	2.10	97.5
62110306	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Piece	2.10	72.4
62110399	Of Others	Piece	2.10	27.6
<b>621104</b>	<b>Protective industrial wear</b>			
62110401	Protective industrial wear overall/coverall made of cotton	Piece	2.00	
62110402	Other protective industrial wear made of cotton	Piece	2.00	
62110403	Protective industrial wear overall/coverall made of Aramid fibre or Modacrylic fibre	Piece	1.70	
62110404	Other protective industrial wear made of Aramid fibre	Piece	1.70	
62110405	Protective industrial wear overall/coverall made of Modacrylic fibre	Piece	1.70	
62110406	Other protective industrial wear made of Modacrylic fibre	Piece	1.70	
62110499	Other protective industrial wear	Piece	1.70	
<b>621105</b>	<b>Kurta and Salwar/ Salwar suits/ salwar-kameez/ churidar-kameez, with or without dupatta</b>			
62110501	Of Cotton	Piece	2.45	38.2
62110502	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Piece	2.28	31.2
62110503	Of Man Made Fibres	Piece	2.10	29.7
62110504	Of Silk (other than containing Noil silk)	Piece	2.10	49.7
62110505	Of Wool	Piece	2.10	43.4
62110506	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Piece	2.10	43.5
62110599	Of Others	Piece	2.10	30.3
<b>621106</b>	<b>Others</b>			
62110601	Of Cotton	Piece	2.00	
62110602	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Piece	1.85	
62110603	Of Man Made Fibres	Piece	1.70	
62110604	Of Silk (other than containing Noil silk)	Piece	1.70	
62110605	Of Wool	Piece	1.70	
62110606	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Piece	1.70	
62110699	Of Others	Piece	1.70	
<b>6212</b>	<b>Brassieres, girdles, corsets, braces, suspenders, garters and similar articles and parts thereof, whether or not knitted or crocheted</b>			
621201	Of Cotton	Kg	2.00	
621202	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Kg	1.85	
621203	Of Man Made Fibres	Kg	1.70	
621204	Of Silk (other than containing Noil silk)	Kg	1.70	
621205	Of Wool	Kg	1.70	
621206	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Kg	1.70	
621299	Of Others	Kg	1.70	
<b>6213</b>	<b>Handkerchiefs</b>			
621301	Of Cotton	Kg	2.00	
621302	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Kg	1.85	

621303	Of Man Made Fibres	Kg	1.70	
621304	Of Silk (other than containing Noil silk)	Kg	1.70	
621305	Of Wool	Kg	1.70	
621306	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Kg	1.70	
621399	Of Others	Kg	1.70	
<b>6214</b>	<b>Shawls, scarves, mufflers, mantillas, veils and the like</b>			
<b>621401</b>	<b>Shawls, scarves, mufflers, stoles, mantillas and veils</b>			
62140101	Of Cotton	Piece	2.00	
62140102	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Piece	2.05	7.8
62140103	Of Man Made Fibres	Piece	2.10	8.6
62140104	Of Silk (other than containing Noil silk)	Piece	2.10	21.6
62140105	Of Wool	Piece	2.10	9.2
62140106	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Piece	2.10	9.2
62140199	Of Others	Piece	2.10	9.1
<b>621402</b>	<b>Others</b>			
62140201	Of Cotton	Kg	2.00	
62140202	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Kg	1.85	31.2
62140203	Of Man Made Fibres	Kg	1.70	
62140204	Of Silk (other than containing Noil silk)	Kg	1.70	
62140205	Of Wool	Kg	1.70	
62140206	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Kg	1.70	
62140299	Of Others	Kg	1.70	
<b>6215</b>	<b>Ties, bow ties and cravats</b>			
621501	Of Cotton	Kg	2.00	
621502	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Kg	1.85	
621503	Of Man Made Fibres	Kg	1.70	
621504	Of Silk (other than containing Noil silk)	Kg	1.70	
621505	Of Wool	Kg	1.70	
621506	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Kg	1.70	
621599	Of Others	Kg	1.70	
<b>6216</b>	<b>Gloves, mittens and mitts</b>			
621601	Of Cotton	Kg	2.00	
621602	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Kg	1.85	
621603	Of Man Made Fibres	Kg	1.70	
621604	Of Silk (other than containing Noil silk)	Kg	1.70	
621605	Of Wool	Kg	1.70	
621606	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Kg	1.70	
621607	Gloves, specially designed for use in sports namely Golf Gloves made of textile materials	Piece	1.70	
621699	Of Others	Kg	1.70	
<b>6217</b>	<b>Other made up clothing accessories; parts of garments or of clothing accessories, other than those of heading 6212</b>			
621701	Of Cotton	Kg	2.00	
621702	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Kg	1.85	
621703	Of Man Made Fibres	Kg	1.70	
621704	Of Silk (other than containing Noil silk)	Kg	1.70	
621705	Of Wool	Kg	1.70	
621706	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Kg	1.70	
621799	Of Others	Kg	1.70	
<b>CHAPTER – 63</b>				
<b>OTHER MADE UP TEXTILES ARTICLES; SETS;</b>				
<b>WORN CLOTHING AND WORN TEXTILE ARTICLES; RAGS</b>				
<b>Tariff Item</b>	<b>Description of goods</b>	<b>Unit</b>	<b>Rates (in %)</b>	<b>Cap per unit in Rs.</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>6301</b>	<b>Blankets and traveling rugs</b>			



630101	Of Cotton	Kg	3.20	26.1
630102	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Kg	2.75	21.4
630103	Of Man Made Fibres	Kg	2.30	17.2
630199	Of others, including of wool	Kg	2.30	21.6
<b>6302</b>	<b>Bed linen, table linen, toilet linen and kitchen linen</b>			
630201	Of Cotton	Kg	3.20	32.0
630202	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Kg	3.03	31.0
630203	Of Man Made Fibres	Kg	2.85	36.9
630204	Of Silk (other than containing Noil silk)	Kg	2.85	152.0
630299	Of Others	Kg	2.85	27.4
<b>6303</b>	<b>Curtains (including drapes) and interior blinds; curtain or bed valances</b>			
630301	Of Cotton	Kg	3.20	32.0
630302	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Kg	2.75	28.1
630303	Of Man Made Fibres	Kg	2.30	29.8
630304	Of Silk (other than containing Noil silk)	Kg	2.30	122.7
630399	Of Others	Kg	2.30	22.1
<b>6304</b>	<b>Other furnishing articles, excluding those of heading 9404</b>			
630401	Of Cotton	Kg	3.20	32.0
630402	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Kg	3.03	31.0
630403	Of Man Made Fibres	Kg	2.85	36.9
630404	Of Silk (other than containing Noil silk)	Kg	2.85	152.0
630499	Of Others	Kg	2.85	27.4
<b>6305</b>	<b>Sacks and bags, of a kind used for the packing of goods</b>			
630501	Flexible Intermediate Bulk Containers (FIBC)	Kg	Nil	
630502	Sacks and bags made of jute including hessian bags, sacking bags, jute soil savers etc	Kg	1.44	
630599	Others	Kg	1.44	
<b>6306</b>	<b>Tarpaulins, awnings and sunblinds; tents; sails for boats, sailboards or landcraft; camping goods</b>	Kg	1.44	
<b>6307</b>	<b>Other made up articles, including dress patterns</b>			
<b>630701</b>	<b>Fabric Swatches</b>			
63070101	Of Cotton	Kg	Nil	
63070102	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Kg	Nil	
63070103	Of Man Made Fibres	Kg	Nil	
63070199	Of Others	Kg	Nil	
<b>630702</b>	<b>Others (excluding fabric swatches)</b>			
63070201	Of Cotton	Kg	3.20	32.0
63070202	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Kg	2.75	28.1
63070203	Of Man Made Fibres	Kg	2.30	29.8
63070204	Of Silk (other than containing Noil silk)	Kg	2.30	122.7
63070299	Of Others	Kg	2.30	22.1

**Schedule 3: Rates of AA- State taxes and levies**

<b>CHAPTER – 61</b>			
<b>ARTICLES OF APPAREL AND CLOTHING ACCESSORIES, KNITTED OR CROCHETED</b>			
<b>Tariff Item</b>	<b>Description of goods</b>	<b>Unit</b>	<b>AA-State rates (in %)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>6101</b>	<b>Men's or boys' overcoats, carcoats, capes, cloaks, anoraks (including ski-jackets), wind-cheaters, wind-jackets and similar articles, knitted or crocheted, other than those of heading 6103</b>		
610101	Of Cotton	Piece	1.37
610102	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Piece	1.37
610103	Of Man Made Fibres	Piece	1.37
610104	Of Silk (other than containing Noil silk)	Piece	1.37

610105	Of Wool	Piece	1.37
610106	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Piece	1.37
610199	Of Others	Piece	1.37
<b>6102</b>	<b>Women's or girls' overcoats, car-coats, capes, cloaks, anoraks (including ski-jackets), wind-cheaters, wind-jackets and similar articles, knitted or crocheted, other than those of heading 6104</b>		
610201	Of Cotton	Piece	1.37
610202	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Piece	1.37
610203	Of Man Made Fibres	Piece	1.37
610204	Of Silk (other than containing Noil silk)	Piece	1.37
610205	Of Wool	Piece	1.37
610206	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Piece	1.37
610299	Of Others	Piece	1.37
<b>6103</b>	<b>Men's or boys' suits, ensembles, jackets, blazers, trousers, bib and brace overalls, breeches and shorts (other than swim wear), knitted or crocheted</b>		
<b>610301</b>	<b>Suits (combination comprising of at least one trouser and one jacket)</b>		
61030101	Of Cotton	Piece	1.37
61030102	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Piece	1.37
61030103	Of Man Made Fibres	Piece	1.37
61030104	Of Silk (other than containing Noil silk)	Piece	1.37
61030105	Of Wool	Piece	1.37
61030106	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Piece	1.37
61030199	Of Others	Piece	1.37
<b>610302</b>	<b>Jackets, blazers</b>		
61030201	Of Cotton	Piece	1.37
61030202	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Piece	1.37
61030203	Of Man Made Fibres	Piece	1.37
61030204	Of Silk (other than containing Noil silk)	Piece	1.37
61030205	Of Wool	Piece	1.37
61030206	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Piece	1.37
61030207	Of Cotton containing 1% or more by weight of spandex/lycra/elastane	Piece	1.37
61030299	Of Others	Piece	1.37
<b>610303</b>	<b>Trousers, full pants</b>		
61030301	Of Cotton	Piece	1.37
61030302	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Piece	1.37
61030303	Of Man Made Fibres	Piece	1.37
61030304	Of Silk (other than containing Noil silk)	Piece	1.37
61030305	Of Wool	Piece	1.37
61030306	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Piece	1.37
61030307	Of Cotton containing 1% or more by weight of spandex/lycra/elastane	Piece	1.37
61030399	Of Others	Piece	1.37
<b>610304</b>	<b>Others (including capri/three-fourth pants and ensembles)</b>		
61030401	Of Cotton	Piece	1.37
61030402	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Piece	1.37
61030403	Of Man Made Fibres	Piece	1.37
61030404	Of Silk (other than containing Noil silk)	Piece	1.37
61030405	Of Wool	Piece	1.37
61030406	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Piece	1.37
61030407	Of Cotton containing 1% or more by weight of spandex/lycra/elastane	Piece	1.37
61030499	Of Others	Piece	1.37
<b>6104</b>	<b>Women's or girls' suits, ensembles, jackets, blazers, dresses, skirts, divided skirts, trousers, bib and brace overalls, breeches and shorts (other than swim wear), knitted or crocheted</b>		
<b>610401</b>	<b>Suits (combination comprising of at least one trouser and one jacket)</b>		
61040101	Of Cotton	Piece	1.37
61040102	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Piece	1.37
61040103	Of Man Made Fibres	Piece	1.37

61040104	Of Silk (other than containing Noil silk)	Piece	1.37
61040105	Of Wool	Piece	1.37
61040106	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Piece	1.37
61040199	Of Others	Piece	1.37
<b>610402</b>	<b>Jackets, blazers</b>		
61040201	Of Cotton	Piece	1.37
61040202	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Piece	1.37
61040203	Of Man Made Fibres	Piece	1.37
61040204	Of Silk (other than containing Noil silk)	Piece	1.37
61040205	Of Wool	Piece	1.37
61040206	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Piece	1.37
61040207	Of Cotton containing 1% or more by weight of spandex/ lycra/elastane	Piece	1.37
61040299	Of Others	Piece	1.37
<b>610403</b>	<b>Dresses/frocks, skirts, divided skirts, trousers, full pants</b>		
61040301	Of Cotton	Piece	1.37
61040302	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Piece	1.37
61040303	Of Man Made Fibres	Piece	1.37
61040304	Of Silk (other than containing Noil silk)	Piece	1.37
61040305	Of Wool	Piece	1.37
61040306	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Piece	1.37
61040307	Of Cotton containing 1% or more by weight of spandex/ lycra/elastane	Piece	1.37
61040399	Of Others	Piece	1.37
<b>610404</b>	<b>Others (including capri/three-fourth pants and ensembles)</b>		
61040401	Of Cotton	Piece	1.37
61040402	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Piece	1.37
61040403	Of Man Made Fibres	Piece	1.37
61040404	Of Silk (other than containing Noil silk)	Piece	1.37
61040405	Of Wool	Piece	1.37
61040406	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Piece	1.37
61040407	Of Cotton containing 1% or more by weight of spandex/ lycra/elastane	Piece	1.37
61040499	Of Others	Piece	1.37
<b>6105</b>	<b>Men's or boys' shirts, knitted or crocheted</b>		
610501	Of Cotton	Piece	1.37
610502	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Piece	1.37
610503	Of Man Made Fibres	Piece	1.37
610504	Of Silk (other than containing Noil silk)	Piece	1.37
610505	Of Wool	Piece	1.37
610506	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Piece	1.37
610507	Of Cotton containing 1% or more by weight of spandex/lycra/ elastane	Piece	1.37
610599	Of Others	Piece	1.37
<b>6106</b>	<b>Women's or girls' blouses, shirts and shirt-blouses, knitted or crocheted</b>		
610601	Of Cotton	Piece	1.37
610602	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Piece	1.37
610603	Of Man Made Fibres	Piece	1.37
610604	Of Silk (other than containing Noil silk)	Piece	1.37
610605	Of Wool	Piece	1.37
610606	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Piece	1.37
610607	Of Cotton containing 1% or more by weight of spandex/lycra/ elastane	Piece	1.37
610699	Of Others	Piece	1.37
<b>6107</b>	<b>Men's or boys' underpants, briefs, nightshirts, pyjamas, bathrobes, dressing gowns and similar articles, knitted or crocheted</b>		
<b>610701</b>	<b>Nightshirts, pyjamas, bath robes and dressing gowns and similar articles</b>		
61070101	Of Cotton	Piece	1.37

61070102	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Piece	1.37
61070103	Of Man Made Fibres	Piece	1.37
61070104	Of Silk (other than containing Noil silk)	Piece	1.37
61070105	Of Wool	Piece	1.37
61070106	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Piece	1.37
61070107	Of Cotton containing 1% or more by weight of spandex/lycra/ elastane	Piece	1.37
61070199	Of Others	Piece	1.37
<b>610702</b>	<b>Briefs, underpants and similar articles</b>		
61070201	Of Cotton	Piece	1.37
61070202	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Piece	1.37
61070203	Of Man Made Fibres	Piece	1.37
61070204	Of Silk (other than containing Noil silk)	Piece	1.37
61070205	Of Wool	Piece	1.37
61070206	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Piece	1.37
61070207	Of Cotton containing 1% or more by weight of spandex/lycra/ elastane	Piece	1.37
61070299	Of Others	Piece	1.37
<b>6108</b>	<b>Women's or girls' slips, petticoats, briefs, panties, night dresses, pyjamas, negligees, bathrobes, dressing gowns and similar articles, knitted or crocheted</b>		
<b>610801</b>	<b>Night dresses (including nightshirts), pyjamas, negligees bathrobes and dressing gowns and similar articles</b>		
61080101	Of Cotton	Piece	1.37
61080102	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Piece	1.37
61080103	Of Man Made Fibres	Piece	1.37
61080104	Of Silk (other than containing Noil silk)	Piece	1.37
61080105	Of Wool	Piece	1.37
61080106	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Piece	1.37
61080107	Of Cotton containing 1% or more by weight of spandex/lycra/ elastane	Piece	1.37
61080199	Of Others	Piece	1.37
<b>610802</b>	<b>Slips, petticoats, briefs, panties and similar articles</b>		
61080201	Of Cotton	Piece	1.37
61080202	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Piece	1.37
61080203	Of Man Made Fibres	Piece	1.37
61080204	Of Silk (other than containing Noil silk)	Piece	1.37
61080205	Of Wool	Piece	1.37
61080206	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Piece	1.37
61080207	Of Cotton containing 1% or more by weight of spandex/lycra/ elastane	Piece	1.37
61080299	Of Others	Piece	1.37
<b>6109</b>	<b>T-shirts, singlets and other vests, knitted or crocheted</b>		
610901	Of Cotton	Piece	1.37
610902	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Piece	1.37
610903	Of Man Made Fibres	Piece	1.37
610904	Of Silk (other than containing Noil silk)	Piece	1.37
610905	Of Wool	Piece	1.37
610906	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Piece	1.37
610907	Of Cotton containing 1% or more by weight of spandex/lycra/ elastane	Piece	1.37
610999	Of Others	Piece	1.37
<b>6110</b>	<b>Jerseys, pullovers, cardigans, waistcoats an similar articles, knitted or crocheted</b>		
611001	Of Cotton	Piece	1.37
611002	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Piece	1.37
611003	Of Man Made Fibres	Piece	1.37
611004	Of Silk (other than containing Noil silk)	Piece	1.37
611005	Of Wool	Piece	1.37
611006	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Piece	1.37

611007	Of Cotton containing 1% or more by weight of spandex/lycra/ elastane	Piece	1.37
611099	Of Others	Piece	1.37
<b>6111</b>	<b>Babies' garments and clothing accessories, knitted or crocheted</b>		
611101	Of Cotton	Piece	1.37
611102	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Piece	1.37
611103	Of Man Made Fibres	Piece	1.37
611104	Of Silk (other than containing Noil silk)	Piece	1.37
611105	Of Wool	Piece	1.37
611106	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Piece	1.37
611107	Of Cotton containing 1% or more by weight of spandex/lycra/ elastane	Piece	1.37
611199	Of Others	Piece	1.37
<b>6112</b>	<b>Track suits, ski suits and swimwear, knitted or crocheted</b>		
611201	Of Cotton	Piece	1.37
611202	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Piece	1.37
611203	Of Man Made Fibres	Piece	1.37
611204	Of Silk (other than containing Noil silk)	Piece	1.37
611205	Of Wool	Piece	1.37
611206	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Piece	1.37
611207	Of Cotton containing 1% or more by weight of spandex/lycra/ elastane	Piece	1.37
611299	Of Others	Piece	1.37
<b>6113</b>	<b>Garments, made up of knitted or crocheted fabrics of heading 5903, 5906 or 5907</b>		
611301	Of Cotton	Piece	1.37
611302	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Piece	1.37
611303	Of Man Made Fibres	Piece	1.37
611304	Of Silk (other than containing Noil silk)	Piece	1.37
611305	Of Wool	Piece	1.37
611306	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Piece	1.37
611399	Of Others	Piece	1.37
<b>6114</b>	<b>Other garments, knitted or crocheted</b>		
<b>611401</b>	<b>Women's or girls' blouses, shirts and shirt-blouses, knitted or crocheted with tightening at the bottom</b>		
61140101	Of Cotton	Piece	1.37
61140102	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Piece	1.37
61140103	Of Man Made Fibres	Piece	1.37
61140104	Of Silk (other than containing Noil silk)	Piece	1.37
61140105	Of Wool	Piece	1.37
61140106	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Piece	1.37
61140107	Of Cotton containing 1% or more by weight of spandex/lycra/ elastane	Piece	1.37
61140199	Of Others	Piece	1.37
<b>611402</b>	<b>Women's or girls' tops/cami</b>		
61140201	Of Cotton	Piece	1.37
61140202	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Piece	1.37
61140203	Of Man Made Fibres	Piece	1.37
61140204	Of Silk (other than containing Noil silk)	Piece	1.37
61140205	Of Wool	Piece	1.37
61140206	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Piece	1.37
61140207	Of Cotton containing 1% or more by weight of spandex/lycra/ elastane	Piece	1.37
61140299	Of Others	Piece	1.37
<b>611403</b>	<b>Other jackets not covered under heading 6103 or 6104</b>		
61140301	Of Cotton	Piece	1.37
61140302	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Piece	1.37
61140303	Of Man Made Fibres	Piece	1.37
61140304	Of Silk (other than containing Noil silk)	Piece	1.37

61140305	Of Wool	Piece	1.37
61140306	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Piece	1.37
61140399	Of Others	Piece	1.37
<b>611404</b>	<b>Kurta and Salwar/ Salwar suits/ salwar-kameez/ churidar-kameez, with or without dupatta</b>		
61140401	Of Cotton	Piece	1.37
61140402	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Piece	1.37
61140403	Of Man Made Fibres	Piece	1.37
61140404	Of Silk (other than containing Noil silk)	Piece	1.37
61140405	Of Wool	Piece	1.37
61140406	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Piece	1.37
61140499	Of Others	Piece	1.37
<b>611405</b>	<b>Others</b>		
61140501	Of Cotton	Piece	1.37
61140502	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Piece	1.37
61140503	Of Man Made Fibres	Piece	1.37
61140504	Of Silk (other than containing Noil silk)	Piece	1.37
61140505	Of Wool	Piece	1.37
61140506	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Piece	1.37
61140507	Protective industrial wear	Piece	1.37
61140599	Of Others	Piece	1.37
<b>6115</b>	<b>Panty hose, tights, stockings, socks and other hosiery, including graduated compre-ssion hosiery (for example, stockings for varicose veins) and footwear without applied soles, knitted or crocheted</b>		
<b>611501</b>	<b>Leggings</b>		
61150101	Of Cotton	Piece	1.37
61150102	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Piece	1.37
61150103	Of Man Made Fibres	Piece	1.37
61150104	Of Silk (other than containing Noil silk)	Piece	1.37
61150105	Of Wool	Piece	1.37
61150106	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Piece	1.37
61150107	Of Cotton containing 1% or more by weight of spandex/lycra/elastane	Piece	1.37
61150199	Of Others	Piece	1.37
<b>611502</b>	<b>Others</b>		
61150201	Of Cotton	Kg	1.37
61150202	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Kg	1.37
61150203	Of Man Made Fibres	Kg	1.37
61150204	Of Silk (other than containing Noil silk)	Kg	1.37
61150205	Of Wool	Kg	1.37
61150206	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Kg	1.37
61150207	Of Cotton containing 1% or more by weight of spandex/lycra/ elastane	Kg	1.37
61150299	Of Others	Kg	1.37
<b>6116</b>	<b>Gloves, mittens and mitts, knitted or crocheted</b>		
611601	Of Cotton	Kg	1.37
611602	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Kg	1.37
611603	Of Man Made Fibres	Kg	1.37
611604	Of Silk (other than containing Noil silk)	Kg	1.37
611605	Of Wool	Kg	1.37
611606	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Kg	1.37
611607	Gloves, specially designed for use in sports namely Golf Gloves made of textile materials	Piece	1.37
611699	Of Others	Kg	1.37
<b>6117</b>	<b>Other made up clothing accessories, knitted or crocheted; knitted or crocheted parts of garments or of clothing accessories</b>		
<b>611701</b>	<b>Shawls, scarves, mufflers, stoles, mantillas and veils</b>		
61170101	Of Cotton	Piece	1.37
61170102	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Piece	1.37

61170103	Of Man Made Fibres	Piece	1.37
61170104	Of Silk (other than containing Noil silk)	Piece	1.37
61170105	Of Wool	Piece	1.37
61170106	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Piece	1.37
61170199	Of Others	Piece	1.37
<b>611702</b>	<b>Others</b>		
61170201	Of Cotton	Kg	1.37
61170202	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Kg	1.37
61170203	Of Man Made Fibres	Kg	1.37
61170204	Of Silk (other than containing Noil silk)	Kg	1.37
61170205	Of Wool	Kg	1.37
61170206	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Kg	1.37
61170299	Of Others	Kg	1.37
<b>CHAPTER – 62</b>			
<b>ARTICLES OF APPAREL AND CLOTHING ACCESSORIES, NOT KNITTED OR CROCHETED</b>			
<b>Tariff Item</b>	<b>Description of goods</b>	<b>Unit</b>	<b>AA-State rates (in %)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>6201</b>	<b>Men's or boys' overcoats, car-coats, cloaks, anoraks (including ski-jackets), wind-cheaters, wind jackets and similar articles other than those of heading 6203</b>		
620101	Of Cotton	Piece	1.37
620102	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Piece	1.37
620103	Of Man Made Fibres	Piece	1.37
620104	Of Silk (other than containing Noil silk)	Piece	1.37
620105	Of Wool	Piece	1.37
620106	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Piece	1.37
620199	Of Others	Piece	1.37
<b>6202</b>	<b>Women's or girls' overcoats, car-coats, capes, cloaks, anoraks (including ski-jackets), wind-cheaters, wind-jackets and similar articles, other than those of heading 6204</b>		
620201	Of Cotton	Piece	1.37
620202	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Piece	1.37
620203	Of Man Made Fibres	Piece	1.37
620204	Of Silk (other than containing Noil silk)	Piece	1.37
620205	Of Wool	Piece	1.37
620206	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Piece	1.37
620299	Of Others	Piece	1.37
<b>6203</b>	<b>Men's or boys' suits, ensembles, jackets, blazers, trousers, bib and brace overalls, breeches and shorts (other than swimwear)</b>		
<b>620301</b>	<b>Suits (combination comprising of at least one trouser and one jacket)</b>		
62030101	Of Cotton	Piece	1.37
62030102	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Piece	1.37
62030103	Of Man Made Fibres	Piece	1.37
62030104	Of Silk (other than containing Noil silk)	Piece	1.37
62030105	Of Wool	Piece	1.37
62030106	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Piece	1.37
62030199	Of Others	Piece	1.37
<b>620302</b>	<b>Jackets, blazers</b>		
62030201	Of Cotton	Piece	1.37
62030202	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Piece	1.37
62030203	Of Man Made Fibres	Piece	1.37
62030204	Of Silk (other than containing Noil silk)	Piece	1.37
62030205	Of Wool	Piece	1.37
62030206	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Piece	1.37
62030207	Of Cotton containing 1% or more by weight of spandex/ lycra/elastane	Piece	1.37
62030299	Of Others	Piece	1.37

<b>620303</b>	<b>Trousers, full pants</b>		
62030301	Of Cotton	Piece	1.37
62030302	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Piece	1.37
62030303	Of Man Made Fibres	Piece	1.37
62030304	Of Silk (other than containing Noil silk)	Piece	1.37
62030305	Of Wool	Piece	1.37
62030306	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Piece	1.37
62030307	Of Cotton containing 1% or more by weight of spandex/ lycra/elastane	Piece	1.37
62030399	Of Others	Piece	1.37
<b>620304</b>	<b>Others (including capri/three-fourth pants and ensembles)</b>		
62030401	Of Cotton	Piece	1.37
62030402	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Piece	1.37
62030403	Of Man Made Fibres	Piece	1.37
62030404	Of Silk (other than containing Noil silk)	Piece	1.37
62030405	Of Wool	Piece	1.37
62030406	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Piece	1.37
62030407	Of Cotton containing 1% or more by weight of spandex/ lycra/elastane	Piece	1.37
62030499	Of Others	Piece	1.37
<b>6204</b>	<b>Women's or girls' suits, ensembles, jackets, blazers, dresses, skirts, divided skirts, trousers, bib and brace overalls, breeches and shorts (other than swimwear)</b>		
<b>620401</b>	<b>Suits (combination comprising of at least one trouser and one jacket)</b>		
62040101	Of Cotton	Piece	1.37
62040102	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Piece	1.37
62040103	Of Man Made Fibres	Piece	1.37
62040104	Of Silk (other than containing Noil silk)	Piece	1.37
62040105	Of Wool	Piece	1.37
62040106	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Piece	1.37
62040199	Of Others	Piece	1.37
<b>620402</b>	<b>Jackets, blazers</b>		
62040201	Of Cotton	Piece	1.37
62040202	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Piece	1.37
62040203	Of Man Made Fibres	Piece	1.37
62040204	Of Silk (other than containing Noil silk)	Piece	1.37
62040205	Of Wool	Piece	1.37
62040206	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Piece	1.37
62040207	Of Cotton containing 1% or more by weight of spandex/ lycra/elastane	Piece	1.37
62040299	Of Others	Piece	1.37
<b>620403</b>	<b>Dresses/frocks, skirts, divided skirts, trousers, full pants</b>		
62040301	Of Cotton	Piece	1.37
62040302	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Piece	1.37
62040303	Of Man Made Fibres	Piece	1.37
62040304	Of Silk (other than containing Noil silk)	Piece	1.37
62040305	Of Wool	Piece	1.37
62040306	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Piece	1.37
62040307	Of Cotton containing 1% or more by weight of spandex/ lycra/elastane	Piece	1.37
62040399	Of Others	Piece	1.37
<b>620404</b>	<b>Others (including capri/three-fourth pants and ensembles)</b>		
62040401	Of Cotton	Piece	1.37
62040402	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Piece	1.37
62040403	Of Man Made Fibres	Piece	1.37
62040404	Of Silk (other than containing Noil silk)	Piece	1.37
62040405	Of Wool	Piece	1.37
62040406	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Piece	1.37
62040407	Of Cotton containing 1% or more by weight of spandex/	Piece	1.37



	lycra/elastane		
62040499	Of Others	Piece	1.37
<b>6205</b>	<b>Men's or boys' shirts</b>		
620501	Of Cotton	Piece	1.37
620502	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Piece	1.37
620503	Of Man Made Fibres	Piece	1.37
620504	Of Silk (other than containing Noil silk)	Piece	1.37
620505	Of Wool	Piece	1.37
620506	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Piece	1.37
620507	Of Cotton containing 1% or more by weight of spandex/ lycra/elastane	Piece	1.37
620599	Of Others	Piece	1.37
<b>6206</b>	<b>Women's or girls' blouses, shirts and shirt-blouses</b>		
620601	Of Cotton	Piece	1.37
620602	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Piece	1.37
620603	Of Man Made Fibres	Piece	1.37
620604	Of Silk (other than containing Noil silk)	Piece	1.37
620605	Of Wool	Piece	1.37
620606	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Piece	1.37
620607	Of Cotton containing 1% or more by weight of spandex/ lycra/elastane	Piece	1.37
620699	Of Others	Piece	1.37
<b>6207</b>	<b>Men's or boys' singlets and other vests, underpants, briefs, nightshirts, pyjamas, bath-robos, dressing gowns and similar articles</b>		
<b>620701</b>	<b>Dressing gowns, bathrobes, pyjamas, nightshirts and similar articles</b>		
62070101	Of Cotton	Piece	1.37
62070102	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Piece	1.37
62070103	Of Man Made Fibres	Piece	1.37
62070104	Of Silk (other than containing Noil silk)	Piece	1.37
62070105	Of Wool	Piece	1.37
62070106	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Piece	1.37
62070107	Of Cotton containing 1% or more by weight of spandex/ lycra/elastane	Piece	1.37
62070199	Of Others	Piece	1.37
<b>620702</b>	<b>Singlets and other vests, underpants, briefs and similar articles</b>		
62070201	Of Cotton	Piece	1.37
62070202	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Piece	1.37
62070203	Of Man Made Fibres	Piece	1.37
62070204	Of Silk (other than containing Noil silk)	Piece	1.37
62070205	Of Wool	Piece	1.37
62070206	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Piece	1.37
62070207	Of Cotton containing 1% or more by weight of spandex/ lycra/elastane	Piece	1.37
62070299	Of Others	Piece	1.37
<b>6208</b>	<b>Women's or girls' singlets and other vests, slips, petticoats, briefs, panties, nightdresses, pyjamas, negliges, bathrobes, dressing gowns and similar articles</b>		
<b>620801</b>	<b>Dressing gowns, bathrobes, pyjamas, negliges, nightdresses (including nightshirts) and similar articles</b>		
62080101	Of Cotton	Piece	1.37
62080102	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Piece	1.37
62080103	Of Man Made Fibres	Piece	1.37
62080104	Of Silk (other than containing Noil silk)	Piece	1.37
62080105	Of Wool	Piece	1.37
62080106	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Piece	1.37
62080107	Of Cotton containing 1% or more by weight of spandex/ lycra/elastane	Piece	1.37
62080199	Of Others	Piece	1.37
<b>620802</b>	<b>Singlets and other vests, slips, petticoats, briefs, panties and similar articles</b>		

62080201	Of Cotton	Piece	1.37
62080202	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Piece	1.37
62080203	Of Man Made Fibres	Piece	1.37
62080204	Of Silk (other than containing Noil silk)	Piece	1.37
62080205	Of Wool	Piece	1.37
62080206	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Piece	1.37
62080207	Of Cotton containing 1% or more by weight of spandex/ lycra/elastane	Piece	1.37
62080299	Of Others	Piece	1.37
<b>6209</b>	<b>Babies' garments and clothing accessories</b>		
620901	Of Cotton	Piece	1.37
620902	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Piece	1.37
620903	Of Man Made Fibres	Piece	1.37
620904	Of Silk (other than containing Noil silk)	Piece	1.37
620905	Of Wool	Piece	1.37
620906	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Piece	1.37
620907	Of Cotton containing 1% or more by weight of spandex/ lycra/elastane	Piece	1.37
620999	Of Others	Piece	1.37
<b>6210</b>	<b>Garments, made up of fabrics of heading 5602, 5603, 5903, 5906 or 5907</b>		
621001	Of Cotton	Piece	1.37
621002	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Piece	1.37
621003	Of Man Made Fibres	Piece	1.37
621004	Of Silk (other than containing Noil silk)	Piece	1.37
621005	Of Wool	Piece	1.37
621006	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Piece	1.37
621099	Of Others	Piece	1.37
<b>6211</b>	<b>Track suits, ski suits and swimwear; other garments</b>		
<b>621101</b>	<b>Women's or girls' blouses, shirts and shirt-blouses, with tightening at the bottom</b>		
62110101	Of Cotton	Piece	1.37
62110102	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Piece	1.37
62110103	Of Man Made Fibres	Piece	1.37
62110104	Of Silk (other than containing Noil silk)	Piece	1.37
62110105	Of Wool	Piece	1.37
62110106	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Piece	1.37
62110107	Of Cotton containing 1% or more by weight of spandex/ lycra/elastane	Piece	1.37
62110199	Of Others	Piece	1.37
<b>621102</b>	<b>Women's or girls' tops/cami</b>		
62110201	Of Cotton	Piece	1.37
62110202	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Piece	1.37
62110203	Of Man Made Fibres	Piece	1.37
62110204	Of Silk (other than containing Noil silk)	Piece	1.37
62110205	Of Wool	Piece	1.37
62110206	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Piece	1.37
62110207	Of Cotton containing 1% or more by weight of spandex/ lycra/elastane	Piece	1.37
62110299	Of Others	Piece	1.37
<b>621103</b>	<b>Other jackets not covered under heading 6203 or 6204</b>		
62110301	Of Cotton	Piece	1.37
62110302	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Piece	1.37
62110303	Of Man Made Fibres	Piece	1.37
62110304	Of Silk (other than containing Noil silk)	Piece	1.37
62110305	Of Wool	Piece	1.37
62110306	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Piece	1.37
62110399	Of Others	Piece	1.37
<b>621104</b>	<b>Protective industrial wear</b>		
62110401	Protective industrial wear overall/coverall made of cotton	Piece	1.37

62110402	Other protective industrial wear made of cotton	Piece	1.37
62110403	Protective industrial wear overall/coverall made of Aramid fibre or Modacrylic fibre	Piece	1.37
62110404	Other protective industrial wear made of Aramid fibre	Piece	1.37
62110405	Protective industrial wear overall/coverall made of Modacrylic fibre	Piece	1.37
62110406	Other protective industrial wear made of Modacrylic fibre	Piece	1.37
62110499	Other protective industrial wear	Piece	1.37
<b>621105</b>	<b>Kurta and Salwar/ Salwar suits/ salwar-kameez/ churidar-kameez, with or without dupatta</b>		
62110501	Of Cotton	Piece	1.37
62110502	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Piece	1.37
62110503	Of Man Made Fibres	Piece	1.37
62110504	Of Silk (other than containing Noil silk)	Piece	1.37
62110505	Of Wool	Piece	1.37
62110506	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Piece	1.37
62110599	Of Others	Piece	1.37
<b>621106</b>	<b>Others</b>		
62110601	Of Cotton	Piece	1.37
62110602	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Piece	1.37
62110603	Of Man Made Fibres	Piece	1.37
62110604	Of Silk (other than containing Noil silk)	Piece	1.37
62110605	Of Wool	Piece	1.37
62110606	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Piece	1.37
62110699	Of Others	Piece	1.37
<b>6212</b>	<b>Brassieres, girdles, corsets, braces, suspenders, garters and similar articles and parts thereof, whether or not knitted or crocheted</b>		
621201	Of Cotton	Kg	1.37
621202	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Kg	1.37
621203	Of Man Made Fibres	Kg	1.37
621204	Of Silk (other than containing Noil silk)	Kg	1.37
621205	Of Wool	Kg	1.37
621206	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Kg	1.37
621299	Of Others	Kg	1.37
<b>6213</b>	<b>Handkerchiefs</b>		
621301	Of Cotton	Kg	1.37
621302	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Kg	1.37
621303	Of Man Made Fibres	Kg	1.37
621304	Of Silk (other than containing Noil silk)	Kg	1.37
621305	Of Wool	Kg	1.37
621306	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Kg	1.37
621399	Of Others	Kg	1.37
<b>6214</b>	<b>Shawls, scarves, mufflers, mantillas, veils and the like</b>		
<b>621401</b>	<b>Shawls, scarves, mufflers, stoles, mantillas and veils</b>		
62140101	Of Cotton	Piece	1.37
62140102	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Piece	1.37
62140103	Of Man Made Fibres	Piece	1.37
62140104	Of Silk (other than containing Noil silk)	Piece	1.37
62140105	Of Wool	Piece	1.37
62140106	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Piece	1.37
62140199	Of Others	Piece	1.37
<b>621402</b>	<b>Others</b>		
62140201	Of Cotton	Kg	1.37
62140202	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Kg	1.37
62140203	Of Man Made Fibres	Kg	1.37
62140204	Of Silk (other than containing Noil silk)	Kg	1.37
62140205	Of Wool	Kg	1.37
62140206	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Kg	1.37

62140299	Of Others	Kg	1.37
<b>6215</b>	<b>Ties, bow ties and cravats</b>		
621501	Of Cotton	Kg	1.37
621502	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Kg	1.37
621503	Of Man Made Fibres	Kg	1.37
621504	Of Silk (other than containing Noil silk)	Kg	1.37
621505	Of Wool	Kg	1.37
621506	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Kg	1.37
621599	Of Others	Kg	1.37
<b>6216</b>	<b>Gloves, mittens and mitts</b>		
621601	Of Cotton	Kg	1.37
621602	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Kg	1.37
621603	Of Man Made Fibres	Kg	1.37
621604	Of Silk (other than containing Noil silk)	Kg	1.37
621605	Of Wool	Kg	1.37
621606	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Kg	1.37
621607	Gloves, specially designed for use in sports namely Golf Gloves made of textile materials	Piece	1.37
621699	Of Others	Kg	1.37
<b>6217</b>	<b>Other made up clothing accessories; parts of garments or of clothing accessories, other than those of heading 6212</b>		
621701	Of Cotton	Kg	1.37
621702	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Kg	1.37
621703	Of Man Made Fibres	Kg	1.37
621704	Of Silk (other than containing Noil silk)	Kg	1.37
621705	Of Wool	Kg	1.37
621706	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Kg	1.37
621799	Of Others	Kg	1.37

**Schedule 4: Rates of AA-embedded Central levies**

<b>CHAPTER – 61</b>			
<b>ARTICLES OF APPAREL AND CLOTHING ACCESSORIES, KNITTED OR CROCHETED</b>			
<b>Tariff Item</b>	<b>Description of goods</b>	<b>Unit</b>	<b>AA- Central rates (in %)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>6101</b>	<b>Men's or boys' overcoats, carcoats, capes, cloaks, anoraks (including ski-jackets), wind-cheaters, wind-jackets and similar articles, knitted or crocheted, other than those of heading 6103</b>		
610101	Of Cotton	Piece	1.08
610102	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Piece	1.08
610103	Of Man Made Fibres	Piece	1.08
610104	Of Silk (other than containing Noil silk)	Piece	1.08
610105	Of Wool	Piece	1.08
610106	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Piece	1.08
610199	Of Others	Piece	1.08
<b>6102</b>	<b>Women's or girls' overcoats, car-coats, capes, cloaks, anoraks (including ski-jackets), wind-cheaters, wind-jackets and similar articles, knitted or crocheted, other than those of heading 6104</b>		
610201	Of Cotton	Piece	1.08
610202	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Piece	1.08
610203	Of Man Made Fibres	Piece	1.08
610204	Of Silk (other than containing Noil silk)	Piece	1.08
610205	Of Wool	Piece	1.08
610206	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Piece	1.08
610299	Of Others	Piece	1.08
<b>6103</b>	<b>Men's or boys' suits, ensembles, jackets, blazers, trousers, bib and brace overalls, breeches and shorts (other than swim wear), knitted or crocheted</b>		
<b>610301</b>	<b>Suits (combination comprising of at least one trouser and one jacket)</b>		

61030101	Of Cotton	Piece	1.08
61030102	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Piece	1.08
61030103	Of Man Made Fibres	Piece	1.08
61030104	Of Silk (other than containing Noil silk)	Piece	1.08
61030105	Of Wool	Piece	1.08
61030106	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Piece	1.08
61030199	Of Others	Piece	1.08
<b>610302</b>	<b>Jackets, blazers</b>		1.08
61030201	Of Cotton	Piece	1.08
61030202	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Piece	1.08
61030203	Of Man Made Fibres	Piece	1.08
61030204	Of Silk (other than containing Noil silk)	Piece	1.08
61030205	Of Wool	Piece	1.08
61030206	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Piece	1.08
61030207	Of Cotton containing 1% or more by weight of spandex/ lycra/elastane	Piece	1.08
61030299	Of Others	Piece	1.08
<b>610303</b>	<b>Trousers, full pants</b>		
61030301	Of Cotton	Piece	1.08
61030302	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Piece	1.08
61030303	Of Man Made Fibres	Piece	1.08
61030304	Of Silk (other than containing Noil silk)	Piece	1.08
61030305	Of Wool	Piece	1.08
61030306	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Piece	1.08
61030307	Of Cotton containing 1% or more by weight of spandex/ lycra/elastane	Piece	1.08
61030399	Of Others	Piece	1.08
<b>610304</b>	<b>Others (including capri/three-fourth pants and ensembles)</b>		
61030401	Of Cotton	Piece	1.08
61030402	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Piece	1.08
61030403	Of Man Made Fibres	Piece	1.08
61030404	Of Silk (other than containing Noil silk)	Piece	1.08
61030405	Of Wool	Piece	1.08
61030406	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Piece	1.08
61030407	Of Cotton containing 1% or more by weight of spandex/ lycra/elastane	Piece	1.08
61030499	Of Others	Piece	1.08
<b>6104</b>	<b>Women's or girls' suits, ensembles, jackets, blazers, dresses, skirts, divided skirts, trousers, bib and brace overalls, breeches and shorts (other than swim wear), knitted or crocheted</b>		
<b>610401</b>	<b>Suits (combination comprising of at least one trouser and one jacket)</b>		
61040101	Of Cotton	Piece	1.08
61040102	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Piece	1.08
61040103	Of Man Made Fibres	Piece	1.08
61040104	Of Silk (other than containing Noil silk)	Piece	1.08
61040105	Of Wool	Piece	1.08
61040106	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Piece	1.08
61040199	Of Others	Piece	1.08
<b>610402</b>	<b>Jackets, blazers</b>		
61040201	Of Cotton	Piece	1.08
61040202	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Piece	1.08
61040203	Of Man Made Fibres	Piece	1.08
61040204	Of Silk (other than containing Noil silk)	Piece	1.08
61040205	Of Wool	Piece	1.08
61040206	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Piece	1.08
61040207	Of Cotton containing 1% or more by weight of spandex/ lycra/elastane	Piece	1.08
61040299	Of Others	Piece	1.08
<b>610403</b>	<b>Dresses/frocks, skirts, divided skirts, trousers, full pants</b>		

61040301	Of Cotton	Piece	1.08
61040302	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Piece	1.08
61040303	Of Man Made Fibres	Piece	1.08
61040304	Of Silk (other than containing Noil silk)	Piece	1.08
61040305	Of Wool	Piece	1.08
61040306	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Piece	1.08
61040307	Of Cotton containing 1% or more by weight of spandex/ lycra/elastane	Piece	1.08
61040399	Of Others	Piece	1.08
<b>610404</b>	<b>Others (including capri/three-fourth pants and ensembles)</b>		
61040401	Of Cotton	Piece	1.08
61040402	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Piece	1.08
61040403	Of Man Made Fibres	Piece	1.08
61040404	Of Silk (other than containing Noil silk)	Piece	1.08
61040405	Of Wool	Piece	1.08
61040406	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Piece	1.08
61040407	Of Cotton containing 1% or more by weight of spandex/ lycra/elastane	Piece	1.08
61040499	Of Others	Piece	1.08
<b>6105</b>	<b>Men's or boys' shirts, knitted or crocheted</b>		
610501	Of Cotton	Piece	1.08
610502	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Piece	1.08
610503	Of Man Made Fibres	Piece	1.08
610504	Of Silk (other than containing Noil silk)	Piece	1.08
610505	Of Wool	Piece	1.08
610506	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Piece	1.08
610507	Of Cotton containing 1% or more by weight of spandex/lycra/ elastane	Piece	1.08
610599	Of Others	Piece	1.08
<b>6106</b>	<b>Women's or girls' blouses, shirts and shirt-blouses, knitted or crocheted</b>		
610601	Of Cotton	Piece	1.08
610602	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Piece	1.08
610603	Of Man Made Fibres	Piece	1.08
610604	Of Silk (other than containing Noil silk)	Piece	1.08
610605	Of Wool	Piece	1.08
610606	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Piece	1.08
610607	Of Cotton containing 1% or more by weight of spandex/lycra/ elastane	Piece	1.08
610699	Of Others	Piece	1.08
<b>6107</b>	<b>Men's or boys' underpants, briefs, nightshirts, pyjamas, bathrobes, dressing gowns and similar articles, knitted or crocheted</b>		
<b>610701</b>	<b>Nightshirts, pyjamas, bath robes and dressing gowns and similar articles</b>		
61070101	Of Cotton	Piece	1.08
61070102	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Piece	1.08
61070103	Of Man Made Fibres	Piece	1.08
61070104	Of Silk (other than containing Noil silk)	Piece	1.08
61070105	Of Wool	Piece	1.08
61070106	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Piece	1.08
61070107	Of Cotton containing 1% or more by weight of spandex/lycra/ elastane	Piece	1.08
61070199	Of Others	Piece	1.08
<b>610702</b>	<b>Briefs, underpants and similar articles</b>		
61070201	Of Cotton	Piece	1.08
61070202	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Piece	1.08
61070203	Of Man Made Fibres	Piece	1.08
61070204	Of Silk (other than containing Noil silk)	Piece	1.08
61070205	Of Wool	Piece	1.08
61070206	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Piece	1.08

61070207	Of Cotton containing 1% or more by weight of spandex/lycra/ elastane	Piece	1.08
61070299	Of Others	Piece	1.08
<b>6108</b>	<b>Women's or girls' slips, petticoats, briefs, panties, night dresses, pyjamas, negligees, bathrobes, dressing gowns and similar articles, knitted or crocheted</b>		
<b>610801</b>	<b>Night dresses (including nightshirts), pyjamas, negligees bathrobes and dressing gowns and similar articles</b>		
61080101	Of Cotton	Piece	1.08
61080102	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Piece	1.08
61080103	Of Man Made Fibres	Piece	1.08
61080104	Of Silk (other than containing Noil silk)	Piece	1.08
61080105	Of Wool	Piece	1.08
61080106	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Piece	1.08
61080107	Of Cotton containing 1% or more by weight of spandex/lycra/ elastane	Piece	1.08
61080199	Of Others	Piece	1.08
<b>610802</b>	<b>Slips, petticoats, briefs, panties and similar articles</b>		
61080201	Of Cotton	Piece	1.08
61080202	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Piece	1.08
61080203	Of Man Made Fibres	Piece	1.08
61080204	Of Silk (other than containing Noil silk)	Piece	1.08
61080205	Of Wool	Piece	1.08
61080206	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Piece	1.08
61080207	Of Cotton containing 1% or more by weight of spandex/lycra/ elastane	Piece	1.08
61080299	Of Others	Piece	1.08
<b>6109</b>	<b>T-shirts, singlets and other vests, knitted or crocheted</b>		
610901	Of Cotton	Piece	1.08
610902	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Piece	1.08
610903	Of Man Made Fibres	Piece	1.08
610904	Of Silk (other than containing Noil silk)	Piece	1.08
610905	Of Wool	Piece	1.08
610906	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Piece	1.08
610907	Of Cotton containing 1% or more by weight of spandex/lycra/ elastane	Piece	1.08
610999	Of Others	Piece	1.08
<b>6110</b>	<b>Jerseys, pullovers, cardigans, waistcoats an similar articles, knitted or crocheted</b>		
611001	Of Cotton	Piece	1.08
611002	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Piece	1.08
611003	Of Man Made Fibres	Piece	1.08
611004	Of Silk (other than containing Noil silk)	Piece	1.08
611005	Of Wool	Piece	1.08
611006	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Piece	1.08
611007	Of Cotton containing 1% or more by weight of spandex/lycra/ elastane	Piece	1.08
611099	Of Others	Piece	1.08
<b>6111</b>	<b>Babies' garments and clothing accessories, knitted or crocheted</b>		
611101	Of Cotton	Piece	1.08
611102	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Piece	1.08
611103	Of Man Made Fibres	Piece	1.08
611104	Of Silk (other than containing Noil silk)	Piece	1.08
611105	Of Wool	Piece	1.08
611106	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Piece	1.08
611107	Of Cotton containing 1% or more by weight of spandex/lycra/ elastane	Piece	1.08
611199	Of Others	Piece	1.08
<b>6112</b>	<b>Track suits, ski suits and swimwear, knitted or crocheted</b>		
611201	Of Cotton	Piece	1.08

611202	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Piece	1.08
611203	Of Man Made Fibres	Piece	1.08
611204	Of Silk (other than containing Noil silk)	Piece	1.08
611205	Of Wool	Piece	1.08
611206	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Piece	1.08
611207	Of Cotton containing 1% or more by weight of spandex/lycra/ elastane	Piece	1.08
611299	Of Others	Piece	1.08
<b>6113</b>	<b>Garments, made up of knitted or crocheted fabrics of heading 5903, 5906 or 5907</b>		
611301	Of Cotton	Piece	1.08
611302	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Piece	1.08
611303	Of Man Made Fibres	Piece	1.08
611304	Of Silk (other than containing Noil silk)	Piece	1.08
611305	Of Wool	Piece	1.08
611306	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Piece	1.08
611399	Of Others	Piece	1.08
<b>6114</b>	<b>Other garments, knitted or crocheted</b>		
<b>611401</b>	<b>Women's or girls' blouses, shirts and shirt-blouses, knitted or crocheted with tightening at the bottom</b>		
61140101	Of Cotton	Piece	1.08
61140102	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Piece	1.08
61140103	Of Man Made Fibres	Piece	1.08
61140104	Of Silk (other than containing Noil silk)	Piece	1.08
61140105	Of Wool	Piece	1.08
61140106	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Piece	1.08
61140107	Of Cotton containing 1% or more by weight of spandex/lycra/ elastane	Piece	1.08
61140199	Of Others	Piece	1.08
<b>611402</b>	<b>Women's or girls' tops/cami</b>		
61140201	Of Cotton	Piece	1.08
61140202	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Piece	1.08
61140203	Of Man Made Fibres	Piece	1.08
61140204	Of Silk (other than containing Noil silk)	Piece	1.08
61140205	Of Wool	Piece	1.08
61140206	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Piece	1.08
61140207	Of Cotton containing 1% or more by weight of spandex/lycra/ elastane	Piece	1.08
61140299	Of Others	Piece	1.08
<b>611403</b>	<b>Other jackets not covered under heading 6103 or 6104</b>		
61140301	Of Cotton	Piece	1.08
61140302	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Piece	1.08
61140303	Of Man Made Fibres	Piece	1.08
61140304	Of Silk (other than containing Noil silk)	Piece	1.08
61140305	Of Wool	Piece	1.08
61140306	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Piece	1.08
61140399	Of Others	Piece	1.08
<b>611404</b>	<b>Kurta and Salwar/ Salwar suits/ salwar-kameez/ churidar-kameez, with or without dupatta</b>		
61140401	Of Cotton	Piece	1.08
61140402	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Piece	1.08
61140403	Of Man Made Fibres	Piece	1.08
61140404	Of Silk (other than containing Noil silk)	Piece	1.08
61140405	Of Wool	Piece	1.08
61140406	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Piece	1.08
61140499	Of Others	Piece	1.08
<b>611405</b>	<b>Others</b>		
61140501	Of Cotton	Piece	1.08
61140502	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Piece	1.08
61140503	Of Man Made Fibres	Piece	1.08



61140504	Of Silk (other than containing Noil silk)	Piece	1.08
61140505	Of Wool	Piece	1.08
61140506	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Piece	1.08
61140507	Protective industrial wear	Piece	1.08
61140599	Of Others	Piece	1.08
<b>6115</b>	<b>Panty hose, tights, stockings, socks and other hosiery, including graduated compre-ssion hosiery (for example, stockings for varicose veins) and footwear without applied soles, knitted or crocheted</b>		
<b>611501</b>	<b>Leggings</b>		
61150101	Of Cotton	Piece	1.08
61150102	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Piece	1.08
61150103	Of Man Made Fibres	Piece	1.08
61150104	Of Silk (other than containing Noil silk)	Piece	1.08
61150105	Of Wool	Piece	1.08
61150106	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Piece	1.08
61150107	Of Cotton containing 1% or more by weight of spandex/lycra/elastane	Piece	1.08
61150199	Of Others	Piece	1.08
<b>611502</b>	<b>Others</b>		
61150201	Of Cotton	Kg	1.08
61150202	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Kg	1.08
61150203	Of Man Made Fibres	Kg	1.08
61150204	Of Silk (other than containing Noil silk)	Kg	1.08
61150205	Of Wool	Kg	1.08
61150206	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Kg	1.08
61150207	Of Cotton containing 1% or more by weight of spandex/lycra/ elastane	Kg	1.08
61150299	Of Others	Kg	1.08
<b>6116</b>	<b>Gloves, mittens and mitts, knitted or crocheted</b>		
611601	Of Cotton	Kg	1.08
611602	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Kg	1.08
611603	Of Man Made Fibres	Kg	1.08
611604	Of Silk (other than containing Noil silk)	Kg	1.08
611605	Of Wool	Kg	1.08
611606	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Kg	1.08
611607	Gloves, specially designed for use in sports namely Golf Gloves made of textile materials	Piece	1.08
611699	Of Others	Kg	1.08
<b>6117</b>	<b>Other made up clothing accessories, knitted or crocheted; knitted or crocheted parts of garments or of clothing accessories</b>		
<b>611701</b>	<b>Shawls, scarves, mufflers, stoles, mantillas and veils</b>		
61170101	Of Cotton	Piece	1.08
61170102	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Piece	1.08
61170103	Of Man Made Fibres	Piece	1.08
61170104	Of Silk (other than containing Noil silk)	Piece	1.08
61170105	Of Wool	Piece	1.08
61170106	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Piece	1.08
61170199	Of Others	Piece	1.08
<b>611702</b>	<b>Others</b>		
61170201	Of Cotton	Kg	1.08
61170202	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Kg	1.08
61170203	Of Man Made Fibres	Kg	1.08
61170204	Of Silk (other than containing Noil silk)	Kg	1.08
61170205	Of Wool	Kg	1.08
61170206	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Kg	1.08
61170299	Of Others	Kg	1.08

<b>CHAPTER – 62</b>			
<b>ARTICLES OF APPAREL AND CLOTHING ACCESSORIES, NOT KNITTED OR CROCHETED</b>			
Tariff Item	Description of goods	Unit	AA- Central rates (in %)
1	2	3	4
<b>6201</b>	<b>Men's or boys' overcoats, car-coats, cloaks, anoraks (including ski-jackets), wind-cheaters, wind jackets and similar articles other than those of heading 6203</b>		
620101	Of Cotton	Piece	1.08
620102	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Piece	1.08
620103	Of Man Made Fibres	Piece	1.08
620104	Of Silk (other than containing Noil silk)	Piece	1.08
620105	Of Wool	Piece	1.08
620106	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Piece	1.08
620199	Of Others	Piece	1.08
<b>6202</b>	<b>Women's or girls' overcoats, car-coats, capes, cloaks, anoraks (including ski-jackets), wind-cheaters, wind-jackets and similar articles, other than those of heading 6204</b>		
620201	Of Cotton	Piece	1.08
620202	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Piece	1.08
620203	Of Man Made Fibres	Piece	1.08
620204	Of Silk (other than containing Noil silk)	Piece	1.08
620205	Of Wool	Piece	1.08
620206	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Piece	1.08
620299	Of Others	Piece	1.08
<b>6203</b>	<b>Men's or boys' suits, ensembles, jackets, blazers, trousers, bib and brace overalls, breeches and shorts (other than swimwear)</b>		
<b>620301</b>	<b>Suits (combination comprising of at least one trouser and one jacket)</b>		
62030101	Of Cotton	Piece	1.08
62030102	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Piece	1.08
62030103	Of Man Made Fibres	Piece	1.08
62030104	Of Silk (other than containing Noil silk)	Piece	1.08
62030105	Of Wool	Piece	1.08
62030106	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Piece	1.08
62030199	Of Others	Piece	1.08
<b>620302</b>	<b>Jackets, blazers</b>		
62030201	Of Cotton	Piece	1.08
62030202	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Piece	1.08
62030203	Of Man Made Fibres	Piece	1.08
62030204	Of Silk (other than containing Noil silk)	Piece	1.08
62030205	Of Wool	Piece	1.08
62030206	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Piece	1.08
62030207	Of Cotton containing 1% or more by weight of spandex/ lycra/elastane	Piece	1.08
62030299	Of Others	Piece	1.08
<b>620303</b>	<b>Trousers, full pants</b>		
62030301	Of Cotton	Piece	1.08
62030302	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Piece	1.08
62030303	Of Man Made Fibres	Piece	1.08
62030304	Of Silk (other than containing Noil silk)	Piece	1.08
62030305	Of Wool	Piece	1.08
62030306	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Piece	1.08
62030307	Of Cotton containing 1% or more by weight of spandex/ lycra/elastane	Piece	1.08
62030399	Of Others	Piece	1.08
<b>620304</b>	<b>Others (including capri/three-fourth pants and ensembles)</b>		
62030401	Of Cotton	Piece	1.08
62030402	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Piece	1.08

62030403	Of Man Made Fibres	Piece	1.08
62030404	Of Silk (other than containing Noil silk)	Piece	1.08
62030405	Of Wool	Piece	1.08
62030406	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Piece	1.08
62030407	Of Cotton containing 1% or more by weight of spandex/ lycra/elastane	Piece	1.08
62030499	Of Others	Piece	1.08
<b>6204</b>	<b>Women's or girls' suits, ensembles, jackets, blazers, dresses, skirts, divided skirts, trousers, bib and brace overalls, breeches and shorts (other than swimwear)</b>		
<b>620401</b>	<b>Suits (combination comprising of at least one trouser and one jacket)</b>		
62040101	Of Cotton	Piece	1.08
62040102	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Piece	1.08
62040103	Of Man Made Fibres	Piece	1.08
62040104	Of Silk (other than containing Noil silk)	Piece	1.08
62040105	Of Wool	Piece	1.08
62040106	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Piece	1.08
62040199	Of Others	Piece	1.08
<b>620402</b>	<b>Jackets, blazers</b>		
62040201	Of Cotton	Piece	1.08
62040202	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Piece	1.08
62040203	Of Man Made Fibres	Piece	1.08
62040204	Of Silk (other than containing Noil silk)	Piece	1.08
62040205	Of Wool	Piece	1.08
62040206	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Piece	1.08
62040207	Of Cotton containing 1% or more by weight of spandex/ lycra/elastane	Piece	1.08
62040299	Of Others	Piece	1.08
<b>620403</b>	<b>Dresses/frocks, skirts, divided skirts, trousers, full pants</b>		
62040301	Of Cotton	Piece	1.08
62040302	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Piece	1.08
62040303	Of Man Made Fibres	Piece	1.08
62040304	Of Silk (other than containing Noil silk)	Piece	1.08
62040305	Of Wool	Piece	1.08
62040306	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Piece	1.08
62040307	Of Cotton containing 1% or more by weight of spandex/ lycra/elastane	Piece	1.08
62040399	Of Others	Piece	1.08
<b>620404</b>	<b>Others (including capri/three-fourth pants and ensembles)</b>		
62040401	Of Cotton	Piece	1.08
62040402	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Piece	1.08
62040403	Of Man Made Fibres	Piece	1.08
62040404	Of Silk (other than containing Noil silk)	Piece	1.08
62040405	Of Wool	Piece	1.08
62040406	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Piece	1.08
62040407	Of Cotton containing 1% or more by weight of spandex/ lycra/elastane	Piece	1.08
62040499	Of Others	Piece	1.08
<b>6205</b>	<b>Men's or boys' shirts</b>		
620501	Of Cotton	Piece	1.08
620502	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Piece	1.08
620503	Of Man Made Fibres	Piece	1.08
620504	Of Silk (other than containing Noil silk)	Piece	1.08
620505	Of Wool	Piece	1.08
620506	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Piece	1.08
620507	Of Cotton containing 1% or more by weight of spandex/ lycra/elastane	Piece	1.08
620599	Of Others	Piece	1.08
<b>6206</b>	<b>Women's or girls' blouses, shirts and shirt-blouses</b>		

620601	Of Cotton	Piece	1.08
620602	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Piece	1.08
620603	Of Man Made Fibres	Piece	1.08
620604	Of Silk (other than containing Noil silk)	Piece	1.08
620605	Of Wool	Piece	1.08
620606	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Piece	1.08
620607	Of Cotton containing 1% or more by weight of spandex/ lycra/elastane	Piece	1.08
620699	Of Others	Piece	1.08
<b>6207</b>	<b>Men's or boys' singlets and other vests, underpants, briefs, nightshirts, pyjamas, bath-robos, dressing gowns and similar articles</b>		
<b>620701</b>	<b>Dressing gowns, bathrobes, pyjamas, nightshirts and similar articles</b>		
62070101	Of Cotton	Piece	1.08
62070102	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Piece	1.08
62070103	Of Man Made Fibres	Piece	1.08
62070104	Of Silk (other than containing Noil silk)	Piece	1.08
62070105	Of Wool	Piece	1.08
62070106	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Piece	1.08
62070107	Of Cotton containing 1% or more by weight of spandex/ lycra/elastane	Piece	1.08
62070199	Of Others	Piece	1.08
<b>620702</b>	<b>Singlets and other vests, underpants, briefs and similar articles</b>		
62070201	Of Cotton	Piece	1.08
62070202	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Piece	1.08
62070203	Of Man Made Fibres	Piece	1.08
62070204	Of Silk (other than containing Noil silk)	Piece	1.08
62070205	Of Wool	Piece	1.08
62070206	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Piece	1.08
62070207	Of Cotton containing 1% or more by weight of spandex/ lycra/elastane	Piece	1.08
62070299	Of Others	Piece	1.08
<b>6208</b>	<b>Women's or girls' singlets and other vests, slips, petticoats, briefs, panties, nightdresses, pyjamas, negliges, bathrobes, dressing gowns and similar articles</b>		
<b>620801</b>	<b>Dressing gowns, bathrobes, pyjamas, negliges, nightdresses (including nightshirts) and similar articles</b>		
62080101	Of Cotton	Piece	1.08
62080102	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Piece	1.08
62080103	Of Man Made Fibres	Piece	1.08
62080104	Of Silk (other than containing Noil silk)	Piece	1.08
62080105	Of Wool	Piece	1.08
62080106	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Piece	1.08
62080107	Of Cotton containing 1% or more by weight of spandex/ lycra/elastane	Piece	1.08
62080199	Of Others	Piece	1.08
<b>620802</b>	<b>Singlets and other vests, slips, petticoats, briefs, panties and similar articles</b>		
62080201	Of Cotton	Piece	1.08
62080202	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Piece	1.08
62080203	Of Man Made Fibres	Piece	1.08
62080204	Of Silk (other than containing Noil silk)	Piece	1.08
62080205	Of Wool	Piece	1.08
62080206	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Piece	1.08
62080207	Of Cotton containing 1% or more by weight of spandex/ lycra/elastane	Piece	1.08
62080299	Of Others	Piece	1.08
<b>6209</b>	<b>Babies' garments and clothing accessories</b>		
620901	Of Cotton	Piece	1.08
620902	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Piece	1.08
620903	Of Man Made Fibres	Piece	1.08

620904	Of Silk (other than containing Noil silk)	Piece	1.08
620905	Of Wool	Piece	1.08
620906	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Piece	1.08
620907	Of Cotton containing 1% or more by weight of spandex/ lycra/elastane	Piece	1.08
620999	Of Others	Piece	1.08
<b>6210</b>	<b>Garments, made up of fabrics of heading 5602, 5603, 5903, 5906 or 5907</b>		
621001	Of Cotton	Piece	1.08
621002	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Piece	1.08
621003	Of Man Made Fibres	Piece	1.08
621004	Of Silk (other than containing Noil silk)	Piece	1.08
621005	Of Wool	Piece	1.08
621006	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Piece	1.08
621099	Of Others	Piece	1.08
<b>6211</b>	<b>Track suits, ski suits and swimwear; other garments</b>		
<b>621101</b>	<b>Women's or girls' blouses, shirts and shirt-blouses, with tightening at the bottom</b>		
62110101	Of Cotton	Piece	1.08
62110102	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Piece	1.08
62110103	Of Man Made Fibres	Piece	1.08
62110104	Of Silk (other than containing Noil silk)	Piece	1.08
62110105	Of Wool	Piece	1.08
62110106	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Piece	1.08
62110107	Of Cotton containing 1% or more by weight of spandex/ lycra/elastane	Piece	1.08
62110199	Of Others	Piece	1.08
<b>621102</b>	<b>Women's or girls' tops/cami</b>		
62110201	Of Cotton	Piece	1.08
62110202	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Piece	1.08
62110203	Of Man Made Fibres	Piece	1.08
62110204	Of Silk (other than containing Noil silk)	Piece	1.08
62110205	Of Wool	Piece	1.08
62110206	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Piece	1.08
62110207	Of Cotton containing 1% or more by weight of spandex/ lycra/elastane	Piece	1.08
62110299	Of Others	Piece	1.08
<b>621103</b>	<b>Other jackets not covered under heading 6203 or 6204</b>		
62110301	Of Cotton	Piece	1.08
62110302	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Piece	1.08
62110303	Of Man Made Fibres	Piece	1.08
62110304	Of Silk (other than containing Noil silk)	Piece	1.08
62110305	Of Wool	Piece	1.08
62110306	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Piece	1.08
62110399	Of Others	Piece	1.08
<b>621104</b>	<b>Protective industrial wear</b>		
62110401	Protective industrial wear overall/coverall made of cotton	Piece	1.08
62110402	Other protective industrial wear made of cotton	Piece	1.08
62110403	Protective industrial wear overall/coverall made of Aramid fibre or Modacrylic fibre	Piece	1.08
62110404	Other protective industrial wear made of Aramid fibre	Piece	1.08
62110405	Protective industrial wear overall/coverall made of Modacrylic fibre	Piece	1.08
62110406	Other protective industrial wear made of Modacrylic fibre	Piece	1.08
62110499	Other protective industrial wear	Piece	1.08
<b>621105</b>	<b>Kurta and Salwar/ Salwar suits/ salwar-kameez/ churidar-kameez, with or without dupatta</b>		
62110501	Of Cotton	Piece	1.08
62110502	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Piece	1.08
62110503	Of Man Made Fibres	Piece	1.08

62110504	Of Silk (other than containing Noil silk)	Piece	1.08
62110505	Of Wool	Piece	1.08
62110506	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Piece	1.08
62110599	Of Others	Piece	1.08
<b>621106</b>	<b>Others</b>		
62110601	Of Cotton	Piece	1.08
62110602	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Piece	1.08
62110603	Of Man Made Fibres	Piece	1.08
62110604	Of Silk (other than containing Noil silk)	Piece	1.08
62110605	Of Wool	Piece	1.08
62110606	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Piece	1.08
62110699	Of Others	Piece	1.08
<b>6212</b>	<b>Brassieres, girdles, corsets, braces, suspenders, garters and similar articles and parts thereof, whether or not knitted or crocheted</b>		
621201	Of Cotton	Kg	1.08
621202	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Kg	1.08
621203	Of Man Made Fibres	Kg	1.08
621204	Of Silk (other than containing Noil silk)	Kg	1.08
621205	Of Wool	Kg	1.08
621206	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Kg	1.08
621299	Of Others	Kg	1.08
<b>6213</b>	<b>Handkerchiefs</b>		
621301	Of Cotton	Kg	1.08
621302	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Kg	1.08
621303	Of Man Made Fibres	Kg	1.08
621304	Of Silk (other than containing Noil silk)	Kg	1.08
621305	Of Wool	Kg	1.08
621306	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Kg	1.08
621399	Of Others	Kg	1.08
<b>6214</b>	<b>Shawls, scarves, mufflers, mantillas, veils and the like</b>		
<b>621401</b>	<b>Shawls, scarves, mufflers, stoles, mantillas and veils</b>		
62140101	Of Cotton	Piece	1.08
62140102	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Piece	1.08
62140103	Of Man Made Fibres	Piece	1.08
62140104	Of Silk (other than containing Noil silk)	Piece	1.08
62140105	Of Wool	Piece	1.08
62140106	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Piece	1.08
62140199	Of Others	Piece	1.08
<b>621402</b>	<b>Others</b>		
62140201	Of Cotton	Kg	1.08
62140202	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Kg	1.08
62140203	Of Man Made Fibres	Kg	1.08
62140204	Of Silk (other than containing Noil silk)	Kg	1.08
62140205	Of Wool	Kg	1.08
62140206	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Kg	1.08
62140299	Of Others	Kg	1.08
<b>6215</b>	<b>Ties, bow ties and cravats</b>		
621501	Of Cotton	Kg	1.08
621502	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Kg	1.08
621503	Of Man Made Fibres	Kg	1.08
621504	Of Silk (other than containing Noil silk)	Kg	1.08
621505	Of Wool	Kg	1.08
621506	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Kg	1.08
621599	Of Others	Kg	1.08
<b>6216</b>	<b>Gloves, mittens and mitts</b>		
621601	Of Cotton	Kg	1.08
621602	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Kg	1.08
621603	Of Man Made Fibres	Kg	1.08

621604	Of Silk (other than containing Noil silk)	Kg	1.08
621605	Of Wool	Kg	1.08
621606	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Kg	1.08
621607	Gloves, specially designed for use in sports namely Golf Gloves made of textile materials	Piece	1.08
621699	Of Others	Kg	1.08
<b>6217</b>	<b>Other made up clothing accessories; parts of garments or of clothing accessories, other than those of heading 6212</b>		
621701	Of Cotton	Kg	1.08
621702	Of Blend containing Cotton and Man Made Fibre	Kg	1.08
621703	Of Man Made Fibres	Kg	1.08
621704	Of Silk (other than containing Noil silk)	Kg	1.08
621705	Of Wool	Kg	1.08
621706	Of Blend containing Wool and Man Made Fibre	Kg	1.08
621799	Of Others	Kg	1.08